CMYK

अधिकतम :41° C
न्यूनतम: 27° C
तापमान

सेंसेक्स 82,530.74
निफ्टी 25,061.10

सोना 95,100
चांदी 97,000

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

बरेली, शुक्रवार 16 मई 2025 बरेली संस्करण: वर्ष 22 अंक 171 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

www.shahtimesnews.com

विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें। मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 4 विक्रमी सम्वत् 2082 17 ज़ीक़ादा 1446 हिजरी नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित

शुभांशु शुक्ला आठ जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे

विस्तृत खबर देश-विदेश पर

मुंबई के लिए बेहतर बल्लेबाजी कर रहे रोहित

विस्तृत खबर खेल टाइम्स पर

समूचे आतंकी ढांचे के खात्मे तक सिंधु जल संधि पर रहेगी रोक

विदेश मंत्री एस.जयशंकर का पाकिस्तान को करारा जवाब

कहा: कश्मीर पर सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे को खाली कराने को लेकर बात होगी

पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों की जवाबदेही तय करने के हमारे पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को दो टूक शब्दों में कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी, जब तक पाकिस्तान स्थायी तौर पर सीमापार आतंकवाद खत्म नहीं करता। कश्मीर पर सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे को खाली कराने को लेकर बात होगी।

विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर ने यहां होंडुरास के नए दूतावास का उद्घाटन के अवसर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे लिए यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास होंडुरास का नया दूतावास है। होंडुरास उन देशों में से एक है, जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के समय मजबूत एकजुटता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषियों की जवाबदेही तय करने के हमारे पक्ष को वास्तव में बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। हमारे पक्ष में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और 7 मई को उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाबदेह ठहराया गया। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध और व्यवहार पूरी तरह से द्विपक्षीय होंगे। यह वर्षों से राष्ट्रीय सहमति है, और इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल आतंकवाद पर होगी। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक सूची है, जिसके आधार पर आतंकवादियों को पकड़ कर हमें सौंपने और आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को बंद करने की आवश्यकता है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। हम उनके साथ आतंकवाद के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये वे वार्ताएं हैं, जो संभव हैं। सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करने के पाकिस्तान के अनुरोध के बारे में पूछे जाने पर डा. जयशंकर ने कहा कि सिंधु जल संधि पर रोक है और तब तक रोक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से नहीं रोका जाता। कश्मीर पर चर्चा के लिए केवल एक ही बात बची है, वह है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना। हम इस चर्चा के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ टैरिफ संबंधी मुद्दों के बारे में चर्चा करने पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता -शेष पृष्ठ दो पर

पाकिस्तान के परमाणु हथियार आईएईए की निगरानी में रखे जाएं: राजनाथ

श्रीनगर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की निगरानी में रखा जाना चाहिए।

रक्षा मंत्री श्रीनगर में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कई बार भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है।

आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैरजिम्मेदार और दुष्ट देश के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मेरा मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आईएईए (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) की निगरानी में रखा जाना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि भारत के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि हमने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। हम कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो हमारे बलों को पूरे देश में सम्मान के साथ देखा जाता है।

सेना प्रमुख ने की ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की बहादुरी और सतर्कता की सराहना

श्रीनगर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एलओसी पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए सैनिकों की वीरता, ऊर्जा और सतर्क कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने यह बात उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एलओसी पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने उच्च स्तर की परिचालन तैयारियों को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया और सैनिकों से किसी भी चुनौती का निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। सेना के एडीजीपीआई ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि जनरल द्विवेदी ने श्रीनगर स्थित चिनार कोर के डैगर डिवीजन के अग्रिम ठिकानों का दौरा किया।

कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में विजय शाह को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मप्र के मंत्री कुंवर विजय शाह की ओर से की गई 'अपमानजनक' टिप्पणियों के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया और कहा कि इस मामले पर शुक्रवार (आज) को सुनवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय ने मंत्री की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लेकर राज्य सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिया था। श्री शाह की ओर से उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने गुरुवार को इस याचिका का उल्लेख किए जाने पर कहा कि मंत्री शाह ने ऐसी टिप्पणी की है जो गैर-जिम्मेदाराना है।

नए वक्फ कानून की विवादित धाराओं पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी

20 मई की सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों को दो-दो घंटे बहस के लिए दिए जाएंगे

वक्फ संशोधन कानून की विवादित धाराओं पर रोक का जारी रहना एक आशाजनक प्रगति: मौलाना मदनी

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार को करने का आदेश दिया।

अगली सुनवाई में अदालत, अंतरिम स्टे से संबंधित पक्षकारों की दलीलों को सुनेगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर बहस के लिए वकीलों को दो-दो घंटे का समय दिया जाएगा, और विपक्षी और पक्ष को जवाब देने के लिए भी दो घंटे का समय दिया जाएगा। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि बहस के लिए वकीलों की नियुक्ति पक्षकारों पर छोड़ दी गई है, लेकिन दोनों पक्ष तय समय के अनुसार ही बहस कर सकेंगे। जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने एक संक्षिप्त नोट तैयार किया है, जिसके आधार पर ही बहस की जाएगी। कपिल सिब्बल द्वारा तैयार नोट का जवाब केंद्र सरकार सोमवार तक अदालत में दाखिल करेगी, इस बात की पुष्टि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश को दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 20 मई को करेगा। कपिल सिब्बल के अनुरोध पर अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा विवादित धाराओं पर दी गई आश्वासन को अगली सुनवाई तक बरकरार रखने का आदेश दिया है। गुरुवार को भी अदालत में वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में दाखिल याचिका पर बहस करने की अनुमति मांगी गई, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया और कहा -शेष पृष्ठ दो पर

बांके बिहारी मंदिर की धनराशि को कॉरिडोर बनाने पर खर्च कर सकेगी यूपी सरकार

नई दिल्ली। उप्र सरकार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की धनराशि (फंड) का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुमति देते हुए कहा कि वह इस धनराशि से कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास पांच एकड़ भूमि खरीद सकती है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, उसका मंदिर के देवता के नाम पर पंजीकरण कराना होगा। कोर्ट ने कॉरिडोर के लिए राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपये की विकास योजना को ध्यान में रखते हुए बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की सावधि जमा राशि के उपयोग की अनुमति दे दी। वृंदावन के श्रीबांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण मामले में 20 नवम्बर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कॉरिडोर का निर्माण हो, लेकिन इसमें मंदिर फंड का इस्तेमाल न करें। सरकार अपने स्तर से इसका खर्च वहन करे।

भारत-पाक सीजफायर पर पांच दिन बाद ट्रम्प का यू-टर्न

पहले कहा था सीजफायर कराया, अब बोले- मैंने सिर्फ मदद की

दोहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 5 दिन बाद भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने के अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन मैंने मदद की है।

ट्रम्प ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत-पाकिस्तान के बीच जो हुआ, मैंने उसे सेटल करने में मदद की। भारत- पाकिस्तान के बीच और भी भयावह हमले हो सकते थे। दोनों देशों ने अचानक मिसाइल दागनी शुरू कर दी, लेकिन हमने सब सेटल कर दिया। ट्रम्प ने 10 मई को दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को समझदारी दिखाने के लिए बधाई। डोनाल्ड ट्रम्प दोहा में अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों को संबोधित कर रहे थे, उनके पीछे मंच पर शक्ति के जरिये शांति का बैनर लगा था। मुझे उम्मीद है कि मैं यहां से बाहर नहीं निकलता और दो दिन बाद पता चलता कि मामला सुलझा नहीं है, लेकिन मामला सुलझ गया। मैंने दोनों से व्यापार को लेकर बात की। मैंने कहा कि युद्ध के बजाय व्यापार करें। पाकिस्तान बहुत खुश था, भारत बहुत खुश था।

कश्मीर: सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद नादेर, त्राल इलाके में घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके बीच तड़के मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। हालांकि तीनों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और न ही यह जानकारी मिल पाई है कि वे किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं। तलाशी अभियान अभी जारी है। मंगलवार के बाद से दक्षिण कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हुई यह दूसरी मुठभेड़ है।

अमित शाह ने घायल सुरक्षाकर्मियों से मुलाकात की

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान में घायल सुरक्षाकर्मियों से यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स में जाकर मुलाकात की और उनका हाल चाल पूछा। श्री शाह दोपहर को एम्स में ट्रामा सेंटर गए और वहां भर्ती सुरक्षाकर्मियों से बातचीत की तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उनके साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी थे। केन्द्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षाकर्मियों से बात की सफल अभियान के लिए उनकी सराहना की।

डा. अजय कुमार ने यूपीएससी अध्यक्ष का पद संभाला

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सचिव डा. अजय कुमार ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग-यूपीएससी के अध्यक्ष पद के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने उन्हें शपथ दिलाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद डा. अजय कुमार ने अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय से एप्लाइड इकोनॉमिक्स में एमएस और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपा डोजियर

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति में पाकिस्तान के आतंकवादी गिरोह लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ पर प्रतिबंध लगवाने के मकसद से आई एक भारतीय तकनीकी टीम ने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की और टीआरएफ के बारे में एक डोज़ियर सौंपा। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने भारतीय तकनीकी टीम की यात्रा के बारे बताया कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय के प्रभारी अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोनकोव और आतंकवाद निरोधक सीटीईडी की सहायक महासचिव नतालिया गेरमैन ने भारत के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

इस्लाम में बहु विवाह की अनुमति शर्तों के साथ दी गई

हाईकोर्ट ने मौलवियों से कहा: वह देखें कि इस्लामिक कानून का दुरुपयोग न होने पाए

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में कहा है कि इस्लाम में बहु-विवाह की अनुमति शर्तों के साथ दी गई है, लेकिन कुछ मुस्लिम स्वार्थ व सेक्स की पूर्ति के लिए शादी कर इस्लामी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं।

कोर्ट ने मौलवियों से कहा है कि वह देखें कि इस्लामिक कानून का दुरुपयोग न होने पाए। कोर्ट ने कहा शरियत कानून के तहत मुस्लिम चार शादी कर सकता है बशर्ते सभी के साथ समान व्यवहार करें। शरियत में प्रतिबंधित शादी करने पर बातिल (शून्य) घोषित करने का प्रावधान है,ऐसी अर्जी की शरियत कानून के तहत परिवार अदालतों को सुनवाई कर तय करने का क्षेत्राधिकार है, जो बिना अधिकार मौलवियों द्वारा किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक कानून के अलावा अन्य कानूनों में शादी करने वाला यदि धर्म बदलकर इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करता है, तो यह द्विविवाह का अपराध माना जाएगा।

मणिपुर में मुठभेड़ 10 उग्रवादी ढेर

इंफाल। मणिपुर के चंदेल जिले में गुरुवार को असम राइफल्स और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। भारत-म्यांमार बॉर्डर पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की ईस्टर्न कमान ने बताया कि 14 मई को न्यू समताल गांव के पास उग्रवादियों की गतिविधि की जानकारी मिली थी। इसके बाद असम राइफल्स की यूनिट ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान उग्रवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 10 उग्रवादी मारे गए। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ है। इधर, सुरक्षाबलों ने मणिपुर के 4 जिलों में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े सात उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां थोउबाल, काकचिंग, बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों से हुई हैं।

जेएनयू की राह पर चला जामिया, तुर्की से की 'तौबा'

विश्वविद्यालय ने हर तरह का समझौता किया निलंबित

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को मदद की। इसके बाद देशभर में तुर्की का बहिष्कार किया जा रहा है।

इसी कड़ी में गुरुवार को जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ने भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। जामिया ने तुर्की सरकार से संबद्ध किसी भी संस्थान के बीच किसी भी तरह के समझौता ज्ञापन को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। बुधवार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने भी तुर्की के एक विश्वविद्यालय के साथ तीन साल की अवधि के लिए किए गए समझौता ज्ञापन को स्थगित कर दिया था। जामिया मिलिया इस्लामिया के एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर, तुर्की सरकार से संबद्ध किसी भी संस्थान के बीच किसी भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा है।

तुर्की की कंपनी का भारत में सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द

नई दिल्ली। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जवाबी सैन्य कार्रवाई में उसकी मदद करने वाले तुर्किए के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाते हुए गुरुवार को उसकी कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी। नागर विमानन मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा कि ग्राउंड हैंडिलिंग एजेन्सी श्रेणी में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक ने कहा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को देखते हुए उठाया गया है। यह कंपनी दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर काम कर रही थी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा परामर्श

क्या न्यायालय विधेयकों को मंजूरी देने या न देने के लिए राष्ट्रपति व राज्यपालों के लिए कोई समयसीमा निर्धारित कर सकता है

पूछा: क्या संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है

क्या संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत किसी कानून को लागू किए जाने से पहले उस पर क्रमश: राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय न्यायोचित हैं?

क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक की विषय-वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना उचित है?

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय से इस सवाल पर आधिकारिक राय मांगी है कि क्या न्यायालय विधेयकों को मंजूरी देने या न देने के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकता है।

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय से राय मांगी है। राष्ट्रपति ने 13 मई को भेजे गए इस संदर्भ में 14 प्रश्नों पर न्यायालय की राय मांगी है। इनमें यह भी पूछा गया है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। उन्होंने पूछा है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत किसी कानून को लागू किए जाने से पहले उस पर क्रमश: राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय न्यायोचित हैं? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक की विषय-वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना (किसी भी तरीके से कानून बनने से पहले) उचित है? इसमें यह भी पूछा गया कि क्या न्यायालय अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति/राज्यपाल के/द्वारा दिए गए आदेशों को किसी भी तरीके से प्रतिस्थापित कर सकता है। यह भी राय मांगी गई है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू हो सकता है। संदर्भ में आगे पूछा गया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर, इस न्यायालय (शीर्ष अदालत) की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है, जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा जुड़ा है और उसे कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजा जाए। राष्ट्रपति ने यह भी जानना चाहा है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियां प्रक्रिया संबंधी कानूनों तक के लिए ही सीमित हैं।

केंद्र जल्द नए स्पेशल पोक्सो कोर्ट बनाए: सुप्रीम कोर्ट

300 पेंडिंग केस वाले जिलों को प्राथमिकता दें

इनकी कमी से मामले निपटने में देर हो रही

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों से निपटने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पोक्सो कोर्ट बनाए।

कोर्ट ने कहा कि कई राज्यों ने स्पेशल पोक्सो कोर्ट बनाए हैं, लेकिन तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केस पेंडेंसी के चलते और ज्यादा कोर्ट बनाए जाने की जरूरत है। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट कम होने के कारण मामले की जांच करने के लिए डेडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने पोक्सो केस के लिए निर्धारित डेडलाइन के अंदर ट्रायल पूरा करने के अलावा निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट और एमिकस क्यूरी वी गिरी और सीनियर एडवोकेट उत्तरा बब्बर को पोक्सो कोर्ट की स्थिति पर राज्यवार डीटेल देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से उन जिलों में दो कोर्ट बनाने को कहा जहां पोक्सो अधिनियम के तहत बाल शोषण के पेंडिंग मामलों की संख्या 300 से ज्यादा है।

संक्षिप्त समाचार

मप्र के मंत्री पर भाजपा के एक्शन का इंतजार: मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को कहा कि कर्नल सोफिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक्शन की पूरे देश को प्रतीक्षा है। सुश्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया पहलगाम हत्याकाण्ड के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के विरुद्ध सेना के आपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात दर्ज एफआईआर उचित, किन्तु भाजपा की ओर से एक्शन की देश को प्रतीक्षा। उन्होंने कहा कि देश में साम्प्रदायिक व जातिवादी द्वेष, नफरत, हिंसा व तनाव फैलाने वालों के खिलाफ, कोर्ट से पहले, राज्य सरकारों को बिना भेदभाव कार्रवाई करके अपराध नियंत्रण व कानून-व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी, वरना अपेक्षित विकास बाधित होता रहेगा, जो जन व देशहित में सही नहीं।

सीएम योगी तिलक विरोधी: अखिलेश

अमेठी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को अमेठी दौरे के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तिलक विरोधी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर बातचीत की। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर ये टिपण्णी कर दी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हमें अपनी बहादुर फौज पर गर्व है, हमारे फौजी दुनिया की जो फौजें हैं, उनसे कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं। कर्नल सोफिया के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी ने यही इनका चाल चरित्र चेहरा है।अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, आधी आबादी और जो पीड़ित हैं, दु:खी हैं, हम उसके साथ हैं। इससे पहले अखिलेश ने बीजेपी पर तंज भी खूब कसे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है।

बर्खास्त शिक्षकों ने राज्य शिक्षा विभाग मुख्यालय का किया घेराव

कोलकाता। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के मुख्यालय 'विकास भवन' का शुक्रवार को हजारों बर्खास्त शिक्षकों ने घेराव कर अपनी बहाली की मांग की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बर्खास्त शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन वर्ष 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के खिलाफ था। शिक्षकों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश द्वारा बर्खास्त किया गया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा था। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने कथित नकद- नौकरी घोटाले के बाद सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 26,000 शिक्षकों को प्रभावित करने वाले एक फैसले के तहत वर्ष 2016 के पूरे पैनल की भर्ती रद्द कर दी थी। इस मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था और वह अब न्यायिक हिरासत में हैं।

सीड पार्क, नई दुग्ध नीति को मंजूरी के प्रस्तावों पर मंजूरी

योगी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर

लखनऊ।

यूपी कैबिनेट की गुरुवार को लखनऊ में हुई बैठक में सीड पार्क से लेकर नई दुग्ध नीति, पंचायत उत्सव भवन समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज कैबिनेट में 10 अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद कैबिनेट द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को अभिनन्दन प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने यूपी में सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व पीएम चौ. चरण सिंह जी के नाम पर होगा। इस पार्क को लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इसके लिए 251.70 करोड़ की लागत आएगी। नगर विकास विभाग में अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अमृत योजना 1 में 7 निकायों के 90 करोड़ धनराशि के निकाय अंश को माफ किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। उत्तरप्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में पूंजीगत अनुदान 35 प्रतिशत किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के लिए मेसर्स आरसीसीपीएल रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जेके सीमेंट प्रयागराज 450.92 करोड़, मून बेव. रेज लिमिटेड हापुड़ 469.61 करोड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर 403.88 करोड़, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर 399.74 करोड़, चांदपुर इंटरप्राइजेज 273.9 करोड़ को एलओसी दिए जाने को मंजूरी दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं के बैठकों आदि में होने वाले व्ययों के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी मिली। पंचायत उत्सव भवन के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नागरिक उड्डयन विभाग में निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कार्मिकों में (पायलट,को पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कार्मिकों व तकनीकी गैर तकनीकी स्टाफ)को सातवें वेतन आयोग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर के लिए 403.88 करोड़ रुपये मंजूर

- चांदपुर इंटरप्राइजेज 273.9 करोड़ को एलओसी दिए जाने को मंजूरी, लखनऊ में चौ. चरण सिंह के नाम पर होगा सीड पार्क

यूपी में 30 करोड़ से ज्यादा की दवाएं जब्त

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी के निर्देश पर सरकार ने नकली दवाओं के गोरखधंधे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग ने पूरे प्रदेश में छापेमारी अभियान चलाकर 30 करोड़ 77 लाख रुपये की नकली दवाएं जब्त की हैं। कार्रवाई के दौरान 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1166 दवा कारोबारियों के लाइसेंस रद कर दिए गए हैं। इसके अलावा, 6 दवा निर्माण कंपनियों और 5 ब्लड बैंकों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं।

सचिवालय कर्मियों के 25 फीसद तक बढ़े भत्ते

लखनऊ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात अलग-अलग कैडर के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों और अधिकारियों के विशेष भत्तों में 25 फीसद की बढ़ोतरी की है। गुरुवार को वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार के इस फैसले से 3500 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। योगी सरकार के इस फैसले के बाद सचिवालय में कंप्यूटर तकनीशियन के विशेष भत्ते को अब 790 रुपये से बढ़ाकर 950 रुपये तक कर दिया गया है. इसके साथ ही सहायक समीक्षा अधिकारी और उनके समकक्ष वेतनमान अधिकारियों को जिन्हें अब तक विशेष भत्ते के तौर पर 1,070 रुपये दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर 1,275 रुपये कर दिया गया है। इनके साथ ही समीक्षा अधिकारी का विशेष भत्ते में भी इजाफा किया गया है। इन अधिकारियों का विशेष भत्ता 1,500 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये कर दिया गया है। सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के पदों के लिए विशेष भत्ता और उनके समकक्ष वेतनमान 1,880 रुपये से बढ़कर 2,250 रुपये हो गए है। सचिवालय सेवा के लिए विशेष भत्ता और उनके समकक्ष वेतन पैमाने के अधिकारियों को अब 1,940 रुपये दिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाकर 2,350 रुपये से बढ़कर किए गए हैं। सचिवालय सेवा उपसचिव के विशेष भत्ते को 2,070 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया है। संयुक्त सचिव व उनके समकक्ष अधिकारियों का विशेष भत्ता 2,500 से 2,700 रुपये हो गया है। सचिवालय सेवा के विशेष सचिव और इसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी को 2,500 रुपये विशेष भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 3,000 रुपये हो गया है।

जाति जनगणना पर कांग्रेस के दबाव में झुके मोदी: राहुल गांधी

दरभंगा, वार्ता

कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के खिलाफ थे, लेकिन उनकी (श्री गांधी) ओर से लगातार जारी दबाव में आकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की जाति जनगणना कराने की घोषणा की है।

गांधी ने गुरुवार को यहां जिला प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अंबेडकर छात्रावास में छात्रों को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के खिलाफ थे। यह उनका दबाव था, जिसने मोदी को राष्ट्रीय स्तर की जाति जनगणना के लिए तैयार होने को मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना पूर्ण हुई, तो यह समाज के वंचित और उत्पीड़ित वर्ग के हित में होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना निष्पक्ष और सही तरीके से हो ताकि विकास के रास्ते में पीछे रह गए लोगों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना सही तरीके से कराई। अब केंद्र की मोदी सरकार को तेलंगाना की तर्ज पर जाति जनगणना करानी चाहिए। गांधी ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की आबादी 90 प्रतिशत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इन सभी को हर रोज यातना और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायपालिका, नौकरशाही और कॉर्पोरेट क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी की भागीदारी शून्य है। हालांकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत सूचीबद्ध मजदूरों में उनकी संख्या सबसे अधिक है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को निजी संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। इन वर्गों के आरक्षण के लिए कानून तो है, लेकिन इसे न तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और न ही बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लागू कर रही है।

- तेलंगाना की तर्ज पर की जानी चाहिए जनगणना

राहुल को संवाद करने से रोकने पर भड़की कांग्रेस

नई दिल्ली, वार्ता

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वह बिहार के दरभंगा में अम्बेडकर हॉस्टल में दलित तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों से संवाद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। हालांकि संविधान और लोकतंत्र में तानाशाही से कोई उन्हें रोक नहीं सकता है।

गांधी को दलित छात्रों से संवाद करने से रोकने की खबर आते ही कांग्रेस का गुस्सा भड़क गया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के इस प्रयास को तानाशाही करार दते हुए इसे निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार न्याय और क्रांति की धरती है और वहां की जनता इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि बिहार में एनडीए की 'डबल इंजन धोखेबाज़ सरकार' मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया। नीतीश आप किस बात से डर रहे हैं। क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं। भारत लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, न कि तानाशाही से, हमें सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने से कोई नहीं रोक सकता। खड़गे ने कहा कि अब क्या दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के छात्रों से संवाद करना संविधान के खिलाफ है। क्या उनकी शिक्षा, उनकी भर्ती परीक्षा और नौकरियों के बारे में उनसे बात. चीत करना कोई पाप है।

- दलित और पिछड़ा वर्ग के छात्रों से संवाद करना चाहते थे राहुल

सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करने को करेंगे जय हिंद सभाएं: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सशस्त्र बलों की सशक्त जवाबी कारवाई को सलाम करने के लिए पार्टी देशभर जय हिंद सभाओं का आयोजन करेगी। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी देते हुए आज बताया कि कांग्रेस सशस्त्र बलों की सर्वोच्च वीरता और सफलता को सलाम करने के लिए पूरे भारत में 'जय हिंद सभा' आयोजित करेगी।

लखनऊ में चलती एसी बस में आग, पांच लोग जिंदा जले

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ में गुरुवार सुबह चलती एसी बस में आग लग गई। हादसे में 5 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में मां-बेटी, भाई-बहन और एक युवक है। बस में करीब 80 यात्री थे। स्लीपर बस बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी। हादसा सुबह 4.40 बजे आउटर रिंग रोड (किसान पथ) पर मोहनलालगंज के पास हुआ। उस वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे।

यात्रियों ने बताया कि बस में अचानक धुआं भरने लगा। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। कुछ ही मिनटों में आग की तेज लपटें उठने लगीं। बस के अंदर भगदड़ मच गई। ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर भाग गए। ड्राइवर की सीट के पास एक एक्स्ट्रा सीट लगी थी। ऐसे में यात्रियों को नीचे उतरने में दिक्कत हुई। कई यात्री फंसकर गिर गए। आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचीं, तब तक पूरी बस जल चुकी थी। दमकल ने करीब 30 मिनट में आग बुझाई। टीम अंदर पहुंची, तो जले हुए 5 शव मिले। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि बस का परमिट 2023 में ही समाप्त हो चुका था। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्री राम बालक महतो ने बस मालिक, ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ मोहनलालगंज थाने में तहरीर दी है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि राम बालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

- पिता के सामने बेटा-बेटी की मौत, इमरजेंसी गेट नहीं खुला बिहार से दिल्ली जा रही थी

बलरामपुर में ट्रक-कार में भिड़ंत, पांच मरे, आठ घायल

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चकवा चौकी के पास गुरुवार देर रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में बारात से लौट रहें एक ही परिवार के पांच लोगो की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार इटियाथोक थाना क्षेत्र के कस्बा से पिंटू कुमार अपने परिवार संग कार से श्रावस्ती जिले के भालुहिया वीरपुर गांव में बहन के यहां शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था उन्होंने बताया कि इस हादसे में अजय कुमार (35), फूल बाबू (35), विजय कुमार (40), शिवकुमार (22) और मासूम आदित्य (8) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य आठ लोग घायल हो गए।

ट्रक की आटो में टक्कर छह की मौत, तीन गंभीर

हरदोई। यूपी के हरदोई में एक सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटोरिक्शा को टक्कर मार दी। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो चुका था। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। यह हादसा कासिमपुर थाना क्षेत्र के बांगरमऊ संडीला मार्ग पर हुआ। हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि गुरुवार को सुबह पौने नौ बजे कासिमपुर थाना क्षेत्र के बांग. रमऊ संडीला मार्ग पर यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में तीन लोग गंभीर घायल हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। दो को लखनऊ रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना पाकर संडीला सीओ सतेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर सीएचसी संडीला भेजा।

अर्थ व्यापार

चौतरफा लिवाली की बदौलत शेयर बाजार में तूफानी तेजी

मुंबई, वार्ता

अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता की प्रगति और स्थानीय स्तर पर महंगाई घटने से ब्याज दरों में कटौती होने की उम्मीद में हुई चौतरफा लिवाली की बदौलत शुक्रवार को शेयर बाजार में तूफानी तेजी रही।

बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1200.18 अंक अर्थात 1.48 प्रतिशत की छलांग लगाकर 82 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 82,530.74 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 395.20 अंक यानी 1.60 प्रतिशत उछलकर 25 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर 25062.10 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह बीएसई का मिडकैप 0.67 प्रतिशत की मजबूती के साथ 44,625.55 अंक और स्मॉलकैप 0.94 प्रतिशत की तेजी लेकर 50,450. 47 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान बीएसई में कुल 4115 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2637 में तेजी जबकि 1327 में गिरावट रही, वहीं 151 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह एनएसई की कुल 2942 कंपनियों के शेयरों में से 1980 में लिवाली जबकि 890 में बिकवाली हुई, वहीं 72 में टिकाव रहा। बीएसई के सभी 21 समूहों में तेजी का रुख रहा। इस दौरान कमोडिटीज 1.51, सीडी 1. 57, ऊर्जा 1.15, एफएमसीजी 0.65, वित्तीय सेवाएं 1.15, हेल्थकेयर 0.71, इंडस्ट्रियल्स 1.62, आईटी 1.25, दूरसंचार 1.02, यूटिलिटीज 0.80, ऑटो 1. 86, बैंकिंग 1.11, कैपिटल गुड्स 1.29, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.99, धातु 1.60, तेल एवं गैस 1.01, पावर 0.98, रियल्टी 1.87, टेक 1.36, सर्विसेज 1. 85 और फोकस्ड आईटी समूह के शेयर 1.14 प्रतिशत उछल गए। वैश्विक स्तर पर मिलाजुला रुख रहा। ब्रिटेन का एफटीएसई 0.04 प्रतिशत चढ़ गया। वहीं जर्मनी का डैक्स 0.20, जापान का निक्केई 0.98, हांगकांग का हैंगसेंग 0.79 और चीन के शंघाई कम्पोजिट में 0.68 प्रतिशत की गिरावट रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 24 अंक बढ़कर 81,354.43 अंक पर खुला, लेकिन भारी बिकवाली के दबाव में थोड़ी देर बाद ही 80,762. 16 अंक के निचले स्तर तक लुढ़क गया। वहीं दमदार लिवाली की बदौलत कारोबार के अंतिम चरण में यह 82,718.14 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अंत में पिछले दिवस के 81,330.56 अंक के मुकाबले 1.48 प्रतिशत उछलकर 82,530. 74 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 28 अंक उठकर 24,694.45 अंक पर खुला और सत्र के दौरान 24,494.45 अंक के निचले, जबकि 25,116.25 अंक के उच्चतम स्तर पर रहा। अंत में पिछले सत्र के 24,666.90 अंक की तुलना में 1.60 प्रतिशत की उड़ान भरकर 25,062.10 अंक हो गया। इस दौरान सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक की 0.16 प्रतिशत की गिरावट को छोड़कर अन्य 29 कंपनियों में तेजी रही।

खाद्य तेलों में टिकाव, अरहर दाल हुई महंगी

नई दिल्ली, वार्ता

विदेशी बाजारों की भारी गिरावट के बीच स्थानीय स्तर पर उठाव कमजोर रहने से गुरुवार को दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेलों में टिकाव रहा, जबकि मांग निकालने से अरहर दाल महंगी हो गई, वहीं अन्य जिंसों के भाव स्थिर रहे।

तेल-तिलहन: वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का मई वायदा 69 रिंगिट लुढ़ककर 3831 रिंगिट प्रति टन पर आ गया। इसी तरह मई का अमेरिकी सोया तेल वायदा 3.00 सेंट गिरावट लेकर 49.42 सेंट प्रति पौंड बोला गया। इस दौरान घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में टिकाव रहा। सरसों तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, सोया रिफाइंड, पाम ऑयल और वनस्पति तेल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। गुड़-चीनी: मीठे के बाजार में स्थिरता रही। इस दौरान चीनी और गुड़ के भाव पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर टिके रहे। दाल-दलहन: दाल-दलहन के बाजार में अरहर दाल में 50 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी छोड़कर अन्य दालों में टिकाव रहा। इस दौरान चना, दाल चना, मसूर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल में कोई बदलाव नहीं हुआ। अनाज: अनाज मंडी में भाव स्थिर रहे। इस दौरान गेहूं और चावल के दाम पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर पड़े रहे।

चीनी और गुड़ के भाव पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर टिके रहे

प्रथम पृष्ठ के शेष...

समूचे आतंकी...

चल रही है। ये जटिल वार्ताएं हैं। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी तय नहीं होता। कोई भी व्यापार सौदा परस्पर लाभकारी होना चाहिए और इसे दोनों देशों के लिए कारगर होना चाहिए। व्यापार सौदे से हमारी यही अपेक्षा होगी। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, इस पर कोई भी निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के बारे में एक सवाल पर डा. जयशंकर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि गोलीबारी बंद करना कौन चाहता था। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादी ढांचे को नष्ट करके जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें हासिल कर लिया गया था। चूंकि प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिए गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि हमने उचित रूप से यह रुख अपनाया, क्योंकि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को यह संदेश भेज दिया था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि उसकी सेना पर और पाकिस्तानी सेना के पास यह विकल्प है कि वह अलग खड़ी रहे और हस्तक्षेप न करे। लेकिन उन्होंने हमारी उस अच्छी सलाह को न मानने का फैसला किया। एक बार 10 मई की सुबह उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि हमने कितना नुकसान किया और वे कितना कम नुकसान कर पाये। यह स्पष्ट है कि कौन गोलीबारी बंद करना चाहता था।

नए वक्फ कानून....

कि केवल उन्हीं पांच याचिकाओं पर बहस की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें अदालत ने निर्धारित किया है। अन्य किसी याचिका पर बहस की अनुम. ति नहीं दी जाएगी। अदालत द्वारा निर्धारित पांच याचिकाओं में मौलाना अरशद मदनी की याचिका प्रथम क्रमांक पर है, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की। अगली सुनवाई में अदालत वक्फ संशोधनों पर अंतरिम स्टे से संबंधित ही सुनवाई करेगी, यह स्पष्टीकरण मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने गुरुवार की सुनवाई के दौरान दिया। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने गुरुवार की कानूनी प्रगति पर कहा कि आशा. जनक बात यह रही कि विवादित धाराओं पर रोक को अदालत ने बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों को दो-दो घंटे का समय बहस के लिए दिया गया है, यह इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी करना चाहती है। मौलाना मदनी ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि इस पर अदालत का अंतिम फैसला शीघ्रता से आ जाए, क्योंकि अखबारों में छपी खबरों के अनुसार नए वक्फ कानून की विवादित धाराओं पर रोक के बावजूद कई स्थानों पर मस्जिदों और दरगाहों को अवैध करार देकर गिरा दिया गया है। इसमें उत्तराखंड स्थित एक वक्फ दरगाह का मामला भी शामिल है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से लगे ज़िलों में कई मदरसों, कब्रिस्तानों, ईदगाहों ही नहीं, बल्कि कई मस्जिदों को भी अवैध या सरकारी जमीन पर स्थित बताकर तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान की सर्वोच्चता को खत्म कर चुके हों, उनसे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे कानून का सम्मान करेंगे? ये वही लोग हैं, जो सत्ता के नशे में खुद को ही कानून समझ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ 'दान' (चैरिटी) का ही एक रूप है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्फ को लेकर पिछले कुछ समय से बेहद ग़लत प्रचार किया गया है और बहुसंख्यक समुदाय को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है कि वक्फ की आड़ में मुसलमानों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जबकि दुखद सच्चाई यह है कि वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज्यादा कब्जा सरकार ने ही कर रखा है। यह वक्फ संशोधन कानून इसलिए लाया गया है, ताकि इस अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के साथ-साथ अन्य वक्फ संपत्तियों पर भी कब्जा करने का रास्ता आसान किया जा सके। गौरतलब है कि वक्फ कानून के लागू होने के बाद जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से की थी, जिसके बाद यह मामला तीन बार सूचीबद्ध हुआ, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं हो सका। वक्फ संशोधन कानून पर राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिलने के बाद मौलाना अरशद मदनी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मौलाना अरशद मदनी की ओर से एडवोकेट आन रिकार्ड फुजैल अय्यूबी ने यह याचिका दाखिल की है, जिसमें लिखा गया है कि यह कानून असंवैधानिक है और वक्फ प्रशासन व वक्फ के लिए विनाशकारी है।

विजय शाह के घर चले बुलडोजर: जमीयत

लखनऊ। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिन्द भी खुलकर सामने आ गई है। जमीयत उलेमा ए हिन्द यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा की भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्ति. जनक टिप्णी करने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को तत्काल बर्खास्त कर देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल देना चाहिए।

मोलाना काब रशीदी ने भाजपा पर सवाल उठाते हुआ कहा कि अब कहां है आपका बुलडोजर ? जो कल तक देश के मुसलमानों को डसते थे। अब वो विदेश सचिव और सेना को डस रहे हैं, पीएम कार्यालय क्यों खामोश है। हमारे पीएम और विदेश मंत्री क्यों नहीं बोल रहे? देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राजनीतिक हितों को नहीं देखना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उस मंत्री को तो बर्खास्त कर जेल में डालें। मौलाना काब रशीदी ने कहा कि देश में मानसिक रोगियों का एक ऐसा टोला है, जो मुसलमानों को गालियां देते देते अब देश को गाली देने लगा है ये वो लोग हैं, जिन्हें यह सिखाया जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से जहर फैलाएं और आग उगलें। आज ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है और पूरा देश एकजुट है। जम्मू कश्मीर तक के लोग तिरंगे की आन बान शान के लिए एक साथ लाल चौक पर खड़े हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने सबसे पहले देश को जानकारी दी थी और जो महिला देश का स्वभिमान बढ़ाने वाली है।

- मंत्री को तो बर्खास्त कर जेल में डालें: रशीदी

शाह टाइम्स क्लासीफाईड्स Sale

स्त्री के सामने लज्जित होने से बेहतर है
आज ही इलाज करा लेना खोई हुई मर्दाना ताकत दोबारा प्राप्त करने के लिए आज ही मिलें या फोन करें।
काजीजादा, अमरोहा-UP
हाशमी दवाखाना
9997161320, 8272800800

काम कोर्स उदास क्यों?
अधिक संतुष्टि, हैरतअंगेज पावर, शीघ्रपतन, नपुंसकता, बचपन की गलतियों से हमेशा के लिए छुटकारा।
फोन कर घर बैठे औषधियां डाक द्वारा प्राप्त करें।
ऋषि इन्टरनेशनल
08899787114
09808917010

Cipzer
HEALTH WITH CARE
जॉन्डिस क्योर
लिवर का जिगरी दोस्त
भूख की कमी, बदहजमी, जॉन्डिस, फैटी लीवर, एल्कोहलिक लिवर डिजीज आदि से लड़ने की ताकत देता है ताकि आप रहे फिट एण्ड एक्टिव
प्रमुख मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध।
86 8484 5757 info@cipzer.com

वैधानिक सूचना
पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार में प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें तथा उचित सलाह ले लें। कोई भी अभिदाता जो इस अखबार में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संदर्भ में कोई राशि भेजता है, किसी चिकित्सीय सलाह पर कोई कार्यवाही या खर्च करता है या कोई वचन देता है, तो ऐसा वह स्वविवेक, बुद्धि तथा जोखिम पर करेंगे। कम्पनी, प्रकाशक या उसका कोई कर्मचारी विज्ञापनदाता या उसके किसी उत्पाद या सेवा हेतु किये गये किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन नहीं देते तथा ऐसे विज्ञापनों विश्वास करके किसी व्यक्ति को हुई क्षति, हानि परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

हत्या कर आम के बाग में दबाया युवक का सिर

नौगांवा में बेरहमी से किया युवक का कत्ल

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। बेरहमी से पीटने के बाद युवक की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने धारदार हथियार से सिर धड़ से अलग कर दिया। पहचान छिपाने के लिए सिर कहीं और फेंक दिया और शव को आम के बाग में गड्ढा खोदकर दबा दिया। दुर्गंध आने पर कुत्तों के गड्ढा खोदने पर सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एएसपी-सीओ ने फिंगर प्रिंट एक्स्पर्ट को बुलाकर साक्ष्य एकत्र कराए। सिर तलाशने में नाकाम पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया है।

घटना थाना क्षेत्र के मोहल्ला हाता रोड स्थित एक आम की बाग की है जो कस्बे के रहने वाले कारोबारी मुदस्सिर का है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह कुछ लोग बाग के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बाग के बीचोबीच एक सिर कटी लाश देखी। जिसके आस-पास कुत्ते मंडरा रहे थे। हिम्मत जुटाते हुए लोगों ने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। अर्धनग्न लाश का सिर धड़ से गायब था जबकि उसका ज्यादातर हिस्सा मिट्टी के नीचे दबा था। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि जैसे दुर्गंध आने पर कुत्तों ने अपने पंजों से मिट्टी को हटाया है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंचे, जांच-पड़ताल की। इसके बाद सीओ अवधभान सिंह और फिर एएसपी राजीव कुमार सिंह भी आ गए। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाकर मौके से साक्ष्य एकत्र कराए और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिसकर्मियों ने बाग के अलावा आस-पास क्षेत्र में काफी तलाश किया लेकिन सिर का कुछ पता नहीं चला। एएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 40 साल लग रही है। शव की हालत बता रही कि हत्या आठ से दस दिन पूर्व की गई है। हत्यारे जो भी हैं वो क्षेत्र से पूरी तरह वाकिफ हैं। शव छिपाने के लिए जिस बाग को चुना गया है वह मुख्य सड़क से लगभग डेढ़ किमी दूर है। पूरा इलाका सूनसान और घना है, अंजान आदमी का यहां तक आना मुमकिन नहीं दिख रहा है। बताया कि अमरोहा के अलावा बिजनौर व मुरादाबाद के थानों को सूचना दी गई है। बीते दस से पंद्रह दिन के भीतर दर्ज हुई गुमशुदगियों का रिकार्ड खंगाला जा रहा है।

■ एएसपी व फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम ने किया मौके का निरीक्षण, नहीं हो सकी शिनाख्त

कारोबारी की बेटी जिम ट्रेनर के साथ फरार

मोबाइल नम्बर के आधार पर मुकदमा

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। प्रेम-प्रसंग के बीच शहर निवासी एक कारोबारी की बेटी जिम ट्रेनर के साथ फरार हो गई। ढूंढने में नाकाम परिजनों ने मोबाइल नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। यहां पर एक कारोबारी का परिवार रहता है। बुधवार सुबह करीब सात बजे कारोबारी की 25 वर्षीय बेटी जरूरत का सामान लेकर घर से भाग निकली। जानकारी पर परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने सभी संभावित स्थानों पर बेटी की तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। बाद में सामने आया कि युवती प्रेम प्रसंग के चलते शहर के ही निवासी एक जिम ट्रेनर के साथ फरार हुई है जो सुबोध नगर कॉलोनी का रहने वाला है। परेशान परिजनों ने पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं, इसी बीच हाईकोर्ट पहुंचकर प्रेमी युगल के शादी करने की चर्चा भी चल रही है। बताया जा रहा है कि बढ़ती उम्र के बीच शादी नहीं कराने पर युवती परिजनों से नाराज भी थी। करीब एक साल से जिम ट्रेनर के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि प्रेमी युगल की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। युवती को जल्दी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भाई से झगड़ा होने पर नहर में कूदी बहन

गोताखोर तलाश में जुटे

शाह टाइम्स संवाददाता

मंडी धनौरा। भाई-बहन के झगड़े के बाद गुस्साई बहन ने आत्मघाती कदम उठा लिया झगड़े के बाद बहन ने रामगंगा पोषक नहर में छलांग लगा दी। जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई गोताखोरों की मदद से किशोरी के तलाश की जा रही है।

थाना क्षेत्र के गांव नबाबपुरा भूड़ में बाबूराम का परिवार रहता है। गुरुवार की सुबह बाबूराम की 16 वर्षीय पुत्री वैशाली पर थी वैशाली का उसके छोटे भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद गुस्साई बहन पास में ही गांव पथवारी से होकर बह रही रामगंगा पोशक नहर में पथवारी पुल से छलांग लगा दी किशोरी की छलांग लगाता देख आस पास मौजूद लोगों ने शोर मचाया लोगो की भीड़ जुट गई जानकारी पर परिजनों में भी कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवती को तलाश कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक किशोरी का कुछ पता नहीं चल सका था। पुलिस ने तलाशी अभियान के लिए एनडीआरएफ को भी सूचना भेजी है। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि गांव नबाबपुरा भूड़ निवासी 16 वर्षीय किशोरी वैशाली ने भाई से झगड़े के बाद नहर में छलांग लगा दी गोताखोरों की मदद से किशोरी की तलाश कराई जा रही है। तलाश के लिए एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है।

आपरेशन सिंदूर की सफलता पर नगर में निकाली तिरंगा यात्रा

मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं देश की सीमाएंः शर्मा

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आपरेशन सिंदूर द्वारा देश के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटाई।

मिशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जिसकी शुरूआत नगर पालिका से हुई। यहां से मुख्य मार्ग होते हुए यात्रा हिन्दू डिग्री कालेज पहुंची। इस मौके पर बोलते मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में जिन महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ा इससे बड़ा दुख उनके जीवन का और नहीं हो सकता। इस घटना से पूरे देश में उबाल आ गया। हमारे देश के जवानों ने इसका बदला लेने के लिये आपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तथा पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को निस्तेनाबूत कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार मजबूत होता जा रहा है। यहां का हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था वह करके दिखाया। उन्होंने कहा कि आज देश की तरफ कोई आंख उठाने का साहस नहीं जुटा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी हालत खराब कर दी जायेगी। यात्रा में शिक्षक विधायक डा. हरि सिंह ढिल्लो, चेयरमैन शशि जैन, जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, पूरन सिंह सैनी, मयंक, प्रेम सिंह सैनी, राम सिंह सैनी, रमेश कलाल, अमित शर्मा, डा.केएस सैनी, ब्लाक प्रमुख सरदार गुरेन्द्र सिंह ढिल्लो, हरज्ञान सिंह, सुधीर चौहान, आदेश सैनी, सलमान हैदर, विनोद सैनी, अंकित चौधरी, उषा चंडोक, कंचन सिंह, विनीता सैनी, सीमा रायजयादा आदि मौजूद रहे।

पैसे निकालने गए व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदला

■ पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दर्ज किया मुकदमा

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। पैसे निकालने गए एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड धोखे से किसी दूसरे व्यक्ति ने बदल लिया। इस बात का पता उस समय चला जब कार्ड धारक फिर से पैसे निकालने एटीएम पर गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला जवाहरनगर निवासी भीम सिंह अधिकारी 19 अप्रैल को खादगूजर तिराहे के पास स्थित एचडीएफसी के एटीएम कार्ड पर पैसे निकालने गए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने धोखे से एटीएम कार्ड बदल लिया। उस समय भीम सिंह को इस बात का पता नहीं चल सका, लेकिन 03 मई को जब वह फिर से एटीएम कार्ड प्रयोग करने आया तो उसे पता चला। जिसके बाद उसने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

तीन सदस्य कमेटी करेगी सीएमओ पर लगे आरोपों की जांच

हर माह दो करोड़ रुपये अवैध वसूली का मामला

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। भाजपा नेता पिंटू भाटी ने सीएमओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते सम्पत्ति की जांच की मांग की है। उधर डीएम ने जांच के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है।

प्रेस से बात करते भाजपा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य पति पिंटू भाटी ने बताया कि जिले में 140 अल्ट्रासाउंड केन्द्र चल रहे हैं। जिनमें से मात्र 54 ही पंजीकृत हैं। अन्य सभी सैंटर अवैध रूप से संचालित किये जा रहे हैं। प्रत्येक सैंटर से हर माह तीस से 40 हजार रूपये की उगाही की जाती है। यह पैसा 1 से 5 तारीख के बीच सीएमओ कार्यालय पहुंच जाता है। ये ही नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर सीएमओ द्वारा मोटी उगाही तैयार की गयी है तथा पैनल में अपने चेहते स्वास्थ्य अधिकारियों को रखा गया। भाजपा नेता का आरोप है कि सीएमओ डा. सत्यपाल सिंह का भांजा सीएचसी रहरा का प्रभारी है जिसने नौकरी के नाम पर एक युवक से लाखों रूपये की रिश्वत ले ली जबकि उसके नौकरी नहीं मिली तथा उसकी रिश्वत भी नहीं लौटायी। चार साल से सीएमओ डा. सत्यपाल सिंह अपने गृहजनपद में डटे हैं उनका खुद का अल्ट्रासाउंड केन्द्र पैसल नर्सिंग होम के बराबर में है। जो व्यक्ति खुद अल्ट्रासाउंड केन्द्र चलाता हो वह कैसे अपने गृहजनपद में सीएमओ रह सकता है यह एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सब आरोपों से संबंधी भाजपा नेता ने वीडियो वायरल किया था। जिसे डीएम निधि गुप्ता वत्स ने गंभीरता से लेते हुए सीएमओ पर लगे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन किया है। जिसमें सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्र, एएसपी राजीव कुमार व डिप्टी कलेक्टर ब्रजपाल सिंह को रखा गया है। बताते चलें कि नगर पंचायत सैदनगली के ईओ पर भी लाखों रूपये रिश्वत लेने का आरोप लगा था। जिसकी जांच डीएम श्रीमति निधि गुप्ता वत्स ने एडीएम ब्रजेश कुमार त्रिपाठी को सौंपी थी। जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। देखना है कि सीएमओ के खिलाफ लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट कितने दिन में सामने आती है तथा सीएमओ पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं।

■ भाजपा नेता पिंटू भाटी के आरोपों पर डीएम ने लिया संज्ञान

बंदूक के दम पर प्लॉट पर कब्जे का प्रयास

दम्पति व बेटी के खिलाफ मुकदमा

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। महिला को लाइसेंसी बंदूक से डराकर प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता ने आरोपियों से अपनी जान को खतरा जताया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दंपति समेत उनकी बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।

डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव तोफापुर निवासी मंजू शर्मा का गांव में ही 170 गज का प्लॉट है। उनका आरोप है कि गांव निवासी शिवाजी शर्मा अपनी पत्नी व बेटी की मदद से उनके प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। आरोपियों ने इसी इरादे से प्लॉट की चारदीवारी तोड़ दी। विरोध जताने पर लाइसेंसी बंदूक दिखाकर डराया गया। परेशान पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने मामले में आरोपी दंपति व उनकी बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही।

भाजपा मंत्री शाह पर चले देशद्रोह का मुकदमा

कर्नल सोफिया के अपमान पर भड़के कांग्रेसी

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नल सोफिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाये जाने की मांग की। उन्होंने कलक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष ओमकार कटारिया ने कहा कि देश की बेटी भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सोफिया के बारे में माध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री विजय शाह द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शाह का ब्यान नारी जाति ही नहीं बल्कि देश की सेना का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ब्यान देने वाले शाह के खिलाफ मोदी की चुप्पी समझ से परे है। वह लगातार आधी आबादी को सशक्त बनाने का ढोंढरा पीटते है लेकिन उनके ही मंत्री नारी समाज का घोर अपमान कर रहे है। उन्होंने मंत्री शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाये जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालो में शहर अध्यक्ष फैज आलम रायनी, चौ. सुखराज सिंह, सचिन चौहान, ख्यालीराम राणा, राजकुमार अरूण, शाहिद सि्दीकी, मयंक गुर्जर, मेराजुल जफर एड., अली इमाम रिजवी, जीशान अली, मोहसिन अली, इकबाल अंसरी, योगेन्द्र कटारिया, शाहबुद्दीन सैफी, रईस अहमद, विक्रम गुर्जर शामिल थे।

भाजपा मंत्री विजय शाह पर हो कठोर कार्रवाई

सपाईयों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। सपा कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होने उनके बयान को नारी व देश की सेना के लिए शर्मनाक बताया।

सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष नूर सबा ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी अहम भूमिका निभाकर देश के प्रति सच्ची वफादारी निभायी। जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये कम है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बयान की निंदा करते कहा कि उन्होंने सोफिया को आतंकियों की बहन बताते पूरे देश का अपमान किया है। उन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त कर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाये। बड़े शर्म की बात है कि इतना घटिया बयान देने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नही की गयी। जिस कारण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को स्वत: इस घटना का संज्ञान लेना पड़ा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में राधेलाल रघुवंशी, श्यौनाथ सिंह प्रजापति, अतीक अहमद, नवनीत गोला, नसीम चौधरी, फिरोज आलम, जुबैर आलम आदि मौजूद रहे।

युवक को पीटकर किया घायल

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। शराब की दुकान से सटी कैंटीन पर नौकरी करने वाले युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। हमला कारोबारी रंजिश में किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव मीरा सराय निवासी विनीत कुमार क्षेत्र के गांव धनौरी में शराब की दुकान के पास एक कैंटीन में काम करता है। बताया जा रहा है कि पास में ही गांव कांकर सराय के रहने वाले नरेश की फास्ट फूड की दुकान है। आरोप है कि नरेश कुछ लोगों को अपनी दुकान में बिठाकर शराब पिला रहा था जो गाली-गलौज कर रहे थे। विनीत कुमार ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी नरेश ने उसे लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। सीओ अवधभान भदौरिया ने मामले में आरोपी नरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने की पुष्टि की।

आग से लाखों रुपये का जनरेटर स्वाह

आस पड़ौस में मचा हड़कम्प, फायर बिग्रेड ने बुझाई आग

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी आग से लाखों रुपये कीमत का जनरेटर जल गया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गुरुवार की दोपहर अंबेडकर पार्क स्थित विद्युत उप खंड अधिकारी के कार्यालय के बाहर रखे ट्रांसफार्मर की लीड में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से निकली चिंगारी नीचे जमा कूड़े के देर में गिर गई। जिससे कुछ ही देर में वहां पर जमा कूड़े के ढेर में आग लगने लगी। इस दौरान विद्युत उप खंड अधिकारी कार्यालय को सप्लाई देने वाला जनरेटर भी उसकी चपेट में आ गया तथा उसमें धू धू करके आग लगने लगी। जनरेटर में आग लगते ही आग की तेज तेज लपटे उसमें से उठने लगी। जिससे आस-पड़ोस के घरों में रहने वाले लोगों में सनसनी फैल गई। उपकरण अधिकारी कार्यालय में मौजूद स्टाफ भी वहां से निकल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकाल कर सड़क पर आ गये। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग का वाहन मौके पर पहुंच गया। कड़ी मशक्कत कर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। यदि समय रहते फायर ब्रिगेड आग पर काबू न पता तो बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। बताया जाता है कि आग लगने के कारण लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

डीआरएम ने लिया स्टेशन पर कार्य का जायजा

■ कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश, करीब एक घंटे तक किया निरीक्षण

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। नगर के रेलवे स्टेशन पर डीआरएम मुरादाबाद राजकुमार सिंह ने निरीक्षण करके अमृत भारत स्टेशन योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का जायजा लिया और अधीनस्थों को उचित दिशा निर्देश देते हुए समय से सभी कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। गुरूवार को सुबह नौ बजे वे अपनी विशेष ट्रेन के माध्यम से गजरौला स्टेशन पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने करीब एक घंटे तक निरीक्षण किया। अधीनस्थों से किए जा रहे कार्य के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली, स्वयं भी कार्य की प्रगति का जायजा लिया। नए मालगोदाम कार्यालय में विद्युत व्यवस्था का कार्य पूरा न होने पर उन्होंने संबधित अधिकारी का काफी फटकार भी लगाई। निरीक्षण के बाद वे बिजनौर दिशा के लिये रवाना हुए। इस दौरान रेलवे स्टेशन अधीक्षक केएल कश्यप सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे।

कम्प्यूटर ऑपरेटर व बाबुओं के भरोसे न रहें: डीएम

डीएम ने कई अधिकारियों को फटकारा

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के झूंठे निस्तारण को लेकर डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार लगाते चेताय कि यदि समय पर सुधार नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

कलक्ट्रेट सभागार में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित शिकायतों के निस्तारण हेतु अपलोड कर फीडबैक की जांच की। इस दौरान उन्होने सीएमओ डा. सत्यपाल सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की शिकायतों के अपलोड को लेकर गहरी नाराजगी जतायी। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में आश्वासन और भविष्य में कार्य किये जाने संबंधी कोई आख्या नहीं लगायी जाये। शिकायतकर्ता से बातचीत कर उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के बाद ही गुणवत्तापूर्वक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डीएम ने कहा कि आईजीआरएस के शासनादेश सभी अधिकारी भालीभांति पढ़ लें तथा जो सरकार की प्राथमिकता है उसी आधार पर काम करें। डीएम ने कहा कि कम्प्यूटर ऑपरेटर और बाबू के भरोसे न लें तथा शिकायतों के निस्तारण में स्वयं रूचि दिखायें। बैठक में सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्र, एडीएम ब्रजेश त्रिपाठी, परियोजना निदेशक अमरेन्द्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।

अमरोहा। कलेक्ट्रेट में आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक लेतीं डीएम निधि गुप्ता।

युवक की हत्या दो और आरोपी भेजे जेल

11 मई को फावड़ा मारकर की थी हत्या

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। युवक की फावड़ा मारकर हत्या किये जाने के मामले में नामजद दो और आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर उनका चालान कर दिया। युवक की हत्या में अब तक पुलिस चार लोगों को जेल भेज चुकी है ठीक है।

कोतवाली क्षेत्र के गांव गुलामपुर में 11 मई की सुबह अमरीश की सरियों से पिटाई करते हुए सर में फावड़ा मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को नामजद किया था। बताया जाता है कि 8 में को गांव सतेडा बारात गई थी। अमरीश की ममेरी बहन के साथ गांव के ही युवकों ने छेड़छाड़ कर दी थी। जिसका उसने विरोध किया था। नामजद आरोपियों ने अमरीश को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। आरोपियों ने अमरीश की सरियों से पिटाई करते हुए सर में फावड़ा मार दिया था। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। परिजनों ने अमरीश की हत्या में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया था। पुलिस ने गजेंद्र पुत्र विरमू उर्फ वीरमपाल निवासी ग्राम गुलामपुर व सतीश पुत्र बिस्सू उर्फ विशपाल निवासी ग्राम गुलामपुर को अरेस्ट न्यायालय में पेश कर दिया। जहां से दोनों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। इससे पहले पुलिस अमरीश की हत्या में अनुज पुत्र गुलाब वीरेश उर्फ दिरेश कुमार पुत्र गुलाब जेल भेज चुकी है अभी अमरीश की हत्या को अंजाम देने के मामले में दो आरोपी अभी पुलिस पकड़ से दूर हैं।

शेड्यूल के हिसाब से मिले किसानों को बिजली

प्रदर्शन कर एसओएस को सौंपा ज्ञापन

शाह टाइम्स संवाददाता

उझारी। शेड्यूल के हिसाब से बिजली न मिलने से परेशान किसानों ने बिजली घर पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एसओएस को ज्ञापन सौंप चेताया कि यदि उनकी समस्या को जल्द दूर नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। बच्ची खेड़ा फीडर से जुड़े किसानों को शेडयूल के हिसाब से बिजली नहीं दी जा रही है। आज इसके विरोध में वह उझारी बिजली घर पहुंचे तथा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि बच्ची खेड़ा फीडर पर करीब 400 टयूबैल कनेक्शन है। यहां के किसानों को मात्र पांच घंटे की आपूर्ति की जा रही है। जिस कारण वह अपनी फसलों को पानी नही दे पा रहे है। जेई के यहां मौजूद न होने पर किसानों ने एओएस बिलाल अख्तर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालो में मोहसिन त्यागी, राजपाल मेंम्बर, होरीलाल, साकिब परवेज, मनोज प्रजापति, कामिल अकमल उरमान, सोमपाल, लईक अहद, रंजीत, आकाश आदि मौजूद रहे।

बाल विवाह के खिलाफ बच्चों को किया जागरुक

राजेन्द्र एकेडमी में कार्यक्रम

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। राजेंद्रा एकेडमी में बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने नाट्य कार्यक्रम कर बाल विवाह से मुक्ति पाने के लिए जागरूक किया।

गुरुवार को विद्यालय में सेवा संकल्प के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मंडल के सहयोग से बाल विवाह मुक्त भारत पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी छात्र छात्राओं को पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता के माध्यम से इस सामाजिक कुप्रथा को रोकने व बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने छात्र छात्राओं को बताया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। जिसमें बच्चों के भविष्य और शिक्षा को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाकर इसको समाप्त करना चाहती है। इस दौरान कक्षा 6 कक्षा 8 तक के बच्चों ने पोस्टर बनाकर इस कुप्रथा को रोकने का संदेश भी दिया। स्कूल की प्रबंधिका ने बताया कि यह एक सराहनीय पहल है। जो बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यदि सरकार समाज और नागरिक मिलकर एक दिशा में प्रयास करें तो यह लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है।

युवती को भगाने में तीन फंसे

जोया। युवती प्रेमी के साथ फरार हो गयी। पिता ने तीन के खिलाफ बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा की है। यहां की रहने वाले एक युवती का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। छह मई को मौका पाकर युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गयी। काफी देर तक जब वह घर नही पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होने आसपास रिश्तेदारियों में तलाश किया परन्तु युवती का कोई पता नहीं चला। जानकारी करने पर पता चला कि युवती रणवीर सिंह नाम के युवक के साथ फरार हुई है। तीन के खिलाफ डिडौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

मौलवी की गिरफ्तारी की अफवाह से हड़कम्प

शहर में उड़ती रही एनआईए के छापेमारी की अफवाहें

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। शहर में एनआईए की छापेमारी के दौरान मौलवी की गिरफ्तारी की अफवाह ने लोगों में दहशत फैला दी। अचानक छापेमारी की जानकारी से अनजान पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। बाद में मामला 2019 में हुई छापेमारी की अफवाह का निकला। इस दौरान हुई छापेमारी के बाद से अमरोहा एनआईए और एटीएस की रडार पर रहता है। पिछले दिनों जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड से हमले के बाद दोबारा अमरोहा सुर्खियों में आया। इस घटना में मुख्य आरोपी अमरोहा का रहने वाला सैदुल निकला था।

26 दिसंबर 2018 को एनआईए और एटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से शहर कोतवाली के मोहल्ला मुल्लाना, पचदरा, इस्लामनगर और नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के गांव सैदपुर इम्मा में छापा मारा था। संयुक्त टीम की करीब दस घंटे कार्रवाई चली थी। घरों के दरवाजे तोड़कर घुसी टीम ने मोहल्ला मुल्लाना से मुफ्ती सुहैल, मोहल्ला पचदरा से इरशाद, सैदपुर इम्मा निवासी सईद और रईस को गिरफ्तार किया था। इनके पास से पिस्टल, तमंचे, कारतूस, बारह किलो संदिग्ध आरडीएक्स और एक संदिग्ध राकेट लांचर बरामद किया गया था। जांच में नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के गांव बांसखेड़ी निवासी मौलाना गुफरान के सुहैल से संबंध होने की बात सामने आई थी। कई दिनों की पूछताछ के बाद 20 अप्रैल 2019 को एनआईए ने गुफरान को भी गिरफ्तार कर तेरहवां आरोपी बनाया। गिरफ्तारी के करीब छह महीने बाद एनआईए ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। चार्जशीट में हरकत-उल-हरब-ए-इस्लाम के सरगना मुफ्ती सुहैल समेत सईद और मौलाना गुफरान के नाम चार्जशीट में शामिल थे। उधर, 12 अप्रैल को अमरोहा नगर के कटरा बख्तावर के रहने वाले सैदुल अमीन का नाम जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड से हमला करने के उजागर होने के बाद अमरोहा सुर्खियों में आ गया था। लेकिन, बुधवार की रात में एनआईए के द्वारा मौलवी को गिरफ्तार करने की अफवाह फैल गई।

व्यापारियों की समस्याओं को दूर करें

अमरोहा। अपर आयुक्त राज्य कर आरएस द्विवेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह व्यापारियों की समस्याओं का निदान करें। अपर आयुक्त आरएस द्विवेदी ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने कहा कि व्यापारियों को उनकी रिटर्न फाइल कराकर जीएसटी में आ रही समस्याओं को दूर करें। व्यापारी समय पर रिटर्न फाइल करें। बैठक में इब्राहीम मंसूरी, अमित मोहन गोयल, अनवर सालिम, सौरव जैन, कमल कपूर, बब्बू मंसूरी, रियाज उद्दीन मंसूरी, हाजी नासिर, हाजी कामिल, हाजी आजम, सुहैल, अशरफ, परवेज आरिफ, अनिल जैन, राजेश कुमार मौर्य, महेशचंद आदि मौजूद रहे।

सचिन जिलाध्यक्ष व सरजीत बने रालोद मंडल अध्यक्ष

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री जंयत चौधरी के आदेशानुसार और संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी व प्रदेशाध्यक्ष रामाशीष राय की सहमति से क्षेत्रीय अध्यक्ष (रूहेलखंड क्षेत्र) रामवीर सिंह ने गजरौला के मोहल्ला टीचर्स कॉलोनी निवासी पार्टी के कर्मठ एवं अनुभवी कार्यकर्ता सचिन चौधरी को पुनः एक बार जिलाध्यक्ष मनोनीत करके मनोयन पत्र सौंपा। बता दें कि मनवीर सिंह जब से रालोद के जिलाध्यक्ष बने थे पार्टी लगातार कमजोर हो रही थी। वह जिलाध्यक्ष रहते पार्टी की एक भी बैठक नहीं बुला सके। जिस कारण कार्यकर्ताओं में उनके प्रति रोष बढ़ रहा था। सचिन चौधरी पूर्व में भी पार्टी में युवा जिलाध्यक्ष, युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश सचिव जैसे प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके संगठनात्मक अनुभव, जनसंपर्क क्षमता और पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए नेतृत्व ने उन्हें पुनः यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। सचिन चौधरी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा की भावना से पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएंगे। उधर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू चौधरी के पति सरजीत सिंह को पार्टी ने मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।

भाकियू शंकर ने दिया बिजलीघर पर धरना

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। भाकियू शंकर ने ब्रहस्पतिवार को विद्युत समस्याओं को लेकर गजरौला के फाजलपुर स्थित बिजलीघर पर धरना प्रदर्शन करते हुए समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। पंचायत को

■ बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण की मांग

संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ0दिवाकर सिंह ने कहा कि विद्युत विभाग में संविदा कर्मी, लाइनमैन - टीजी 2 व जेई के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की एक छोटीसी वीडियो क्लिप बनाकर व उन्हें डरा धमकाकर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। जिसे हमारा संगठन इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं विद्युत मीटर में भी कोई तकनीकी फाल्ट आने के बाद वह जंपिंग कर रहे हैं, जिस उपभोक्ता का बिल कई गुना ज्यादा आ रहा है।बिल का संशोधन कराने के लिएं उपभोक्ता कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसी तरह का हाल नए विद्युत कनेक्शन लेने वालों का भी है, वैसे तो सब ऑनलाइन है परंतु उसमें इंक्वारी लगाकर 6-6 महीने तक कनेक्शन नहीं हो पाता है, किसानों को अप्रैल से जून मात्र चार महीने ही सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। कृषि फीडर पर विद्युत आपूर्ति दो-दो घंटे काटकर दी जा रही है, जिससे फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, सभी किसानों को 10 घंटे आपूर्ति निर्बाध की जाए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चौ0 धर्मवीर सिंह ने हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को तहसील अध्यक्ष धनौरा, मंजू चौधरी को महिला प्रकोष्ठ तहसील अध्यक्ष धनौरा के साथ साथ अनेकों ने संगठन में सदस्यता कराई। इस दौरान हरि सिंह सैनी, महिपाल त्यागी, राहुल यादव,शेर सिंह राणा , रवि चौधरी, चौधरी धर्मवीर सिंह, राकेश रतनपुर, विक्रम पवार, जगत सिंह चौहान, खेमपाल सिंह, सत्येंद्र सिंह, राजवीर, नेमपाल सिंह, हरप्रीत सिंह, मंजू चौधरी, अशोक चौधरी, दिनेश, अखतब व नईम आदि मौजूद रहे।

स्वास्थ्य विभाग ने दो अस्पताल किए सील

कार्रवाई से मचा हड़कम्प

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। स्वास्थ्य विभाग ने दो अस्पतालों को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर शरद कुमार के नेतृत्व में टीम ने गांव बाईखेड़ा में अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल पर छापा मार दिया। अस्पताल संचालक से जब कागजात मांगे गये तो वह इधर उधर को बंगले झांकने लगा। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया। उसके बाद टीम पूठ रोड स्थित दुआ नर्सिंग होम पर पहुंच गई। वहां पर भी टीम ने ओटी व अस्पताल को सील कर दिया। इस दौरान अस्पताल के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर शरद कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर अस्पतालों पर छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया हसनपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित किसी भी अस्पताल को चलने नही दिया जायेगा। जिस समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उस वक्त दर्जन भर से अधिक अस्पतालों के संचालक आसपास खड़े हुए थे। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को देखकर दर्जनो अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के संचालक ताले डालकर फरार हो गये।

बेरोकटोक जारी है अवैध खनन

शाह टाइम्स संवाददाता

रहरा। क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हैं। खनन का वीडियो वायरल देख लोगों में चर्चाएं होतीी रहीं।

मामला गांव शेरगढ़ का बताया जा रहा है। यहां बिना किसी खौफ के रेत माफिया अवैध खनन करने में लगे हैं। डम्पर व मशीन की मद्द से ट्रैक्टर ट्रालियों में बालू को लादा जा रहा है। पिछले काफी समय से शेरगढ़ व आसपास के गांव में अवैध खनन का धंधा बेरोकटोक जारी है। जिस पर लगाम लगाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। जिला खनन अधिकारी मनीष यादव से जब इस बाबत जानकारी की गयी तो उन्होने मामले से खुद को अनभिज्ञ बताया।

कस्तूरबा विद्यालयों की नियमित चैकिंग करें

डीएम ने की बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यो की समीक्षा

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि समर कैम्प के दौरान बच्चों को क्या सिखाया जायेगा प्लान तैयार करें। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग की टेंडर प्रक्रिया समय से अपलोड न किये जाने पर रोष जताया।

गुरूवार को डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने बच्चों का नामांकन, मिडडेमील, निपुण विद्यालय आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। डीएम ने निर्देश दिये कि समर कैम्प के दौरान बच्चों को क्या ऐक्टिविटी सिखाई जानी है इसकी रूपरेखा समय से तैयार कर लें। डीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग की टेंडर प्रक्रिया पर असंतोष जताया। इसे समय से अपलोड करने के निर्देश दिये। डीएम ने सभी एबीएसए को निर्देश दिये कि कस्तूरबा विद्यालयों की नियमित चैकिंग करें। लापरवाही पर कार्रवाई के लिये तैयार रहे। इस मौके पर सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्र, बीएसए मोनिका मौजूद रहीं।

ट्रैक्टर की टक्कर से किसान घायल

अमरोहा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में किसान गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव कांकर सराय निवासी रियाजुद्दीन बीती 13 मई को बाइक पर सवार होकर अमरोहा शहर आए थे। काम निपटाकर घर लौटते समय धनौरी चौराहे पर शराब की दुकान के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रियाजुद्दीन गंभीर घायल हो गए जबकि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार ने मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही।

पूर्व प्रधान पति को पुलिस ने रिमांड पर लिया, घटना में प्रयुक्त डंडे बरामद

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। युवक की डंडो से पीट पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी पूर्व प्रधान पति को पुलिस रिमांड पर लेकर आई और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चार डंडे बरामद किए। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को बिजनौर स्थित जेल में दाखिल किया गया। बता दें कि 12 अप्रैल को ग्राम फौंदापुर निवासी युवक योगेश व बारसाबाद गांव निवासी पूर्व प्रधान पति राजवीर सिंह का विवाद हो गया था। जिसमें योगेश पक्ष के लोगों ने राजवीर व उसके पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की थी। जिसके बाद उसी शाम को योगेश के छोटे भाई प्रशांत को राजवीर पक्ष के लोगों ने नगर के खादगूजर तिराहे के पास घेरकर पीटा। बताते हैं कि इसी प्रकरण की शिकायत करने के लिये योगेश अपने पिता जहेन्द्र सिंह व ताऊ नरेश कुमार के साथ बाइक द्वारा समाज के संभ्रात लोगों के पास जा रहा था, आरोपी है कि तभी राजवीर सिंह व उसके भाई मनोज कुमार ने अपने कुछ

■ युवक की पीट पीटकर हत्या में है आरोपी

साथियों को साथ मिलकर उन्हें रास्ते में घेर लिया और बाइक गिरा दी और डंडो आदि के वार करके योगेश की हत्या कर दी, जबकि पिता जहेन्द्र सिंह व ताऊ नरेश कुमार को पीटकर घायल कर दिया। इस प्रकरण में योगेश के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मनोज व राजवीर सिंह सहित कुछ अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। उसी दिन पुलिस ने मनोज को तो गिरफ्तार कर लिया था, जबकि गिरफ्तारी से बचने के लिये राजवीर ने कोर्ट में सेंरेडर कर दिया था। गुरूवार को पुलिस ने राजवीर को रिमांड पर लिया। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान ने बताया कि पुलिस ने राजवीर को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी सुराग मिले हैं, जबकि राजवीर की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चार डंडे भी बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद उसे बिजनौर जेल में दाखिल किया है।

दो जिलों के बीच हुई फोर्थ आईकॉनिक जीके प्रतियोगिता में मैक्सविन पब्लिक स्कूल के छात्रों ने भी किया अच्छा प्रदर्शन

जेवर/जहाँगीरपुर। जनपद गौतमबुद्धनगर एवं बुलन्दशहर दो जनपदों के विद्यालयों के छात्रों के बीच हुई फोर्थ आईकॉनिक जी0के0 प्रतियोगिता में मैक्सविन पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने भी भाग लेकर प्रतियोगिता में बौद्धिक जौहर का मुजहायरा करते हुए कई पुरूस्कार जीत कर अपने स्कूल सहित क्षेत्र का नाम रोशन किया जिनका वापसी पर स्कूल एवं क्षेत्र के समाजसेवियों द्वारा सम्मानित कर हौंसला अफ्जाई किया गया। मैक्सविन पब्लिक स्कूल के प्रबन्धक योगेन्द्र सैनी व प्रधानाचार्य खान चन्द वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि फोर्थ आईकॉनिक जी0के0 कम्पटीशन प्रतियोगिता का आयोजन जनपद गौतमबुद्धनगर एवं जनपद बुलन्दशहर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच किया गया प्रतियोगिता में तकरीबन 250 से अधिक छात्र-छात्राओं द्वारा भाग लिया गया। उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए अपने ज्ञान व कौशल का लोहा मनवा लिया प्रतियोगिता में मैक्सविन पब्लिक स्कूल जहाँगीरपुर के छात्र-छात्राओं द्वारा भी भाग लिया गया प्रतियोगिता में मैक्सविन पब्लिक स्कूल के छात्र अभिषेक चौहान ने दोनों जनपदों में द्वितीय स्थान हासिल कर स्कूल व अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को आयोजकों द्वारा पुरूस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले मैक्सविन पब्लिक स्कूल के छात्र भाईपुर निवासी अभिषेक चौहान पुत्र संजय चौहान को 21 हजार रूपये नकद चौक व गोल्ड मेडल और एक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूल से प्रतियोगिता में शामिल होने गए तथा स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में शमिल हुए छात्र-छात्राओं को स्कूल स्तर से पुरूस्कृत कर सम्मानित किया गया इस दौरान स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में चेष्ठा सिंह पुत्री धर्मेन्द्र सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसको स्कूल द्वारा 25 सौ रूपये नगद गोल्ड मेडल व एक ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया व अभी वशिष्ठ ने प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया जिसको दो हजार रूपये नगद एक मेडल एक ट्रॉफी व प्रमाण पत्र दिया गया। भावना सैनी व अंशिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया जिन्हें एक-एक हजार रूपये नगद व एक-एक मेंडल व प्रमाण पत्र दिये गये। इनके अलावा प्रतियोगिता में प्रथम आए 27 अन्य विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल व प्रमाण पत्र तथा द्वितीय आने वाले 27 छात्र-छात्राओं को सिल्वर मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए वहीं प्रतियोगिता में तृतीय आने वाले 27 छात्र-छात्राओं को ब्रान्ज मेडल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। फोर्थ आईकॉनिक जी0के0 कम्पटीशन के डारेक्टर नरेन्द्र ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मैक्सविन पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने फोर्थ आईकॉनिक जी0के0 प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरूस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रबन्धक योगन्द्र सैनी व प्रधानाचार्य खांन चन्द वर्मा ने मक्सविन पब्लिक स्कूल के प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए उन्हें ढेरों शुभकामनाऐं दी। इस मौके पर विद्यालय से प्रभात शर्मा रिंकू शर्मा चरन सिंह नीरज जादौन प्रशान्त जितेन्द्र कृष्ण गौरव प्रियंका दीपक सुमन पूनम रोहणी सहित स्कूल का

एसडीएम को पत्र दे की अवैध छज्जा तोड़कर रास्ता खुलवाने की मांग

जेवर। तहसील बार एसोसिएशन के तकरीबन पांच साल अध्यक्ष रहे ठा0 अनिल छौंकर एडवोकेट ने एस0डी0एम0 जेवर को प्रार्थना पत्र देकर में गांव माडलपुर स्थित गाटा संख्या 129 में 120 वर्ग गज एक आवासीय प्लाट की ओर के आम रास्ते को छजली निकाल कर अवरूद्व किए जाने की शिकायत कर छजली को तुडवाकर रास्ता खुलवाने की मांग की है।

एडवोकेट एवं तहसील बार एसोसिएशन के पांच बार अध्यक्ष रहे ठा0 अनिल छौंकर ने उपजिलाधिकारी जेवर को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उनके मॉडलपुर स्थित प्लाट के तीन साइडों में आम रास्ता है जिसके पीछे की दिशां में 8 फुट 3 इंची चौड़ी सरकारी चकरोड़ आम रास्ता है तथा गाटा संख्या 30 में कुँआ धर्मशाला और प्याऊ का निर्माण किया हुआ हैं। आरोप है कि मन्दिर पर रह रहे महाराज द्वारा अवैध तरीके से मन्दिर का विस्तार कर प्लाट की ओर छज्जा निकाल कर सरकारी चकरोड़ को बन्द कर आम रास्ता पूरी तरह से बन्द कर दिया है जो कि ठीक नहीं है उनके प्लाट से मन्दिर को जा रहा रास्ता बन्द होने से उनके पूजा-पाठ एवं रोजमर्रा के कार्य करने में रूकावट पैदा करेगा। उन्होंने मन्दिर के महाराज द्वारा अवैध तरीके से पांच फुट की ऊँचाई पर छज्जा निकाल कर अवरूद्व किए गए रास्ते को तहसील व पुलिस की टीम द्वारा छज्जे को तुड़वाकर पुनः खुलवाने की गुहार लगाई है। आरोप है कि सरकारी चकरोड़ पर करीब पांच फुट की ऊँचाई पर

अवैध रूप से निकाली गई छजली से अवरूद्व हुए प्लाट के रास्ते की बाबत वह मन्दिर के महाराज से मिले तो उन्होंने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया और गलत रवईया अपनाने लगे उनके प्लाट की ओर निक.ाली गई छजली को तोड़कर रास्ता खुलवाया जाये।

विजय शाह की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए:डा. शेख

मथुरा। वंचितसमाज इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉ शेख ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले बी जे पी पार्टी के मंत्री विजय शाह की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और आजीवन चुनाव न लड़ सके ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए डॉ शेख ने कहा जिस बेटी ने भारत का नाम रोशन किया है ओर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में अहम भूमिका निभाई है उस बेटी को आतंकवादियों की बहन बता कर देश की सेना ओर सभी देश भक्त देश वाशियो का अपमान किया है में इस नफरती विजय शाह को बताना चाहता हूं कि जब तुम और राज परिवार अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थें उस वक्त देश पर मर मिटने वाली देश भक्त रानी लक्ष्मी बाई का साथ कर्नल सोफिया कुरैशी की दादी साथ दे रही थी पूरा परिवार 150 सालों से देश की सेवा कर रहा है और दो कोड़ी का मंत्री सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहा है इस मंत्री पर सेना को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए अगर इस मंत्री पर कार्यवाही नहीं हुई तो हम समझेंगे यह बयान मंत्री का नहीं सरकार की सह पर दिया गया है डॉ शेख ने कहा कि में विजय शाह को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने हर लड़ाई में कुर्बानी दी है और आगे भी जरूरत पड़ने पर अपने वतन हिंदुस्तान के लिए सिर कटाने में पीछे नहीं हटेंगे हम न देश के लिए औसत से ज्यादा कुर्बानी देने का काम किया है में सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह फौज में पठान रेजिमेंट हुआ करती थीं उसी तरह सेना में मुस्लिम रेजीमेंट बना कर मुसलमानों को आबादी के अनुपात में भर्ती किया जाना चाहिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जरा जरा सी बात पर गोदी मीडिया अपने अपने चौनल पर आर पर के शो होते हम सब ने देखा है देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर सब चुप बैठे है इन कुछ दलालों को हिन्दू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम का मसाला चाहिए।

संस्कृति व वी सर्व के मध्य हुआ महत्वपूर्ण समझौता

मथुरा। संस्कृति विश्व विद्यालय और वी सर्व: एन इनिशिएटिव टू सर्व द अनसर्व्ड, के मध्य शिक्षा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक समझौता (एमओयू) किया गया है। संस्कृति विश्विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एमबी चेट्टी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस एमओयू का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम को संयुक्त रूप से चलाना है, जो आधुनिक शैक्षणिक उपकरणों और डिजिटल शिक्षण विधियों से लैस कुशल पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करने के क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित होगा। दोनों संस्थान व्यापक पाठ्यक्रम मॉड्यूल विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे जो अत्याधुनिक शैक्षिक प्रथाओं को एकीकृत करते हैं और शैक्षणिक और पेशेवर दुनिया की उभरती मांगों के साथ संरेखित होते हैं।

कार्यक्रम विकास के अलावा, एमओयू संकाय और छात्रों के आदान-प्रदान के प्रावधानों को रेखांकित करता है, जो संयुक्त अनुसंधान और विकास गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इस सहयोग का उद्देश्य नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, सीखने के अनुभव को बढ़ाना और प्रभावशाली शैक्षिक समाधानों के निर्माण में योगदान देना है जो कम प्रतिनिधित्व वाले और कम सेवा वाले समुदायों की सेवा करते हैं। इस साझेदारी के माध्यम से, संस्कृति विश्वविद्यालय और शैक्षिक पहुँच का विस्तार करने, शिक्षण और सीखने में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने और शिक्षकों और शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी का पोषण करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस मौके पर संस्कृति विश्विद्यालय की ओर से विवि के कुलपति प्रोफेसर एमबी चेट्टी, रजिस्ट्रार मनीषजी आदि मौजूद रहे।

सरस्वती शिशु के पास बनी दीवार भरभरा कर गिरी

शाह टाइम्स संवाददाता

कोसीकला। भ्रष्ट ठेकेदारों द्वारा बनाई जा रही शेरगढ़ रोड सरस्वती शिशु मंदिर के पास वाली सड़क की दीवार गिर गई। इस दीवार पर बन रहा था यात्रियों के लिए विश्रामालाय ओर सुबह शाम घूमने वालों के लिए पार्क बनाया जा रहा था दीवार गिरने से गनीनत यह रही की कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ वहां से स्कूलों के बच्चे निकलते हैं दीवार गिरने से कुछ देर पूर्व ही हुई थी शिशु मंदिर स्कूल की छुटी जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया मौके पर पहुंचे ठेकेदार और नगर पालिका कर्मचारी स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप लगाया लोगों ने बताया ठेकेदार द्वारा बिना मानकों के बनाई जा रही थी दीवार इसीलिए हो गया हादसा घनी मित्रही जहां से स्कूली बच्चे और आम नागरिकों आना जाना लगा रहता है ऐसे में अगर यदि बार किसी स्कूली बच्चों या अन्य किसी पर यह दीवार गिरती तो कितनी बड़ी जनमानस हानि हो सकती थी। इससे ठेकेदार को कोई मतलब नहीं उसे अपनी जेब भरने से मतलब है लोगो ने कहा कि ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहे है पालिका इस पर रोक लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है इसी रोड से शेरगढ़ होते हुए अलीगढ़ तक का सफर किया जाता है गनीमत रही कि कोई सवारी वाहन इसकी चपेट में नही आया दीवार गिरने से विधुत सप्लाई भी बाधित हो गई।

सचल चिकित्सा वाहन सेवा से 36,075 रोगी लाभान्वित

मथुरा। बृज अचंल में ग्रामीण रोगियों की सेवार्थ श्याम स्टील मैन्युफैक्चरिंग लि0, कोलकाता के सौजन्य से कल्याणं करोति, मथुरा द्वारा संचालित सचल चिकित्सा वाहन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे वर्ष 2024-25 में 36,075 निर्धनतम उपचार से वंचित असहाय रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर निःशुल्क औषधि वितरित की। कार्यक्रम समन्वयक के अनुसार सचल चिकित्सा दल द्वारा मथुरा जिले में साप्ताहिक कार्यक्रम नसीटी 5353, तरौली 7187, मगोर्रा 7544, शेरगढ 6885, रायपुर 2767, कराहरी 6339 रोगियों की जांच कर उपचार एवं निःषुल्क औषधि उपलब्ध कराई गई। दल के चिकित्सक डा0 अविनाश कुमार द्वारा बताया गया की इन शिविरों में अधिकतर रोगी सांस, खुजली, बुखार, खांसी-जुकाम, बदन दर्द आदि के मरीजों ने लाभ प्राप्त किया। चिकित्सा वाहन दल द्वारा उस सभी ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता एवं स्वास्थ्य परीक्षण उपलब्ध कराने का प्रयास है जंहा पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है अथवा वहां के निवासी निर्धनतम असहाय एवं उपचार से वंचित है। चिकित्सा दल में फार्मासिस्ट दिनेश सिंह, पंजीकरण सहायक व वाहन चालक अमित द्वारा योगदान दिया जा रहा है इस मिशन की क्षेत्रीय जनता व समाज के सम्मानित लोगों ने सहयोग प्रदान कर कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

जिलाधिकारी की सदर तहसील को हरियाली से आच्छादित करने की पहल

eFkjkA आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए गुरुवार को सदर तहसील परिसर में जिलाधिकारी सीपी सिंह के नेतृत्व में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें स्वयं जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण करके तहसील कर्मियों व वादकारियों को पर्यावरण स्वच्छता का संदेश दिया। डीएम ने जनपद के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल कालेजों, ग्राम पंचायत, एवं खेतों की मेड़ों पर अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण के साथ-साथ पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल जिम्मेदारी से करें। वृक्षों की सेवा हमें अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट्ध उप जिलाधिकारी सदर निशा ग्रेवाल ने बताया कि सदर तहसील परिसर में अभियान चलाकर लगभग 500 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण परिसर को हरा-भरा करना लक्ष्य है। उक्त वृक्षारोपण की ड्राइव निरंतर मानसूनध्वर्षा ऋतु तक जारी रहेगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट्ध एसडीएम सदर ने बताया है कि तहसील सदर के एक पार्क को माधव वन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उक्त कार्य वन विभाग, नगर निगम एवं तहसील कार्यालय की संयुक्त तत्वाधानों से पूर्ण किया जाएगा। माधव वन तहसील में आने वाले आम जनमानस हेतु वेटिंग एरिया के रूप में भी कार्य करेगा। माधव वन में आम जनमानस हेतु बेंच, कुर्सी, पेयजल, लाइटिंग आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार सदर सौरभ यादव, तहसील सदर तथा वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

सोशल मीडिया पर राज्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी, एसपी से मिले जनप्रतिनिधि

पीलीभीत। गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार की फेसबुक आईडी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भाजपा पदाधिकारियों में रोष व्याप्त हो गया। इस मामले को लेकर गुरुवार को जिले के कई ब्लाक प्रमुख और भाजपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भेट की और राज्यमंत्री संजय गंग.वार को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के सम्बन्ध में पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। ज्ञात रहे की 13 मई को राज्यमंत्री संजय गंगवार की फेसबुक आईडी पर किसी हरीशंकर झा कुमार ने अभद्र टिप्पणी की थी जिसको लेकर भाजपा पदाधिकारियों एवं उनके समर्थकों में रोष व्याप्त हो गया। पुलिस अधीक्षक से मिलने गये ब्लाक प्रमुखों एवं भाजपा पदा.धिकारियों ने उक्त प्रकरण में तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की मांग की जिसपर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने तत्काल अधीनस्थों को साईवर सेल के माध्यम से कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक से मिलने गये ब्लाक प्रमुखों में ललौरीखेड़ा ब्लाक प्रमुख अजय सिंह गंगवार, मरौरी ब्लाक प्रमुख सभ्यता वर्मा, अमरिया ब्लाक प्रमुख श्याम सिंह, पूरनपुर नगर पालिका चेयरमेन शैलेन्द्र गुप्ता, बीसलपुर नगर पालिका चेयरमेन पति अमन जायसवाल, बरखेड़ा ब्लाक प्रमुख कमलेश गंगवार, पूरनपुर ब्लाक प्रमुख पति अपूर्व सिंह, बिलसण्डा टाउन एरिया चेयरमेन दिनेश कुमार गुप्ता, पकड़िया नौंगवा टाउन एरिया चेयरमेन पति संतोक संधु के अलावा भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव, नगर उपाध्यक्ष अमरीष सहित कई पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे।

एआरटीओ ने परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही दो बसों का काटा चालान

पीलीभीत। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में अना.धिकृत संचालित हो रहे वाहनों के विरुद्ध 15 में से 17 में तक तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में जनपद पीलीभीत के एआरटीओ वीरेंद्र सिंह द्वारा जनपद के विभिन्न मार्गों पर संचा.लित हो रहे वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान तीन बसें जोकि परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए संचालित होती पाई गई, जिस पर 2 बसों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार 2 ईको वाहन जोकि उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत थी, अनाधिकृत रूप से सवारियों का परिवहन करती पाई गई। इनके विरुद्ध सीज की कार्रवाई अमल में लाई गई। उक्त कार्रवाई के साथ निर्धारित क्षमता से अधिक माल का परिवहन करते पाए गए दो ओवरलोड वाहन के विरुद्ध सीज एवं 5 अन्य वाहनों के टैक्स समाप्त, फिटनेस समाप्त पाये जाने पर चालान की कार्रवाई की गई। इस प्रकार चार वाहनों के विरुद्ध सीज एवं सात वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि अनाधिकृत संचालित होने वाले वाहनों के विरुद्ध यह विशेष अभियान 17 मई तक निरंतर चालू रहेगा।

पैदल चल रहे युवक की मोटर साइकिल की टक्कर से मौत

पीलीभीत। शहर से सटे ग्राम रूपपुर कमालू थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में बुधवार रात समय लगभग 9 बजे मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर घर वापस लौट रहे मोहित गंगवार (22 वर्ष) पुत्र कंधई लाल की असम चौराहे की तरफ से तेज गति से आ रही मोटर साइकल की टक्कर से मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिवार जन आनन फानन में मोहित के पास पहुंचे। 108 एम्बुलेंस से मोहित को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उसको मृत घोषित कर दिया। कंधई लाल के 3 पुत्रों में मोहित कृषि कार्य करता था। मोहित के जाने से परिवार जनो पर दुख का पहाड़ टूट गया।

ढाब संचालक से मारपीट के विरोध में व्यापारी नेता ने बुलाई आपात बैठक, आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग

पीलीभीत। बुधवार रात पूरनपुर नगर के मेन रोड पर सोनू ढाबे पर कुछ बदमाशों द्वारा ट्रक वालो से उघाई करना शुरू कर दिया और पैसा ना देने पर मार पीट करने लगे जिसका सोनू ढाबे के स्वामी व उद्योग व्यापार मंडल के संगठन मंत्री युवा सिमरनजीत को जानकारी होने पर वो अपने भाई व एक कर्मचारी के साथ ढाबे पर पहुंचे और उन्होंने इसका विरोध किया जिस पर उन बदमाशों द्वारा उनके व उनके भाई और कर्मचारी के ऊपर भी वार किया गया और उनसे कुछ नगदी व सोने की चैन लूट कर भाग गए जिसमे उनके व भाई और नौकर के बहुत चोटें आई है। उपरोक्त घटना को लेकर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष एमए जिलानी ने कहा दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देने से व्यापारियों में भय का माहौल है इस तरह तो व्यापारी कोई व्यापार ही नहीं कर पाएगा जिलानी ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है की तत्काल बदमाशों की गिरफ्तारी कर इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जिससे भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना कर सके। ज़िलामहामंत्री पंकज अग्रवाल ने कहा पूरनपुर में हाई वे पर इस तरह की घटना से व्यापारियों में रोष है और आज इसी को लेकर एक आपात बैठक संगठन के पदाधिकारियों की बुलाई गई जिसमे ये तय किया गया कि उपरोक्त बदमाशों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है तो जल्द ही पूरे ज़िले के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसका विरोध करेंगे। इस दौरान राजेश अग्रवाल, प्रकाशवीर विक्रांत शर्मा, शैली शर्मा, विक्रांत सिंह, आशीष लोधी, सुनील वर्मा, रणवीर पाठक, राशिद, ममनून, प्रदीप, शेर सिंह, कंचन सक्सेना, शोभनीय सिंह, ऋषभ सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

शाह टाइम्स

स्वामी शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक **एस.एन. राना** द्वारा शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. सुजडू चुंगी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर से मुद्रित एवं मौहल्ला सुफी टोला शाहजहांपुर रोड़ बरेली, उप्र।

सम्पादकः
एस.एन. राना
*कार्यकारी सम्पादक
आनन्द बत्रा 'सुमन'
☎0581-2562222 (बरेली)
मुख्यालयः
मोबाइल-9720007290
R.N.I. No UPHIN/2003/11165
www.shahtimesnews.com
email:shahtimes2015@gmail.com

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु PRB एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद मुजफ्फरनगर न्यायालय के अधीन ही होंगे।

धर्मस्थल में दुष्कर्म का मामला

■ बरेली में दो किशोरियों के बयान तय करेंगे आरोपी पुजारी जेल जाएगा या नहीं

शाह टाइम्स ब्यूरो

बरेली। धर्मस्थल में ऋषिकेश की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कथित पुजारी की किस्मत का फैसला दो किशोरियों के बयान पर टिका है। इनमें एक किशोरी नौंवी की छात्रा है, जिसने पुजारी के खिलाफ धर्मस्थल में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद से कैंट थाना पुलिस ने पुजारी युवक को हिरासत में ले रखा है। बरेली पुलिस अब इस किशोरी के कोर्ट में बयान दर्ज कराएगी। अगर वह अपनी बात पर कायम रही तो पुजारी को जेल जाना पड़ेगा। हालांकि आरोपी पुजारी का कहना है कि वह दोनों एक दूसरे के परिचित हैं और दुष्कर्म का आरोप गलत है।

वहीं दूसरी किशोरी वह है, जो पीड़िता के साथ धर्मस्थल आई थी और यहां से उसका मोबाइल फोन लेकर चली गई। महज 13 साल की इस किशोरी को ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से तलाश कर लिया है। उसे अगवा करने का मुकदमा ऋषिकेश में दर्ज है तो उसके वहीं पर बयान कराए जा रहे हैं। अगर उस किशोरी ने भी बंधक बनाने या किसी तरह अत्याचार की बात कही तो भी आरोपी पुजारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बरेली पुलिस के अधिकारी फिलहाल दोनों किशोरियों के बयान पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं।

दरअसल, ऋषिकेश से आई महिला अपनी बेटी व वकील के साथ बुधवार दोपहर एसएसपी से मिली थी। उसने बताया कि वह बिहार की निवासी हैं। कई साल से परिवार ऋषिकेश में रह रहा है। 16 साल की बेटी कक्षा नौ की छात्रा है। बरेली के कैंट इलाके के धर्मस्थल में रहने वाला भमोरा थाना क्षेत्र निवासी युवक रामकिशन भी कई साल से ऋषिकेश में रह रहा था। बाद में वह बरेली चला आया। वह फेसबुक व इंस्टाग्राम के जरिये उनकी बेटी के संपर्क में था।

पीड़ित छात्रा ने बताया कि कथित पुजारी ने शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाए। उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। 13 अप्रैल को पुजारी ने उसे किराया भेजकर बरेली बुलाया। तब छात्रा अपनी बहन की 13 साल की बेटी को लेकर बरेली चली आई। आरोपी ने उसे धर्मस्थल में बंधक बनाकर रखा। कई बार उसका यौन शोषण किया। तीन दिन पहले वह किसी तरह भाग निकली, पर भांजी का पता नहीं लग रहा है। पुजारी उसे धमका रहा है। एसएसपी के निर्देश पर सीओ प्रथम ने दिन भर जांच की। रात में ही आरोपी पुजारी को थाने में बैठा लिया गया।

आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी

बरेलवी उलेमा बोले- इस्लाम शांति और अमन का धर्म

शाह टाइम्स ब्यूरो

बरेली। बरेलवी उलेमा ने आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने बताया कि बहराइच निवासी डॉ० अनवर रजा कादरी के पूछे गए सवाल के जवाब में यह फतवा दिया गया है। जिसमें कहा गया कि कुरान के मुताबिक एक व्यक्ति की हत्या पूरी मानवता की हत्या है। पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि अच्छा मुसलमान वह है, जिसके हाथ, पैर और जुबान से किसी को नुकसान न पहुंचे। एक अन्य हदीस में कहा है कि अपने देश से प्रेम करना आधा ईमान है। आगे फरमाया है कि मुसलमान जहां भी और जिस देश में रहते हैं, उन्हें उस देश की धरती से

प्रेम करना चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम स्पष्ट रूप से आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है।

फतवे में हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा और मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद आदि आतंकी संगठनों को गैर इस्लामी बताया। कहा गया कि जो लोग इस्लाम के नाम पर संगठन बना चुके हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आदि और उनके माध्यम से लोगों की हत्या कर रहे हैं। ये सभी चीजें शरीयत की रोशनी में नाजायज व हराम हैं।

इस्लाम शांति और अमन का धर्म है। समाज के हर वर्ग में शांति पसंद करता है। पैगंबर इस्लाम ने अपने पूरे जीवन में किसी भी अनुयायी, मुस्लिम या गैर-मुस्लिम की हत्या का आदेश नहीं दिया। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो किसी भी अन्य धर्म के अनुयायियों के जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा करता है। यह सभी मनुष्यों के लिए न्याय का आदेश देता है।

कुछ लोग जिहाद का गलत अर्थ निकाल रहे

फतवे में सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है कि इस्लाम सभी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा व्यवहार करने का आदेश देता है। इन दिनों, कुछ लोग कुरान और इस्लाम में जिहाद के अर्थ को गलत तरीके से पेश करके इस्लाम के नाम पर एक-दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस्लाम, कुरान और हदीस के सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है। इस्लाम ने हमें एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होने के लिए भी कहा है।

आतंकी हमले को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए

फतवे में भारत में सभी धर्मों के अनुयायियों से अच्छे संबंध रखने की बात कही गई है। आज के माहौल में समाज के बीच अच्छे संबंधों की जरूरत है। चाहे वह खुशी का मौका हो या गम का। हमें हर स्थिति में देश के साथ खड़ा होना चाहिए। एकता और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। फतवे में यह भी कहा गया है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि यह आतंकवादी हमला क्रूर, अत्याचारी और कायरतापूर्ण है। इसलिए हम आतंकवाद का कड़ा विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं।

एक नजर

झोलाछाप डॉक्टर के यहां इलाज कराने गई दुल्हन की मौत

शाह टाइम्स संवाददाता

बहेड़ी। झोलाछाप डॉक्टर के अस्पताल में इलाज कराने आई दुल्हन की मौत हो गई, उसकी उसी दिन बारात आनी थी। उसकी मौत हो जाने पर शादी के घर में कोहराम मच गया, और मृतका के घर वालों ने अस्पताल में हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, और मृतका के घर वालों को शांत कर दुल्हन के पिता की तरफ से झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

परिजनों के हंगामा करने के बाद पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ की रिपोर्ट दर्ज

थाना क्षेत्र के गांव देवीपुरा गांव के थान सिंह पुत्र किशन लाल की पुत्री शांति की बुधवार को शादी थी, और उसकी दोपहर को बारात आनी थी। शादी वाले दिन ही बारात आने से पहले उसकी तबियत खराब हो गई। जिसके बाद परिजन उसे नगर के डॉ० तसलीम अहमद उर्फ भूरा के अलशिफा हॉस्पिटल ले आये। यहां आने पर उसे झोलाछाप ने तुरंत ड्रिप लगा दी। इलाज के दौरान कुछ ही देर में दुल्हन की मौत हो गई। काफी जद्दोजहद के बाद झोलाछाप ने मृत दुल्हन को जिंदा बताकर भोजीपुरा के एक मेडीकल कॉलेज भेज दिया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से दुल्हन के घर में कोहराम मच गया। उन्होंने अस्पताल में हंगामा किया। हंगामा होता देख झोलाछाप डॉक्टर वहां से चुपचाप खिसक लिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतका के परिजनों को समझाना चाहा, लेकिन वह झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करने लगे, पुलिस के कार्यवाही के आश्वासन पर परिजन शांत हुए। बाद में पुलिस ने पिता की तरफ से झोलाछाप डॉक्टर तसलीम अहमद उर्फ भूरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

किच्छा नदी में मिला युवक का शव

शाह टाइम्स संवाददाता

बहेड़ी। किच्छा नदी के किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

किच्छा नदी में मिले शव की पहचान दिनेश शर्मा (उम्र 40 वर्ष) पुत्र लल्लू निवासी ग्राम उनई मकरुका के रूप में हुई है। शव गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर किच्छा नदी किनारे पड़ा मिला।

शव पीएम को भेजने के बाद जांच में जुटी पुलिस

परिजनों ने बताया कि मृतक दिनेश शर्मा शराब पीने का आदी था, और अक्सर बिना बताए घर से गायब रहता था। इस आदत के कारण उसके परिवार वाले परेशान रहते थे।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। शव मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, और लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लोगों को शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

बरेली में मार्शल आर्ट सीख रहीं लेडी कमांडो

फोटो शाह टाइम्स ब्यूरो

बरेली। जिले में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पहली बार महिला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) का गठन किया गया है। पांच सदस्यीय यह टीम एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा के निर्देशन में अपने काम को अंजाम देगी। महिला एसओजी कमांडो की तरह काली वर्दी में रहेगी। यह टीम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम होगी। महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश करेगी।

आईपीएस अंशिका वर्मा के निर्देशन में अपराध पर करेंगी प्रहार

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि महिला एसओजी के लिए 25 महिला आरक्षियों (सिपाहियों) ने आवेदन किया था। दक्षता के आधार पर पांच का चयन कर उनको पुलिस लाइन में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चयनित महिला सिपाहियों को आधुनिक हथियारों, मार्शल आर्ट, आत्मरक्षा, साइबर क्राइम विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नारकोटिक्स से संबंधित अपराधों की पहचान व कार्रवाई में दक्ष बनाया जा रहा है।

महिला एसओजी की प्रभारी के लिए महिला उपनिरीक्षकों (दरोगा) के भी पांच आवेदन मिले हैं। महिला एसओजी की टीम खुफिया सूचना संग्रह, सीडीआर विश्लेषण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रशिक्षित की जा रही है। अपराध में महिलाओं की संलिप्तता के मद्देनजर भी इस टीम का गठन किया गया है।

बता दें कि बीते दिनों जिले में मादक पदार्थों की तस्करी व गौकशी के कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें महिलाओं की संलिप्तता थी। ऐसे अपराधों की रोकथाम में इस टीम की अहम भूमिका होगी। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिला एसओजी टीम पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी।

समाचार एवं विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।
मो. इरफान मुनीम जिला प्रभारी (बरेली)
मो0- 9456212547 8077380691
Email: irfanggnewslive@gmail.com

मुखबिर को थाने में मिला वीआईपी ट्रीटमेंट

■ बवाल के मास्टरमाइंड को तीन दिन बाद भेजा जेल
■ किला पुलिस ने खुद कराई फजीहत, बाकी आरोपी अब भी फरार

शाह टाइम्स संवाददाता

बरेली। कुंवरपुर कांड का मास्टरमाइंड प्रवीन सक्सेना कानून की पकड़ में आने के बाद भी तीन दिन तक थाने में आराम फरमाता रहा। न कोई पूछताछ, न गिरफ्तारी की जल्दबाजी। वजह साफ है कि आरोपी पुलिस का खास मुखबिर बताया जा रहा है। जब बात ज्यादा तूल पकड़ी, जनाक्रोश बढ़ा और सवालों की बौछार शुरू हुई, तब जाकर बुधवार को किला पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। मगर अब सवाल ये है कि क्या थाने में मुखबिरों को कानून से ऊपर मान लिया गया है।

तीन दिन की खातिरदारी ने खोली पुलिस की पोल

रविवार रात कुंवरपुर में महेश यादव के घर पर हमला करने के बाद मास्टरमाइंड प्रवीन सक्सेना को पुलिस ने उसी रात दबोच लिया था। लेकिन जेल भेजने के बजाय उसे थाने में बैठाकर चाय-पानी कराया गया। तीन दिन तक न कोई मुकदमा आगे बढ़ा, न कोई और गिरफ्तारी हुई। उल्टा आरोपी की बेटी माही सक्सेना की ओर से एक क्रॉस एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले को और उलझा दिया।

पुलिस की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

स्थानीय लोगों में गुस्सा है। सवाल सीधा है क्या पुलिस मुखबिरों को वीआईपी दर्जा देती है। क्या कानून सिर्फ आम आदमी पर चलता है। अगर प्रवीन सक्सेना जैसा आरोपी थाने में मेहमान बन सकता है तो बाकी अपराधियों को पकड़ने में क्या मजबूरी है।

बेटी की रिपोर्ट बनी ढाल, पुलिस ने लिखा स्क्रिप्ट जैसा बयान

माही सक्सेना की तहरीर में कहानी कुछ यूं रची गईख्रष्गर्भवती हूं, भीड़ ने घर पर पथराव किया, पापा को घसीट ले गए, जान से मारने की धमकी दी, बेटियों को उठा ले जाने की बात कहीङ्खष। अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले को मोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर हमला हुआ था, तो थाने में बैठे प्रवीन को इलाज या मेडिकल क्यों नहीं कराया गया।

मुख्य आरोपी पकड़ा गया, बाकी आरोपी हवा में गायब

पुलिस ने घटना के बाद 35 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा, लेकिन तीन दिन बाद भी बाकी आरोपी अब तक फरार हैं। महेश यादव और उनके बेटे गौरव यादव हमले में घायल हुए, मगर उन्हें इंसाफ दिलाने की जगह पुलिस ने पूरे मामले को हल्का करने की कवायद शुरू कर दी।

वार के चुनाव को लेकर मतदाता सूची हुई जारी

शाह टाइम्स संवाददाता

नवाबगंज। 30 मई को होने वाले एडवोकेट प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी चुनाव को लेकर गुरुवार को 188 सदस्यों की मतदाता सूची जारी कर दी गई। इस सूची पर आज आपत्ति ली जाएंगी।

संगठन के अध्यक्ष हाजी माजिद हुसैन जैदी, सचिव दुष्यंत गंगवार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक संगठन में 188 सदस्य हैं, जिनकी मतदाता सूची गुरुवार को जारी कर दी गई है। जारी की इस मतदाता सूची पर आज 16 मई को आपत्ति ली जाएगी, साथ ही किसी सदस्य के नाम में कोई गड़बड़ी है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। दायर की जाने वाली आपत्तियों का 17 मई को निस्तारण किया जाएगा, उसके बाद 20 मई को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। 21 और 22 मई को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।

दबंग देवर ने भाभी से की अश्लील हरकतें

■ विरोध पर घर में घुसकर की पिटाई, रिपोर्ट दर्ज

शाह टाइम्स संवाददाता

नवाबगंज। घटना क्षेत्र के एक गांव की है, गांव की महिला का पति दिल्ली में मजदूरी करता है, उसके ससुर अपनी दवाई लेने गए थे, घर पर वह और उसकी सास अकेली थी।

बुधवार की सुबह उसकी सास घर के दरवाजे पर बैठी थी, तभी उसका चचेरा देवर संजय कुमार लाठी लेकर उसकी सास से मारपीट करने लगा, महिला अपने दूसरे घर से आ रही थी कि उसने अपनी सास के मारपीट कर रहे चचेरे देवर का विरोध किया तो वह घर में घुस आया और बुरी नियत से उसे दबोच लिया, और अश्लील हरकतें करने लगा, विरोध करने पर उसके कपड़े भी फाड़ दिए। शोर शराबा होने पर वह भाग गया।

घटना की सूचना महिला ने डायल 112 को दी जिसपर पहुंची पुलिस ने उसके घर का दरवाजा खुलवाना चाहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस के जाने के बाद दबंग देवर, उसकी मां हरप्यारी, बहन विनायका, पिता कुंवरसेन उसके घर में घुस आए और पुलिस को सूचना दिए जाने पर जमकर उसे धमकाया, साथ ही रिपोर्ट कराने पर सभी को जान से मारने की धमकी दी।

महिला की तहरीर पर पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

शिक्षा मित्र की बेटी गरिमा कश्यप ने बोर्ड से दसवीं में किया गांव का नाम रोशन

शाह टाइम्स संवाददाता

फतेहगंज पश्चिमी। थाना क्षेत्र के गांव माधौपुर से बड़ी खबर सामने आई है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के नतीजों में थाना क्षेत्र के गांव में शिक्षा मित्र से शिक्षक बने अमरपाल कश्यप की बेटी गरिमा कश्यप ने कक्षा दस में धमाकेदार प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया है। सेक्रेट हर्ट स्कूल बरेली की छात्रा ने सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में 94% अंक हासिल कर स्कूल और थाना क्षेत्र के गांव माधौपुर का नाम रोशन किया और छात्रा गरिमा कश्यप भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती है।

इन शानदार नतीजे के बाद छात्रा के गांव व घर में जश्न का माहौल है। परिवारवालों, शिक्षकों और मित्रों ने मिठाइयाँ बाँटीं और होनहार छात्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पूर्व प्रधानपति आविद खां ने भी छात्रा गरिमा कश्यप को मिठाई

खिलाकर उत्साहवर्धन किया और कहा कि ऐसे होनहार बच्चों पर गांव बालों को गर्व होता है।

छात्रा के पिता अमरपाल कश्यप का कहना है कि मेरी बेटी शुरू से ही पढ़ने में तेज थी और वह बड़ी लगन के साथ पढ़ाई करती थी यह लक्ष्य मेरी बेटी ने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से हासिल किया है और उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मेरी बेटी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में स्कूल के टीचरों का भी अहम योगदान रहा जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त हूं।

बधाई देने वालों में क्षेत्र पंचायत सदस्य पुरनलाल कश्यप, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अली मुहम्मद ठेकेदार, पूर्व प्रधान अशोक कुमार, राजेश कश्यप, रामगोपाल कश्यप, डॉक्टर युनूस रजा, सत्यपाल, रामकिशोर, प्रेमपाल आदि लोग शामिल रहे।

पैगा में बेरी वाले मियां उर्स का भव्य आयोजन सुनील रस्तोगी ने किया उद्घाटन

शाह टाइम्स संवाददाता

बहेड़ी। पैगा गांव में वर्षों से चले आ रहे मेले बेरी वाले मियां उर्स का उद्घाटन नगर अध्यक्ष भाजपा सुनील रस्तोगी और जिला पंचायत सदस्य सूर्य कुर्मी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सुनील रस्तोगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है।

सूर्य कुर्मी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम पैगा का माहौल बहुत अच्छा है, और लोगों को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मेला का समापन करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं, और शांति और सौहार्द के साथ मेला का आनंद लें।

मेले के उद्घाटन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिनमें डॉक्टर अनिल रस्तोगी, ग्राम प्रधान रियाज अहमद, अख्तर अली, अंगद रस्तोगी, काकू रस्तोगी, अनुज रस्तोगी, मो० आकिल, मो० तफसीर, मो० असलम, गुल मोहम्मद, बाबू मंसूरी, नसीब, गुड्डू, अंसार अहमद, नौशाद, हबीब, कलीम आदि प्रमुख लोग शामिल थे।

मेले की सफलता के लिए प्रयास

मेले की सफलता के लिए ग्राम वासियों ने कड़ी मेहनत की है, और मेले को सफल बनाने के लिए सभी लोग एकजुट हैं। इस अवसर पर सुनील रस्तोगी और सूर्य कुर्मी ने मेले के आयोजन के लिए ग्राम वासियों को बधाई दी और मेले की सफलता की कामना की।

डांसर और उसके पति की दबंगों ने की पिटाई, रिपोर्ट दर्ज

शाह टाइम्स संवाददाता

नवाबगंज। बरेली-पीलीभीत हाईवे पर ग्राम विशनपुर की रहने वाली डांसर और उसके पति की दबंगों ने रंजिश के चलते घर में घुसकर बुरी तरह से पिटाई कर डाली, घटना की रिपोर्ट डांसर ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है।

ग्राम की डांसर माला वुधवार को अपने पति लियाकत ठेकेदार के साथ घर में बैठी खाना खा रही थी कि इसी दौरान गांव के दबंग दिनेश, मैसर, राहुल, रेखा और कमलिया ने उसके घर में घुसकर दोनों की पिटाई कर डाली, जिससे दोनों घायल हो गए। आरोप है कि दबंग शराब के नशे में थे। माला की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

एक चूल्हा, एक कारोबार, एकता की मिसाल

■ बरेली के दीक्षित परिवार ने बचाई रिश्तों की मिठास

शाह टाइम्स संवाददाता

बरेली। जब देश में संयुक्त परिवारों की परंपरा धीरे-धीरे टूट रही है, ऐसे समय में बरेली का दीक्षित परिवार एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया है।

आधुनिकता की चकाचौंध और बदलते सामाजिक ढांचे के बीच यह परिवार न सिर्फ परंपराओं को सहेज

रहा है, बल्कि व्यापार और संबंधों के बीच सामंजस्य का भी अनोखा संदेश दे रहा है।

बरेली के बिहारीपुर इलाके में स्थित कचहरी रोड पर मंगलम स्वीट्स नामक मिठाई की दुकान दीक्षित परिवार की पहचान बन चुकी है।

इस दुकान के प्रोपाइटर अजय कुमार दीक्षित अपने दो भाईयों मनोज दीक्षित और राजकुमार दीक्षित के साथ मिलकर इस कारोबार को सफलतापूर्वक चला रहे हैं।

एक घर, एक चूल्हा, साझा जिंदगी

दीक्षित परिवार का सबसे बड़ा गुण उनकी एकता है। दस लोगों का यह परिवार एक ही छत के नीचे, एक चूल्हे से पका भोजन साझा करता है। व्यापार में आने वाली रोज की आमदनी भी सामूहिक रूप से एकत्र होती है। सुख-दुख, फैसले और जिम्मेदारियां सब कुछ मिलजुल कर निभाया जाता है।

28 साल पुरानी मिठास, जो अब रिश्तों की पहचान है

अजय दीक्षित बताते हैं कि उनके पिता स्व. विनोद दीक्षित ने 28 साल पहले मंगलम स्वीट्स की नींव रखी थी।

पिता की मेहनत और सिद्धांतों को आज भी तीनों भाई आत्मसात किए हुए हैं। मिठाई, समोसे और जूस की गुणवत्ता के चलते यह दुकान सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। कोर्ट-कचहरी के वकील, पुलिसकर्मी, अधिकारी और आमजन हर कोई यहां की स्वादिष्टता का मुरीद है।

समाज के लिए प्रेरणा

जब एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, और पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तब दीक्षित परिवार जैसे उदाहरण समाज के लिए आशा की किरण हैं।

न सिर्फ व्यापार में सफलता बल्कि पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करना आज की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

कार्यालय ग्राम पंचायत मल्हपुर सवराह विकासखण्ड बहेड़ी (बरेली)

निविदा आमंत्रण सूचना

समस्त पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मल्हपुर सवराह विकासखण्ड बहेड़ी (बरेली) में वित्तीय वर्ष 2025-2026 की कार्य योजना के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग, पन्द्रहवां केंद्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, एस एल डब्ल्यू एम, ओ.एस.आर. फण्ड आदि की धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यथा, नाली, खड़ंजा, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, पुलिया ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन वर्षा ऋतु जल संचयन मल्टीपल हैण्डवॉशिंग, रनिंग वाटर प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प, खेल मैदान, पार्क और ओपन जिम, टायलीकरण, स्कूल की बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य, बाउन्ड्रीवाल स्टेशनरी क्रय, ह्यूम पाइप क्रय, ठेलियां क्रय/मरम्मत, मेडिकल उपकरण क्रय, दवा, छिड़काव, गौशाला पर व्यय, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, समर्सिबल, हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत, वॉलपेंटिंग, डस्टविन एवं सूचना बोर्ड की स्थापना आदि कार्य कराये जाने हेतु प्रथम श्रेणी की ईंट, सीमेन्ट, महीन रेता, मौरंग, बजरी ईंट, रोड़ा सरिया, इन्टरलॉकिंग टाइल्स, ह्यूम पाइप, टंकी, समर्सिवल पम्प, टाइल्स, पाइप, टोंटी, पेंट, विद्युत उपकरण फर्नीचर आदि के क्रय हेतु सीलबन्द निविदायें टेंडर प्रकाशन की तिथि से दिनांक 19.05.2025 को समय दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जिन्हें दिनांक 20.05.2025 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष कार्यालय ग्राम पंचायत पर खोला जायेगा। निविदा को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। कार्य योजना/कार्यों का विवरण ग्राम पंचायत से निविदा प्राप्त करते समय प्राप्त किया जा सकता है।

महेन्द्र पाल (प्रधान) **ओमेन्द्र कुमार** (सचिव)

बरेली में सीडीओ और एडीएम का ट्रांसफर

■ देवयानी को मिली बरेली सीडीओ की जिम्मेदारी

शाह टाइम्स ब्यूरो

बरेली। उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इन तबादलों के तहत मथुरा, बरेली और झांसी में उच्च स्तर पर अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है।

सरकार के इस निर्णय को जिलों में विकास कार्यों की गति बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा पीसीएस संतोष कुमार सिंह को एडीएम एफआर शामली से बरेली जिले का एडीएम एफआर बनाया है।

जग प्रवेश को मथुरा नगर निगम का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। जग प्रवेश वर्तमान में बरेली में सीडीओ के पद पर कार्यरत थे। 2 साल 11 महीने का काफी अच्छा कार्य काल है। ये 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे मथुरा में खंड विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उनके कार्यकाल में बरेली में कई विकास परियोजनाओं को गति मिली, और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उनकी कार्य शैली की सराहना हुई।

झांसी में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात देवयानी को बरेली का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। आईएएस देवयानी 2021 बैच की है। उन्होंने 2021 में यूपीएससी परीक्षा में 11वीं रैंक प्राप्त की।

युवा और कर्मठ अधिकारी के रूप में पहचान बना चुकीं देवयानी को बरेली जैसे बड़े और संवेदनशील जिले की विकास योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। उनके सामने अब ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

पीपीई मॉडल लागू करने के विरोध में अधिवक्ताओं का तहसील में प्रदर्शन

शाह टाइम्स संवाददाता

बडौत। गुरुवार को तहसील में समस्त अधिवक्ताओं ने किंतु विभाग निबंधन पीपीई मॉडल सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था लागू करने के विरोध में अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय की तालेबंदी कर दी। इसके बाद समस्त अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और हड़ताल जारी रखने का आहवान किया।

इस मौके पर अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो देश भर में हड़ताल की जाएगी। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा अधिवक्ताओं को बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है। अगर पीपीई मॉडल लागू की गई तो न जाने कितने लोग बेरोजगारी की तरफ चले जाएंगे। तहसील परिसर में तहसील के समस्त अधिवक्ताओं दस्तावेज लेखकों टाइपिंगो चेंबर के मुनशीओ ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में सतपाल मान एडवोकेट आनंदपाल तोमर धर्मवीर सिंह तोमर ईश्वर सिंह हिलवाडी वीरेंद्र चौहान विनोद जैन सागर तोमर पवन कुमार एडवोकेट हरेंद्र तोमर अमित वशिष्ट पुष्पेंद्र कुमार प्रदीप कुमार दीपक राठी विनोद मान गुनेन्द्र गुप्ता अश्वनी शर्मा हरिओम शर्मा अश्वनी कुमार सतपाल पवार गुलसहनवर राकेश विश्वकर्मा संतोष शर्मा हेमंत कुमार विकास कुमार एडवोकेट के अलावा काफी संख्या में समस्त अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया।

शराब का ठेका खोलने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन

शाह टाइम्स संवाददाता

रटौल। शराब की दुकान एक जगह से दूसरी जगह सिफ्ट होने और नयी शराब नीति के तहत ठेका खुलने को लेकर महिलाओं ने विरोध जताते हुए प्रर्दशन किया और शराब ठेका आवीसीय क्षैंत्र से बाहर खोलने की मांग की है।

रटौल में बस स्टैण्ड के समीप कृष्णा फार्म हाऊस के समीप शराब का ठेका था। नयी शराब नीति के तहत अब शराब की दुकान रटौल ढिकोली मार्ग पर ज्ञानी की दुकान में खोली जानी है जिससे लेकर विरा.ध शुरू हो गया है। बुधवार को महिला इखटठा होकर शराब ठेके के पास पहुंची और हंगामा किया। वही दुकान मालिक ज्ञानी से दुक.ानों मे शराब की दुकान न खुलवाने की अपील की। महिला रूखसाना ने बताया कि आवासीय क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने से युवाओ पर गलत असर पड़ेगा। वही जो लोग शराब पीते वह लोग हंगामा करेगे जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं ने प्रर्दशन करते हुए उच्च अधिकारियों से शराब की दुकान आवासीय क्षेत्र से बाहर खुलवाने की मांग की है। प्रर्दशन करने वालो में जरीना, कमर जहा, नसरीन, शहनाज, अफसाना, आसमा, जायदा आसमा, शहनाज, खुश्बू आदि मौजूद रही।

नि:शुल्क नेत्र शिविर में की 250 मरीजों के आंखों की जांच

शाह टाइम्स संवाददाता

बडौत। तहसील क्षेत्र के बिजरौल गांव में रोटरी इंटरनेशनल की शाखा, रोटरी क्लब बड़ौत की तरफ से, फ्री नेत्र चिकित्सा शि.विर का आयोजन किया गया।

यह फ्री शिविर इंट्रेक्ट क्लब ऑफ ब्रूनस्विक, रोटरी क्लब ऑफ प्लेन्सबोरो, नार्थ एंड साउथ ब्रूनस्विक, न्यू जर्सी अमे.रिका के सौजन्य से किया गया। इस शिविर में एडीके जैन हॉस्पिटल, खेकड़ा के चिकित्सक मौजूद रहे। शिविर में करीब 250 मरीजों ने लाभ उठाया। शिविर में नेत्रों की जांच के साथ मोतियाबिंद के ऑपेरशन भी किये गए। साथ ही चश्मा, दवाईयां आदि भी नि:शुल्क दिए गए। सभी के लिए अल्पाहार की भी उचित व्यवस्था की गई थी। रोटरी इंटरनेशनल की बड़ौत शाखा के इमेज चेयरपर्सन प्रभात कुमार जैन के अनुसार रोटरी क्लब सेवा भाव के कार्यो को अंत.रराष्ट्रीय स्तर पर संचालित करता है।

पोलियो उन्मूलन के अभियान में रोटरी क्लब की मुख्य भूमिका रही है। शिविर में अखिल जैन, गौरव चौधरी, जितेंद्र जैन अधिवक्ता, जितेंद्र जैन नेहरू, संजय जैन मूलचंद, नवीन जैन, अनिल अरोड़ा, आगम जैन आदि मौजूद रहे।

विकासखंड़ की बैठक में हुए करोड़ों के प्रस्ताव पास

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। गुरुवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनीता बाल्मिकी ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की एक बैठक आयोजित की गयी। इस मौके पर उपस्थित विभाग के अधिका.रियों द्वारा अपने-अपने विभाग की सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। बैठक में क्षेत्र पंचायत खेकड़ा के विकास कार्यो हेतु लगभग 2.5 करोड रू. की लागत के प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिसमें तालाब, नाला, नाली, खडंजा, सी.सी. रोड, इन्टरलॉकिगं आदि कार्य कराये जाने है। बैठक में उपस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने प्राप्त प्रस्तावों को सहमति से पास किया गया। इस दौरान प्रमुख ने सदन में उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तियों एंव क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त किया। बैठक में रविन्द्र कुमार जिला पंचायत सदस्य, कृष्ण कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी, माया यादव सुपरवाईजर, धीरेन्द्र चौहान अवर अभियन्ता ग्रा अभि वि, सुधीर कुमार तोमर सहायक विकास अधिकारी पं., नितिन त्यागी सहा वि अ आई एस बी, सुनील सिहं तोमर लेखाकार / प्रधान सहायक, ओर.सपाल वरिष्ठ सहायक एंव राज.कुमार बी डी सी, अंकित, महेश कुमार, रचना, सतबीर बी डी सी, प्रवीण कुमार बी डी सी, समशाद बी डी सी, आशीष ग्राम प्रधान खेडकी, हरकरण ग्राम प्रधान अहैडा, प्रवीण कुमार ग्राम प्रधान चौहलदा, मीनू ग्राम प्रधान क्यामपुर, नरेश प्रधान गठीना आदि ग्राम प्रधान एंव अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहें।

संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में मृत मिले 15 बंदर

शाह टाइम्स संवाददाता

रटौल। भागौट गांव मे एक तालाब में 15 बंदर मृत मिलने से हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान और पुलिस ने मौकें पर पहुंच बंदरो को तालाब से निकाल जमीन मे दफनाया गया। पुलिस मामले की जांच मे जुटी है।

भागौट गांव में गुरुवार को एक तालाब में 15 बंदर संदिग्ध परिस्थितियों मे मृत पड़े हुए मिले जिससे देख हड़कंप मच गया और मौकें पर ग्रामीणों की भीड़ इखट्ठा हो गयी और ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान काशीराम को सूचना दी। वही सूचना मिलते ही धोली प्याऊ पुलिस भी मौकें पर पहुंच गयी। बंदर तालाब में कैसे पहुंचे और बंदरो के मरने के कारण पुलिस जांच मे जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार तालाब के समीप एक मकान का कार्य चल रहा है जहा शौचालय के गढ्ढे मे गिरने की बात गांव मे चर्चा का विषय बनी हुई है। वही पुलिस और ग्राम प्रधान काशीराम ने मृत बंदरो को तालाब से बाहर निकाल गढ्ढे मे दफन कराया।

पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर मंदिर में की चोरी

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। बड़ौत बुढ़ाना मार्ग स्थित काली सिंह मंदिर बामनौली में चोरो ने मंदिर के दानपात्र से 8 हजार रुपए की नगदी लेकर फरार हो गया। घटना पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हुई।

मंदिर कमेटी के सदस्य ओंकार सिंह और प्रेमसिंह ने बताया कि चोर गांव का ही रहने वाला है। उन्होंने पुलिस को नामजद शिकायत दी है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। कमेटी सदस्यों ने बताया कि पिछले तीन सालों में मंदिर में कई बार चोरी हुई है। इन चोरियों में करीब एक लाख रुपए का सामान और नगदी चोरी हो चुकी है। हर बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन अब तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मंदिर परिसर में चोरी नहीं हुई है। कोई व्यक्ति मंदिर में सफाई करने के लिए गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आर्य समाज और आर्य वीर दल ने भारतीय सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। कस्बा टटीरी में आर्य समाज और आर्य वीर दल द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई।

गुरुवार को करीब दो बजे आर्य समाज के प्रधान सतीश आर्य के नेतृत्व में कस्बा टटीरी में तिरंगा यात्रा निकाली और भारतीय सेना के पराक्रम को नमन किया। तिरंगा यात्रा आर्य समाज से शुरू होकर कस्बा टटीरी के मुख्य मार्गो से मैन बाजार-मंडी से होते हुए आर्य समाज पर ही समाप्त हुई। इस मौके पर आर्य समाज के पूर्व प्रधान सुरेश जिंदल, मंत्री रवि आर्य, आर्य भूषण जिला मंत्री आर्य वीर दल, मनीष जिंदल, राकेश आर्य, तन्नू उप प्रधान, सुनील आर्य, संदीप आर्य, शशि आर्य, प्रमोद आर्य, मास्टर महावीर, मास्टर प्रवीण कश्यप, अमित आर्य आदि मौजूद रहे।

जन्मदिन पर पौधा रोपण करने का दिलाया संकल्प

शाह टाइम्स संवाददाता

बडौत। तहसील क्षेत्र के गाँव सिनौली में माँ से दूर रह रहे एक वर्षीय माधव शर्मा के जन्मदिन पर समाजसेवी आर.आर.डी.उपाध्याय एवं डा.मंजूर अली ने पौधा भेंट कर परिवार को उसके प्रत्येक जन्मदिन पर पौधा रोपण करने का संकल्प दिलाया।

जन्म से ढाई महीने बाद से अपने दादा वरिष्ठ समाजसेवी, ओमदत्त शर्मा व दादी बबीता शर्मा के साथ रह रहा। माधव शर्मा की माँ संध्या शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में हैड कांस्टेबल के रूप में गोरखपुर मे व पिता शिवम् शर्मा उत्तर प्रदेश परिवहन मेरठ परिचालक के रूप में सेवा दे रहे है। ऐसी स्थिति में इस एक वर्षीय मासूम माधव शर्मा को माता-पिता से दूर अपने दादा-दादी के पास रहता है। दादा दादी ही बच्चे माधव शर्मा का बहुत अच्छी प्रकार से लालन पालन कर रहे हैं। एक वर्ष का होने पर परिवार के सदस्यों ने माधव शर्मा का पहला जन्मदिन बड़ी धूम धाम से मनाया। हालाँकि गोरखपुर में चल रही हैड कांस्टेबल की ट्रेनिंग के कारण मा संध्या शर्मा अपने पुत्र माधव के जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो पायी है। माधव शर्मा के जन्मदिन पर पहुँचे समसमाजसेवी आर.आर.डी. उपाध्याय ने कहा माधव बड़ा ही भाग्यशाली बच्चा है, जिसे कर्तव्यनिष्ठ माता-पिता के साथ दादा-दादी का सानिध्य प्राप्त है। संस्कारों से पोषित माधव जैसा बच्चा पर्यावरण से जुड़कर प्रकृति, समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए रचनात्मक कार्य करेंगा।

मंत्री विजय शाह द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा हमारे देश की बेटी भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया के प्रति अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी बडौत के अध्यक्ष रामहरी पंवार के नेतृत्व मे जिला मुख्यालय बागपत पर किया आक्रोश पूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी बड़ौत शहर अध्यक्ष राम हरि पवार ने कहा कि हमें भारतीय बेटी पर गर्व है। मंत्री विजय शाह अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो यह बहुत ही गलत है सोच समझ कर बयान देने चाहिए आज देश युद्ध के कगार पर है। सभी पार्टिया विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की ओर शब्दों में निंदा कर रही है और मध्य प्रदेश के मंत्री अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं जिस किसी भी कीमत पर कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए आज और विरा.ध प्रदर्शनकिया गया रविन्द्र तोमर रामकुमार मुखिया देवेन्द्र शर्मा बिजेन्दर शर्मा डा.शुभाष शर्मा औमवीर सिंह निशान्त चोधरी आशु पंडित शिवम कश्यप राकेश चहीराम बंटी बादल कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी औकार दत्त शामिल रहे।

छेड़छाड़ का फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर व दुकान पर कब्जा करने का आरोप

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। छेड़छाड़ का फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर दुकान पर कब्जा करने को लेकर कस्बा टटीरी की आरोपित पक्ष की महिला ने एसपी न्याय की गुहार लगाई।

गुरुवार को करीब साढे 11 बजे कस्बा टटीरी निवासी महिला अर्चना मानव के मुताबिक देवर रो.नित और पति कुणाल अधिवक्ता है और कस्बा टटीरी में उनकी एक दुकान भी है। वह दुकान पर काबिज है। आरोप है कि उनकी दुकान पर कब्जा करने की नीयत से एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ देवर और पति के विरुद्ध कोतवाली बागपत पर छेड़छाड़ का फर्जी मुक.दमा दर्ज करा दिया।

उन्होंने बताया कि महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ मिलकर दुकान में रखा टेंट का सामान भी गायब करा दिया। साथ ही बताया कि महिला और उसकी दोनों बेटियां अन्य युवकों पर झूठा मुक.दमा दर्ज कराकर रुपये ऐंठने का भी काम करती है। आरोपित पक्ष की महिला ने अपनी परिवार के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत कर केस की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

एक नजर

गाड़ी पलटनें से तीन युवक घायल

शाह टाइम्स संवाददाता

रटौल। रटौल के तीन युवक मुरथल होटल पर खाना खाने स्कारपियो गाड़ी मे साथियों सहित गये थे वापस लौटते समय गाड़ी डिवाइडर से टकराने से पलटने के कारण रटौल के तीन युवक घायल हो गये जिन्हें गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रटौल निवासी अबुबकर पुत्र वशीम अपने भाई सद्दाम, दाऊद और अन्य रिश्तेदारों के साथ दिल्ली से हरियाणा मुरथल होटल पर खाना खाने गये थे। वापस लौटते समय स्कारपियो गाड़ी डिवाइडर से टकरा पलट गयी जिसमे रटौल के तीनो युवक घायल हो गये जिन्हें गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हर शिशु को बिना बाधा मिलेगी जीवन की पहली साँस

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की सुरक्षा एवं जीवनरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल की पहल पर यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन लिटिल फीट फाउंडेशन तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से साँस पहल को जिले में सक्रिय रूप से लागू किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य जन्म के समय श्वसन में तकलीफ़ झेल रहे नवजात शिशुओं को त्वरित सहायता प्रदान कर उनकी जान बचाना है। अभियान के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर नवजात को जन्म के तुरंत बाद जीवन की पहली साँस सही रूप से मिल सके। स्वस्थ शिशु, स्वस्थ भारत के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस पहल के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को नवजात पुनर्जीवन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही आवश्यक उपकरण, जैसे रेससिटेशन बैग, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लिटिल फीट फाउंडेशन ज़मीनी स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाएगा, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं, आशा कार्यकर्ताओं और समुदाय को नवजात देखभाल एवं सुरक्षित प्रसव संबंधी जानकारी दी जाएगी। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में सहायता मिलेगी। यूनिसेफ द्वारा तकनीकी सहयोग एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई भी नवजात बच्चा आवश्यक देखभाल से वंचित न रहे। यूनिसेफ की वैश्विक टैगलाइन इस कार्यक्रम के माध्यम से साकार होती दिखाई देगी।

जिला अस्पताल में भाकियू नेता ने दवाई को लेकर किया हंगामा

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। जिला अस्पताल में भाकियू नेता ने दवाई को लेकर हंगामा कर दिया। समझाने के लिए पहुँचे गार्ड से भी नोक झोंक हो गई। शबगा गाँव निवासी भाकियू नेता रामेश्वर ने बताया 60 वर्ष की उम्र मे लाइन मे लगा नहीं जाता। जिला अस्पताल मे भीड़ अधिक थी इसलिए बिना लाइन लगे दवाई लेने जा रहा था। गार्ड ने दवाई लेने से रोक दिया था जिसका भाकियू विरोध करतीं है। फार्मासिस्ट सुशील कुमार ने बताया कि बुजुर्ग रामेश्वर ने दवाई का पर्चा नहीं बनवाया था न ही लाइन मे लग रहें थे। समझाने पर स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। फिर भी दवाई दे दी गई।

ट्रैक्टर में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर ट्रैक्टर चालक पुलिस के सामने ही भिड़े

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। जनपद के काठा गांव मे हाइवे पर दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाइवे पर तेज गति से जा रहें भूसे से भरे दो ट्रैक्टर आपस मे भीड़ गए जिसमे तीन मजदूरों को मामूली चोट हो गए। ट्रैक्टर मे हुए नुकसान की भरपाई को लेकर ट्रैक्टर चालक पुलिस के सामने ही आपस मे भिड़ गए। इस दौरान मोके पर पहुंची डायल 112 के पुलिसकर्मियों के सामने भी आपस मे मारपीट होती रही। वीडियो बनने पर दोनों पक्ष चले गए।

उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए 15, 16 व 17 मई को वाणिज्यिक मेगा कैंप का आयोजन

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जनपद बागपत के उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए 15, 16 एवं 17 मई को वाणिज्यिक मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा।

विभाग के अधीक्षण अभियंत के पी खान ने बताया कि यह कैंप विद्युत वितरण उपखंड बागपत , के परिसर में आयोजित होगा, जिसमें उपभोक्ताओं की बिल संबंधी शिकायतों, नए कनेक्शन, लोड बढ़वाने, मीटर बदलवाने, बिल संशोधन व अन्य वाणिज्यिक समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भी प्रेषित किया गया है।

बच्चा पार्क से बेगमपुल तक निकली तिरंगा यात्रा

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन का वंदन-अभिनंदन करने के लिए गुरुवार को मेरठ शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली बच्चा पार्क से शुरू होकर शहर में होते हुए भारत माता चौक (बेगमपुल) पर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में शहर के डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, शिक्षक, उद्यमी, व्यापारी, किसान, युवा, महिला आदि सभी वर्ग शामिल थे। भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर राष्ट्रीय एकात्मकता का प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी गजेंद्र शर्मा ने बताया कि पश्चिम क्षेत्र में 15, 16 और 17 मई को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मेरठ में 15 मई को तिरंगा यात्रा निकाली गई इसमें भाजपा के मेरठ निवासी प्रदेश व राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी जनप्रति. निधि और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ दिखाए गए भारतीय सेना के शौर्य का अभिनंदन किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल होने दूर-दूर से लोग बच्चा पार्क पर एकत्र हुए थे। सभी लोगों में यात्रा में शामिल होने की होड़ देखते नहीं बन रही थी। तिरंगा यात्रा में सभी ने भारत माता की जयकारों से सड़क को भर दिया। इस दौरान सभी वर्ग के लोगों में देश की सेना की प्रशंसा की है।

आज विकास भवन में महिला आयोग की अध्यक्ष करेंगी महिला जनसुनवाई

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल कुमार सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला के सशक्तिकरण एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके विषयों को जमीनी स्तर पर संबोधित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग-आपके द्वार नामक एक जनसुनवाई का आयोजन कर रहा है। इस जनसुनवाई का उद्देश्य महिलाओं से संबंधित लंबित मामलों का समाधान करना है। शुक्रवार को 12 बजे से विकास भवन सभागार में आयोजित की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष विजया रहाटकर उपस्थित होकर महिलाओं की समस्या सुनेंगी।

मकान के आगे बच्चे के बैठने को लेकर मारपीट, महिला का हाथ तोड़ा

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन कालोनी की रहने वाली आयशा का 10 वर्षीय बेटा सुभान आयशा के मकान के सामने रहने वाले सोनू के घर के आगे पत्थर पर बैठ गया था। आरोप है कि जिसको लेकर सोनू ने सुभान को गाली गलौज करने शुरू कर दिया जब सुभान को गाली बकता देख मां आयशा ने इसका विरोध किया तो सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर आयशा के साथ जमकर मारपीट की। आयशा को बचाने आई मकान मालकिन और उसके पिता के साथ भी मारपीट की गई वहीं आयशा का आरोप है कि इस दौरान उसका हाथ तोड़ दिया गया। फिलहाल आयशा ने सोनू और उसके साथियों के खिलाफ थाना पुलिस को तहरीर दी है थाना पुलिस मामले में जांच के बाद कार्यवाही की बात कह रही है। वहीं पुलिस ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास तेज कर दिया है।

किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर किया रक्तदान

शाह टाइम्स संवाददाता

कंकरखेड़ा। सरधना रोड स्थित इंडियन बैंक शाखा के पास किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के सौजन्य से लाइफ लाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर का कैंप लगाकर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी पदाधिकारियों, सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसानों ने कहा कि महेन्द्र टिकैत ने हमेशा किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है। वह किसान की समस्याओं को अधिकारी के पास ले जाकर उसका निस्तारण कराते थे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष अनुज पंडित, एनसीआर मीडिया प्रभारी विपिन शर्मा, गौरव त्यागी जिलाध्यक्ष,नीरज शर्मा, जिला उपाध्यक्ष, अमित तेवतिया वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉ. अनिल कुमार महासचिव, संदीप ठाकुर जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार जिला मंत्री, सुमित ब्लॉक अध्यक्ष, वसीम आदि मौजूद रहे।

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी

हमारी सेना और बेटियों का सम्मान सर्वोपरि: जिलाध्यक्ष गौरव भाटी

- भाजपा मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी, मेरठ के जिला अध्यक्ष गौरव भाटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने पहुंच कर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ शिकायत की। इसके पहले जिला अध्यक्ष गौरव भाटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर एकत्र होकर कर्नल सोफिया कुरैशी के चित्र पर दूध अभिषेक कर उन्हें राष्ट्र का गौरव बताया। वहां से सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सिविल लाइन थाने पहुंचे।

गौरव भाटी ने शिकायत में कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान न केवल कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान है, बल्कि यह भारतीय सेना, देश की एकता और नारी सम्मान पर सीधा हमला है। बीजेपी की यह मानसि. कता एक बार फिर उजागर हुई है, जो हमेशा से ही महिलाओं और सेना के सम्मान के खिलाफ रही है। गौरव भाटी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी और कानूनी व लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएगी। हमारी सेना और हमारी बेटियों का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिकायत करने में मुख्य रूप से नसीम कुरैशी, सतीश शर्मा, उदयवीर त्यागी, वसी अहमद रिजवी, सपना सोम, जगदीश शर्मा, विजय चिकारा, देशपाल गुर्जर, सत्यप्रकाश शर्मा, राकेश कुशवाहा, मनीन्द्र सूद वाल्मीकि, सुशीला को. हली, राहिला खान, अवनीश पवार, इरशाद पहलवान, इकराम कुरैशी, नसीम सैफी, अजय शर्मा, रोहताश भैया, फैज महमूद, अनिल अरोड़ा, मासूम अजगर, कामेश रतन, सलीम अल्वी, ताहिर अंसारी, हाशिम अंसारी, जुबेर कुरैशी, हाजी शबनूर आदि मौजूद रहे।

पिल्लोखड़ी चौकी में नाबालिग को अवैध हिरासत में बैठाने की शिकायत

अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मचा हड़कंप, पुलिस ने छोड़ा

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक मामला सामने आया है जहां मकान में पिता के पैसे लेनदेन के विवाद में एक नाबालिक बच्चों को अवैध हिरासत में चौकी मैं बैठा लिया, बच्चे के परि. जनों ने पिल्लो खड़ी चौकी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बच्चे को छोड़ने के नाम पर पुलिस ने पैसों की मांग कर दी। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पिल्लोखड़ी चौकी पहुंच कर बताया कि पुलिस ने पिता के पैसे के लेनदेन के विवाद में उसके नाबालिग बेटे को उठा लिया। पुलिस ने उसे पूरे दिन अवैध हिरास्त में रखा और समझौते का दबाव बनाती रही आरोप है कि समझौता न होने पर पुलिस ने किशोर को छोड़ने के नाम पर पैसों की मांग की। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डीआईजी और एसएसपी से मामले की शिकायत की दोनों अधिकारियों का फोन आते ही चौकी पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने किशोर को चौकी से छोड़ दिया। वहीं किशोर की मां का आरोप है कि पुलिस ने उसके बेटे के साथ मारपीट भी की है। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के शालीमार गार्डन के रहने वाले इरफान का मजीद नगर निवासी फुरकान से 11 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते फुरकान ने चौकी पुलिस से सेटिंग कर इरफान के खिलाफ तहरीर दे दी। तहरीर मिलने के बाद चौकी पुलिस इरफान के घर पहुंची वहां पुलिस को इरफान तो नहीं मिला जिसके चलते पुलिस ने इरफान के 17 साल के बेटे फैजान को अवैध हिरासत में ले लिया। आरा. प है कि पुलिस ने उसे पूरे दिन अवैध हिरासत में चौकी पर बैठाते हुए टॉर्चर किया और उसके परिवार वालों पर समझौते का दबाव बनाया। फैजान की मां अफसाना का आरोप है कि जब उसने मामले में समझौते से इंकार कर दिया तो पुलिस उसके बेटे को छोड़ने के नाम पर पैसों की मांग करने लगी। जिसके बाद अफसाना ने अधिकारियों से शिकायत कर दी। एसएसपी और डीआईजी का फोन पहुंचते ही पुलिस ने उसे छोड़ दिया।

किसानों ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को दी श्रद्धांजलि

भाकियू अराजनैतिक के तीन वर्ष पूरे होने पर किया भंडारे का आयोजन

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। गुरुवार को स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि तथा भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कमिश्नरी पार्क में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक रहे। पंचायत की अध्यक्षता चौधरी महकर सिंह दबथुवा व संचालन विशेष प्रधान समसपुर ने किया। चौधरी धर्मेंद्र मलिक ने कहा अगर देश को बचाना है तो किसानों को बचाना होगा अगर किसान बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा। बॉर्डर पर भी किसान के बच्चे ही रक्षा कर रहे हैं और किसान अपने खेत में काम करके देश का पेट भर रहा है। सभी पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार रखे और स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकेत साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कालू प्रधान, आकाश सिरोही, सोहित चौधरी, अभिलाष हुडा, विवेक चौधरी, सानी चौधरी, विशेष प्रधान, अमित ढाका, विशाल राणा, शोभित चौहान, नीरज राठी, फरमान कमालपुर, वीरपाल दबथुवा, केशव महाशय, सोनू धाम, आदित्य धाम, बिट्टू तिगरी, गुटरू सचिन करनावल, भगत सिंह, शुभम चौधरी, रोहित चौधरी, मोनू अध्यक्ष, मोहित संधू आदि काफी संख्या में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पुलिस ने अवैध मिट्टी से भरी चार टॉली पकड़कर किया सीज

शाह टाइम्स संवाददाता

परीक्षितगढ़। थाना क्षेत्र के ग्राम खानपुर बांगर के जंगल से अवैध खनन करते हुए चार ट्रैक्टर ट्रॉली को मिट्टी से भरी हुई पकड़कर थाने में सीज कर दिया है।

इससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दे कि थाना क्षेत्र के ग्राम खानपुर बांगर व इकला रसूलपुर खजूरी के जंगल में नगर निवासी एक खनन माफिया काफी समय से खनन कर धरती का सीना चीर रहा था इसकी लोगों ने अनेकों बार थाना पुलिस और उच्च अधिकारियों से शिकायत की मगर उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। बुधवार रात जिला खनन अधिकारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने खानपुर बांगर के जंगल से चार ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी से भरे हुए पकड़ लिए तथा मौके पर थाना पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर सीज कर दिए। वहीं पकड़े गए ट्रैक्टरों पर नंबर भी अंकित नहीं है जो संदिग्ध लग रहे हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। खनन विभाग की कार्यवाही से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है।

कैंप लगाकर कॉलेज की दीवार पर मतदाता सूची की गई चस्पा

एएस डिग्री कॉलेज एसोसियेशन की प्रबंध समिति चुनाव, नामित चुनाव अधिकारी ने चस्पा कराई सूची

शाह टाइम्स संवाददाता

मवाना। एएस डिग्री कॉलेज एसोसियेशन चुनाव को लेकर नामित चुनाव अधिकारी ने कॉलेज की बाहरी दीवार पर मतदाता सूची चस्पा कराई। चुनाव अधिकारी ने कॉलेज में चल रही परीक्षाओं के मद्देनजर परिसर के भीतर सूची चस्पा नहीं करने की बात कही। मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर अपने नाम देखे। चुनाव अधिकारी ने प्रबंध समिति सचिव द्वारा उन्हें चुनाव प्रक्रिया के बीच में इस पद से हटाए जाने संबंधी पत्र जारी करने को अवैध करार देते हुए इसकी जानकारी लिखित रूप से डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसायटीज एवं चिट्स को दी है।

समिति सचिव ने मनोनीत किया था चुनाव अधिकारी

गौरतलब है कि एएस डिग्री कॉलेज एसोसियेशन की प्रबंध समिति सचिव दीपक कुमार ने पिछले माह की 9 तारीख को नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी विनोद गुप्ता को समिति चुनाव में चुनाव अधिकारी मनोनीत किया था और प्रबंध समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। उसके बाद 30 अप्रैल को चुनाव अधिकारी ने चुनाव की तारीख 25 मई को करते हुए नामांकन आदि का कार्यक्रम घोषित कर दिया था।

समिति सचिव ने मारा पलटा, हटाने का पत्र किया जारी

फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कालातीत हुई समिति के सचिव दीपक कुमार ने चुनाव प्रक्रिया के बीच में 12 मई को चुनाव अधिकारी विनोद गुप्ता को पत्र जारी करते हुए उन्हें पद से हटाने व चुनाव स्थगित करने की बात कही। समिति सचिव द्वारा जारी पत्र में विवि द्वारा दिए गए पत्र के कुछ बिंदुओं का हवाला भी दिया गया। जबकि साल 2022 में भी विनोद गुप्ता ने ही चुनाव अधिकारी के रूप में समिति का चुनाव सकुशल संपन्न कराया था। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं।

वोटर लिस्ट कराई चस्पा, डिप्टी रजिस्ट्रार को लिखा पत्र

अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव अधिकारी विनोद गुप्ता ने दोपहर एक बजे कॉलेज पर पहुंचकर उसकी बाहरी दीवार पर मतदाता सूची चस्पा कराई। चुनाव अधिकारी ने बताया कि कुल 5318 मतदाता चुनाव में अपनी सहभागिता निभाएंगे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव प्रक्रिया के बीच से उन्हें पद से हटाने का पत्र जारी करना पूरी तरह गैर कानूनी व नियमविरुद्ध है। सोसायटी एक्ट एवं समिति के बॉयलॉज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कालातीत समिति के सचिव ने ऐसा कर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया है।

कल एमआईईटी में होगा दीक्षांत समारोह

एकेटीयू कुलपति प्रो. जे.पी. पांडे करेंगे डिग्री वितरण

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। मेरठ इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एमआईईटी में 17 मई को भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर डॉ. जे.पी. पांडे करेंगे। इस अवसर पर कुल 1156 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी।

यह जानकारी संस्थान में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान डायरेक्टर डॉ. संजय कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बीटेक 2024 पास आउट बैच के 791, बी.फार्मा के 73, एमबीए के 166, एमसीए के 97, एम. टेक के 8 और एम. फार्मा के 21 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। रजिस्ट्रार शिव पूजन सिंह ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न पाठयक्रमों के टॉप तीन विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। बीटेक की 13 ब्रांचों सहित बी.फार्मा, एमबीए, एमसीए, एमटेक और एमफार्मा के मेधावी विद्यार्थियों को यह सम्मान दिया जाएगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस - डाटा साइंस की छात्र झलक जैन को एकेटीयू यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर चांसलर अवार्ड और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। प्रेसवार्ता में जानक. ारी देने वालो में मीडिया प्रभारी अजय चौधरी, डीन डॉ. संजीव सिंह, मोहन सहित संस्थान के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सुभारती अस्पताल में गामा कैमरा मरीजों के लिए बना वरदान

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। गामा कैमरा सटीक निदान और बेहतर इलाज में मददगार है। कैमरे की मदद से बीमारी की स्थिति को समझने के साथ रोग का प्रारंभिक व स्पष्ट निदान मिलता है। गामा कैमरा से कैंसर, थायराइड, हृदय रोग, किडनी फंक्शन, हड्डी की समस्याओं आदि का प्रारंभिक और स्पष्ट निदान मिलता है। इसके माध्यम से रोग शुरू होने से पहले ही पता चल जाता है, कि शरीर का कौन सा अंग कितना खराब है और कैसे काम कर रहा है। अगर किसी रोगी की किडनी खराब हो जाए, तो उसकी बेहतर स्थिति पता करने में गामा कैमरा सबसे मददगार है।

इससे यह पता लगाया जा सकता है, कि किडनी कितनी खराब है और इसको निकाला जा सकता है या फिर उपचार के माध्यम से ही ठीक हो सकती है। इसलिए गामा कैमरा रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गामा कैमरा की सुविधा मेरठ सहित आस पास के क्षेत्र में सुभारती अस्पताल में उपलब्ध है। स्वास्थ्य का सही मूल्य वही जानता है, जिसने किसी बीमारी से लड़ाई लड़ी हो। मेरठ और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए खुशखबरी है। अब छत्रपति शिवाजी सुभारती अस्पताल में अत्याधुनिक गामा कैमरा की सुविधा उपलब्ध है, जो आपको समय पर और सटीक डायग्नोसिस दिलाने में मदद करेगी। सुभारती अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. कृष्णा मूर्ति ने बताया कि गामा कैमरा एक उन्नत मेडिकल इमेजिंग डिवाइस है, जो न्यूक्लियर मेडिसिन तकनीक का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की गतिविधियों को दिखाता है। यह डिवाइस शरीर में इंजेक्ट की गई रेडियोधर्मी दवा से निकलने वाली गामा किरणों को पकड़ कर इमेज बनाता है। इससे डायग्नोसिस इमेज के माध्यम से डाक्टर बीमारी की स्थिति को समझ कर बेहतर इलाज कर सकते हैं। डॉ. कृष्णा मूर्ति ने विशेष बताया कि सुभारती अस्पताल उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली एनसीआर का विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त अग्रणी अस्पताल है। जिसमें अनुभवी डाक्टर और टेक्निकल स्टाफ 24 घण्टे प्रतिबद्धता से चिकित्सीय सेवाएं प्रदान कर रहे है।

देसी बंदूक व तीन कारतूस के साथ युवक दबोचा

शाह टाइम्स संवाददाता

परीक्षितगढ़। थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक देसी बंदूक व तीन कारतूसों के साथ एक व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया।

थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह आसिफाबाद चौकी प्रभारी रजनीक. ांत पुलिस स्टाफ के साथ आसिफाबाद चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे तभी संदिग्ध लगने पर रंजीत पुत्र सुखदेव निवासी चादरा फॉर्म थाना धनोरा मंडी जनपद अमरोहा की तलाशी लेने पर उसके पास से एक सिंगल देसी बंदूक 12 बोर व तीन जिंदा कारतूस के साथ पकड़कर शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

लालकुर्ती पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था सट्टे का कारोबार, एसपी सिटी ने पकड़ा

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। लालकुर्ती पैठ बाजार चौकी से चंद कदमों की दूरी पर शाम के समय ही सट्टे के दांव लगने शुरू हो जाते है। इसकी जानकारी चौकी प्रभारी से लेकर थाना इंचार्ज तक को नहीं हुई, लोगों ने लालकुर्ती पुलिस से मामले की शिकायत की। तब भी पुलिस ने मामले को कोई संज्ञान नहीं लिया। यही कारण है कि लालकुर्ती पुलिस की भूमिका को संदिग्ध मानकर ही एसपी सिटी ने सीओ कैंट संतोष कुमार के नेतृत्व में सदर बाजार पुलिस की टीम लगाकर सट्टा पकड़ा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पुलिस की शह पर कार्य किया जा रहा था।

अलग-अलग हुई मारपीट की घटनाओं में छह गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक/रामपुर। कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग हुई मारपीट की घटनाओं में छह लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मिलक रामपुर के नेतृत्व में थाना मिलक पुलिस द्वारा अलग अलग क्षेत्र में हुई मारपीट की घटनाओं में मारपीट पर आमदा छह नफर अभियुक्तगण कमल कुमार पुत्र श्रवण सिह उम्र (18 वर्ष),विक्की पुत्र वेदपाल (22 वर्ष), अनिल उर्फ अमित पुत्र मनीराम (32 वर्ष)निवासीगण ग्राम कलकत्ता थाना मिलक जनपद रामपुर,विक्रम पुत्र ओमप्रकाशश (19 वर्ष)निवासी ग्राम तिराह थाना मिलक ,मंगलसैन पुत्र बालकराम निवासी ग्राम सिलई बङा गांव थाना मिलक और हरीशंकर पुत्र गोविन्दराम निवासी ग्राम ऐमी थाना मिलक जनपद रामपुर (36 वर्ष) को अन्तर्गत धारा 170/126/135 भा. ना. सु. सं. के गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट मिलक भेजा गया।

मारपीट के आरोप में दी गई तहरीर

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। बुधवार को थाना क्षेत्र के मोहल्ला हकिमान में रहने वाली तारावती पत्नी हरपाल अपने साथ मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। उसका आरोप है कि बुधवार कि शाम को प्रार्थनी और उसके पुत्र देव कोहली को पूर्व सभासद मोहल्ला हाकिमान गणेश ने हम दोनों के साथ मारपीट की गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

बरसात से पूर्व जल निकासी की हुई व्यवस्था दुरुस्त

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए वार्ड 36 में जलजमाव की समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक सफाई अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के सभासद मौहम्मद जफर ने वार्ड 36 स्थित नई बस्ती क्षेत्र में बहने वाले बड़े नाले की सफाई का कार्य खुद मौके पर पहुंचकर अपनी निगरानी में कराया। निरीक्षण के दौरान संबंधित पालिका कर्मचारियों से बातचीत कर कार्य की गुणवत्ता और प्रगति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। नाले की स्थिति, उसमें जमी गंदगी, रुकावट और संभावित जलभराव के बिंदुओं का गंभीरता से जायजा लिया गया। मौके पर मौजूद टीम को निर्देशित किया गया कि कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि बरसात के दौरान किसी भी प्रकार की जलभराव या स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि वार्ड 36 के अन्य सभी छोटे-बड़े नालों की भी सफाई आगामी दिनों में चरणबद्ध तरीके से कराई जाएगी। नगरवासियों की सुविधा, साफ-सफाई और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जनता से भी अपील की गई कि वे नालों में कचरा न फेंकें और इस अभियान में सहयोग करें ताकि हम सब मिलकर अपने वार्ड को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकें।

विकास कार्यों में धांधली को लेकर फिर जांच को पहुंची अधिकारियों की टीम

(मो. फारूख अंसारी)

शाह टाइम्स संवाददाता

मसवासी/रामपुर। क्षेत्र के गांव खोद कला में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जीशान मलिक ने शिकायतों को लेकर प्रधान के खिलाफ स्थलीय जांच की है जिससे ग्राम प्रधान समेत उसके समर्थकों में हड़कंप मचा रहा तीसरी बार बुधवार को पुलिस बल की मौजूदगी में जांच की गई। खोदकला में विकास कार्यों में धांधली को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की गई थी जिला अधिकारी के निर्देश पर इस मामले की जांच जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जीशान मलिक, अधिशासी अभियंता आर ई डी रामपुर को सौंपी गई थी।

पिछले 6 माह में दो बार जांच की कोशिश की गई लेकिन ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ और आक्रोश को देखते हुए जांच टीम दो बार वापस लौट गई थी बुधवार को फिर स्थलीय जांच के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और खंड विकास अधिकारी समेत अन्य कर्मचारी पुलिस बल की मौजूदगी में गांव पहुंचे और स्थलीय निर्माण कार्यों की जांच की जिसमें कई स्थानों पर पक्का निर्माण कार्य कम पाया गया और मानक के अनुरूप सामग्री नहीं लगाई गई लगभग 3 घंटे चली जांच में कई बार प्रधान समर्थको और शिकायतकर्ताओं के बीच कहासुनी भी हुई लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी से ग्रामीणों में टकराव टल गया और जांच टीम जांच करने के पश्चात जिला मुख्यालय को लौट गई शिकायतकर्ता फैज मियां अदनान मियां समेत कई लोगों का कहना है की विकास कार्यों में धांधली की गई है जिसकी जांच कराई गई है। उधर ग्राम प्रधान हामिद अली का कहना है की शिकायत रंजिशन की गई है।

ठेका देशी शराब की दुकान पर ओवररेट बिक्री को लेकर सेल्समैन से मारपीट, मचा हंगामा

शाह टाइम्स संवाददाता

मसवासी/रामपुर। मुरादाबाद बाजपुर मार्ग स्थित ठेका देशी शराब पर कुछ लोगों ने सेल्समैन की पिटाई कर दी और केबिन तोड़ने का प्रयास किया जिसपर शराब की दुकान पर हंगामा खड़ा हो गया इस मामले की लिखित तहरीर पुलिस को सौंपी गई है पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठेका देशी शराब की दुकान पर ओवररेट की बिक्री को लेकर आए दिन हंगामा आम बात हो गई है गुरुवार को फिर ओवर रेट की बिक्री को लेकर सेल्समेन राजेश कुमार से मसवासी के। मोहल्ला ढीमरखेड़ा के कुछ लोगों की मारपीट और गाली-गलौज करते हुए उसका केबिन तोड़ने का प्रयास किया जिससे दुकान पर अफरा तफरी मच गई और हंगामा खड़ा हो गया तमाम लोगों की भीड़ शराब की दुकान पर इकट्ठा हो गई काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे में सेल्समैन को शराब की बिक्री बंद करनी पड़ी और उसने पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस को घटना क्रम से अवगत कराया और नामजद तहरीर पुलिस को सोपी है पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि मसवासी सीमा सटे बिजारखाता में कुछ चाय की दुकानों पर शराब के पव्वे दिन ढलते ही ओवररेट में बेचे जाते हैं जिसको लेकर कई बार हंगामा और मारपीट हो चुकी है कुछ युवक शराब की पेटी ठेका देशी

शराब से दुकान से लेजाकर अपनी चाय की दुकानों पर रख लेते हैं और दिन ढलते ही ओवररेट में बेचना शुरू कर देते हैं।

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहाबाद/ रामपुर। आरोपी सहित नाबालिग अपहृता को पुलिस ने बरामद कर विधिक कार्रवाही करते हुए आरोपी को न्यायालय पेश किया और किशोरी को स्टाप सेंटर भेज दिया। उपनिरीक्षक शाहाबाद शाहबाद आदेश कुमार ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों का. मुकुल चौधरी,का. अमित सिंह, म. का. आरती के साथ मुख्य आरोपी मुस्लिम पुत्र सुलेमान को मय अपहृता मुखबिर की सूचना पर चन्दौसी रोड लक्खी बाग में बनी मजार के पास से गिरफ्तार कर लिया।

मामला बीते 28.04.2025 का है जब शाहबाद कोतवाली के एक मोहल्ले के रहने वाले नाबालिग किशोरी के पिता ने थाना शाहबाद में उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुलाकर भाग ले जाने के आरोप में कार्रवाही के लिए तहरीर दी थी उसका आरोप था कि मुस्लिम पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला फर्राशान कस्बा व थाना शाहबाद जिला रामपुर , सुलेमान पुत्र नरूल्ला शाह , जैहरा पुत्री सुलेमान, हासिम पुत्र हनीफ निवासीगण मौहल्ला फर्राशान कस्बा व थाना शाहबाद जिला रामपुर के सहयोग से वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। नाबालिक किशोरी के पिता की

तहरीर पर पुलिस नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई और मुख्य आरोपी मय अपहृता गिरफ्तार कर लिया ओर विधिक कार्यवाही करते हुए आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर न्यायालय में पेश किया वही नाबालिग किशोरी को वन स्टाफ सेंटर जिला रामपुर भेज दिया।

समर कैंप एवं योजनाओं को लेकर शिक्षकों, अभिभावकों के बीच हुई बैठक

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/ रामपुर। गुरुवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक रामपुर के आदेश के अनुपालन में विद्यालय में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्या वंदना शर्मा ने बैठक में विभाग की योजना एवं कार्यक्रमों के बारे में अभिभावको को जानक. ारी दी गई।

विद्यालय में विभाग के द्वारा चल रही योजनाओं जैसे किशोरावस्था कार्यक्रम बालिकाओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण कैरियर गाइडेंस खान एकेडमी व्यवसायिक शिक्षा के विषय में अभिभावकों को बताया गया 21 /5/ 2025 से 10 /6/ 2025 के मध्य आयोजित होने वाले

समर कैंप के विषय में भी ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को प्रतिभाग करने के लिए अभिभावकों से सहमति और सहयोग देने के लिए कहा गया ।अभिभावकों द्वारा समर कैंप को सफल बनाने में अपना सहयोग देने के लिए सहमति जताई बैठक के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य वंदना शर्मा के द्वारा सभी अभिभावको और स्टाफ को धन्यवाद दिया गया।इस दौरान गुप्ता, सुमन, मीनाक्षी, ज्योति सक्सेना, कनीज फातिमा, उजमा वकील खान ,निधि ,डोली अर्चना, आनंद कुमार, राम सरण रेनू, आदि मौजूद रही।

वैवाहिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर लगे पूर्णत: रोक

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहाबाद/रामपुर। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम सम्बोधित प्रार्थना पत्र में वैवाहिक कार्यक्रम में डीजे बजाने को लेकर पाबंदी की मांग की गई है। पत्र में हरज्ञान सिंह यादव, कुलदीप सिंह यादव, बादशाह सिंह, मनोज कुमार यादव, श्रीपाल सिंह, बृजवासी ,राम बहादुर यादव, सुनील यादव ,वीरेंद्र पाल, देशराज मौर्या, किशन पाल लोधी, दान सिंह लोधी, डॉक्टर मोहम्मद सलीम आदि ने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार सहित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार को एक सामूहिक पत्र लिखकर अनुरोध किया है की बारात में कानफोड़ू व ध्वनि प्रदूषण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए व महापुरुषों के नाम पर आपस में द्वेष व आपसी विरोध कम करने के लिए डीजे बजाने पर बारात इत्यादि में पूरी तरह से रोक लगाई जाए जाति धर्म आदि पर जीत बजाए जाते हैं जिससे कि जिससे मई आकर लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाती है जिससे भाईचारे की एकता प्रभावित होती है। समाज में आपसी भाईचारा बना रहे झगड़े शराब के नशे में नशेड़ी के द्वारा ही किया जाता है फिर भी नशेड़ी थाने में जाकर जाति सूचक शब्द व लाठी डंडों से मारना और फायरिंग करना कह कर रिपोर्ट लिखाते हैं वहीं थाना अध्यक्षों को भी निर्देशित किया जाए कि नशे में धुत लोग जब थाने में आए तो सबसे पहले उसकी संपूर्ण जांच करवाये फिर एफआईआर दर्ज करें।

सीएचसी पर शाहबाद पर हुआ सीवाई टीबी का टीकाकरण

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद में सीवाई टीबी का टीकाकरण हुआ। जिसमें सभी आसाओ और स्टाफ के टीका लगाया गया। एसटीएस संजीव कुमार द्वारा बताया गया कि सी.वाई. टीबी एक नया टीकाकरण है जिसमे ये बताया गया है कि व्यक्ति के अंदर टीवी के लक्षण हैं या नहीं।

इसमें यदि व्यक्ति के अंदर टीबी के लक्षण है तो टीके वाली जगह लाल हो जाती है और सूजन आ जाती है तथा हल्की खुजली होती है।

इस मौके पर एसटीएस संजीव कुमार, यूनिस, शादाब अली, एल टी समीर अली, एचआईबी काउं.

सलर जितेन्द्र प्रसाद व समस्त आशाएं मौजूद रहीं।

दो पक्षों में मारपीट के बाद पुलिस ने किया पैदल मार्च

शाह टाइम्स संवाददाता

मसवासी/रामपुर। बुधवार की देर रात दो पक्षों में मारपीट के बाद हुए हंगामे को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से नगर में पैदल मार्च किया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बुधवार की देर रात एक ही समुदाय के दो पक्षों में मारपीट हो गई थी जिससे एक पक्ष के लोग आक्रोशित होकर जुलूस की शक्ल मे पुलिस चौकी पहुंचे थे और काफी देर तक हंगामा किया था सूचना पाकर कोतवाल कुलदीप सिंह क्षेत्र अधिकारी अतुल कुमार पांडे, चौकी इंचार्ज अजय कुमार शुक्ला ने किसी तरह लोगों को समझा बूझकर मामला शांत किया जिससे तमाम लोग वापस लौट गए थे। चौकी इंचार्ज अजय शुक्ला ने बताया की देर रात दोनों पक्षों में समझौता हो गया था पुलिस ने गुरुवार को सुरक्षा की दृष्टि से नगर में पैदल मार्च किया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।

बाल श्रम की टीम ने की छापेमारी, एक फैक्ट्री पर कार्यवाही

शाह टाइम्स संवाददाता

पटवाई/रामपुर। पटवाई बाल श्रम की टीम ने पटवाई कस्बे में पहुंचकर कार्यवाही की है। टीम ने एक पेंट फैक्ट्री पर दो नाबालिक बच्चों को काम करते मौजूद पाया। जिस पर फैक्ट्री संचालक पर कार्यवाही की गई है। बृहस्पतिवार को बाल श्रम टीम ने पटवाई पहुंच सर एक फैक्टरी पर कार्यवाही की है टीम ने कस्बे के मिलक रोड स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री पर काम कर रहे दो बच्चों को काम करते पकड़ा है।

दलित युवक से मारपीट के बाद जाटव समाज के लोगों ने निकाला जुलूस

शाह टाइम्स संवाददाता

मसवासी/रामपुर। नगर में तीन दिन पूर्व कुछ युवकों में आपस में किसी बात को लेकर कहा सुनी एवं मारपीट हो गई थी जो की एक पक्ष जाटव समाज का था तथा दूसरे पक्ष के युवकों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी लेकिन तीन दिन के बाद जाटव पक्ष के युवकों तथा दूसरे के पक्ष के युवको मे बुधवार की रात फिर से कहा सुनी और मारपीट हो गई । जिस पर जाटव समाज मे आक्रोश फैल गया और सैकड़ो की संख्या में लोग बाहर निकल कर आगये और मुख्य बाजार से होते हुए बजरंग दल के खिलाफ नारे लगाते हुए और बाबा साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस चौकी का घेराव कर लिया तथा पूरे नगर के मुख्य मार्गो में जाटव समाज द्वारा बजरंग दल हाय हाय के नारे लगाए गए । सूचना पाकर स्वार कोतवाल कुलदीप सिंह एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी भी पुलिस चौकी पहुंच गए किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कर वापस भेज दिया किसी भी पक्ष ने कोई तहरीर पुलिस को नही दी है।

किसानों ने मनाई बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत की 14 पुण्यतिथि

शाह टाइम्स संवाददाता

स्वार/रामपुर। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानो ने ग्राम गुलड पीपल साना के ब मासिक बैठक हाल में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की,14. पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर फूल माला पहना कर उन्हें सम्मानित किया गया और उनके विचारों पर मंथन किया गया उनके आदर्श पर विचार किया गया। इस मौके पर यह संकल्प लिया गया की हर किसान की दुख तकलीफ को भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसान मजदूरों के हित में काम करते रहेंगे और उनकी आवाज को शासन व प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस दौरान जिला सलाहकार सलामत जान, कुलवीर सिंह, महबूब अली, जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह निशांत सिंह, मुजफ्फर अली, रेहान अली, इरशाद अली, कदीर पेंटर, सिरसत अली, खलील अहमद,जसवंत सिंह, मसरूफ अली, अली नावेद, आदि पदाधिकारी व किसान व युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

शरबत वितरण कर मनाई बाबा टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के क्षेत्रीय कार्यालय शाहाबाद पर भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी और सदस्य एकत्र हुए और उसके बाद सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी ने बाबा टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि पर चौधरी राकेश टिकैत चित्र पर माल्यार्पण किया।

उसके बाद जलपान के साथ राहग. ीरो व बच्चों को शरबत वितरण किया गया। इस दौरान रहे दरयाव सिंह यादव प्रदेश सचिव, पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष डॉक्टर फूल सिंह ,अखलाक हुसैन नगर अध्यक्ष प्रमोद यादव, डॉक्टर पप्पू ,राहत खान, यादव,सरफराज हुसैन, भूप सिंह यादव, रामदास मौर्य जी , बुंदू फौजी,अर्जुन सिंह, शंकर लाल लोधी अफरोज खान, चन्ना खान, पप्पू खान सत्येंद्र यादव गुड्डू खान आदि मौजूद रहे।

WTC-2025 के विजेता पर होगी पैसों की बारिश

● आईसीसी ने इनामी राशि दोगुना की, चैंपियनशिप की विजेता टीम को मिलेंगे 36 लाख डॉलर

दुबई, वार्ता। विश्व टेस्ट चैंपियनिशप (डब्ल्यूटीसी) 2023-25 संस्करण की विजेता टीम को 36 लाख तथा उपविजेता को 21.6 लाख डॉलर मिलेंगे।

आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में होने वाली विश्व टेस्ट चैंपियनिशप (डब्ल्यूटीसी) 2023-25 के लिए कुल पुरस्कार राशि को बढ़कर 57.6 लाख डॉलर कर दिया है। जो कि पिछले दो संस्करणों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। चैंपियन को 36 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि हमने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे चक्र को बहुत ही रोमांचक रहा और फाइनल में खेलने वाली टीमों का फैसला प्रतियोगिता के आखिरी में ही हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच दर्शकों के साथ-साथ दुनिया भर से आने वाले प्रशंसकों को इस प्रतिष्ठित प्रारूप में कुछ बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि आईसीसी की ओर से मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित मैच की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने कहा कि हम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर बहुत खुश हैं, यह हमारे लिए आईसीसी खिताब जीतने का एक अच्छा अवसर है। हम सभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि हमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का बचाव करने का अवसर पाकर बहुत गर्व है। हमने फाइनल तक पहुंचने के लिए अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की है और यह हम सभी के लिए एक बड़ा सम्मान है।

त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद की जोड़ी हारी

बैंकॉक, वार्ता। भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला युगल के दूसरे राउंड में जापान की रूई हीरो. कामि और सायाका होबारा से हारकर थाईलैंड ओपन 2025 से बाहर हो गईं। यहां निमिबुत्र स्टेडियम में 53 मिनट तक चले मुकाबले में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को जपानी जोड़ी से मिली हार के इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई क्योंकि सभी पांच भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अपने-अपने मुकाबले हार गए। तीसरी वरीयता प्राप्त त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने पहले गेम में कड़ी टक्कर दी, लेकिन 20-22 से हार गईं। इसके बाद जापानी जोड़ी ने दूसरा गेम 21-14 से जीतकर मैच जीत लिया। अन्य मुकाबलों में महिला एकल में उन्नति हुड्डा भी बाहर हो गईं। उन्हें थाईलैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व नंबर 6 पोर्नपावी चोचुवोंग के खिलाफ 14-21, 11-11 से हार का सामना करना पड़ा। मालविका बंसोड़ को भी थाईलैंड की खिलाड़ी रत्चानोक इंतानोन से 12-21, 16-21 से हराया।

■ जापानी जोड़ी ने दूसरा गेम 21-14 से अपने नाम किया

विदेशी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी से टीमों को नहीं पड़ेगा फर्क

● अस्थायी खिलाड़ियों को जोड़ने की दी मंजूरी, नियमों में किया गया बदलाव

नई दिल्ली, वार्ता। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद 17 मई से एक बार फिर आईपीएल का रोमांच शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सत्र के बाकी बचे मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया और फेंचाइजियों को उनके सभी खिलाड़ियों को एकत्र करने के निर्देश दिए। हालांकि, कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने बाकी बचे सत्र के लिए अनुपलब्धता जाहिर की है। ऐसे में आईपीएल ने टीमों को राहत देने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने टीमों को आईपीएल के बाकी बचे मुकाबलों के लिए अपने साथ अस्थाई तौर पर वैकल्पिक खिलाड़ियों को जोड़ने की मंजूरी दी है। दरअसल, कुछ विदेशी खिलाड़ी आगामी मैचों के लिए अनुपलब्ध हैं। मूल कार्यक्रम के अनुसार आईपीएल का फाइनल 25 मई को होना था लेकिन अब यह तीन जून को होगा जिससे राष्ट्रीय टीम से जुड़ने वाले खिलाड़ियों के लिए इसमें खेलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ खिलाड़ी व्यक्तिगत कारणों से वापस नहीं आ रहे जबकि मौजूदा सत्र में सीएसके का प्रतिनिधित्व करने वाले जेमी ओवरटन जैसे खिलाड़ी विंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर सीमित ओवरों की सीरीज के लिए ब्रिटेन में ही रहेंगे। पीटीआई ने आईपीएल के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कहा कि हमें आईपीएल 2025 को अस्थाई रूप से निलंबित करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप इसे 25 मई 2025 की पूर्व निर्धारित तिथि के बाद पूरा करना पड़ रहा है इसलिए हमने वैकल्पिक खिलाड़ी से जुड़े प्रावधानों का पुनरू मूल्यांकन किया है। राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं या व्यक्तिगत कारणों या किसी चोट या बीमारी के कारण कुछ विदेशी प्लेयरों की अनुपलब्धता को देखते हुए इस टूर्नामेंट के समापन तक अस्थाई तौर पर वैकल्पिक खिलाड़ियों को चुनने की अनुमति दी जाएगी।

संक्षिप्त खेल समाचार

दासनायके को अमेरिका की टीम का कोच बनाया

कोलंबो, वार्ता। श्रीलंका और कनाडा के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पुबुदु दासनायके को अमेरिका की पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। दासनायके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज स्टुअर्ट लॉ का स्थान लेंगे। दासनायके को दूसरी बार अमेरिका की टीम का कोच बनाया गया है। इससे पहले 54 वर्षीय दासनायके 2016-2019 तक तीन साल तक अमेरिका की टीम के कोच रहे थे। इस दौरान दासनायके ने अमेरिका को एकदिवसीय क्रिकेट टीम का दर्जा दिलाने में महत्वूपर्ण भूमिका निभाई थी।दासनायके ने श्रीलंका के लिए 11 टेस्ट और 16 एकदिवसीय मैच खेले। अमेरिका की टीम का फिर से कोच बनाये जाने पर दासनायके ने कहा कि अमेरिका पुरुष राष्ट्रीय टीम में वापस आना और उसका नेतृत्व करना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका क्रिकेट के लिए कुछ सार्थक करने के लिए खिलाड़ियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की टीम भारत में अगले साल होने वाले टी-20 विश्वकप के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है।

दिल्ली ने फ्रेजर मक्गार्क की जगह मुस्तफिजुर रहमान रिप्लेस किया

नई दिल्ली, वार्ता। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मक्गार्क के कारणों से आईपीएल 2025 के शेष मैचों के लिए वापस आने से इंकार करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गें. दबाज मुस्तफिजुर रहमान को छह करोड़ रूपये की अनुबंध राशि पर टीम में शामिल किया है।

आईपीएल के नियमों के अनुसार अगर किसी खिलाड़ी को बीमारी या चोट लग जाती है और यह टीम के 12वें मैच से पहले होता है तो टीम दूसरे खिलाड़ी को ले सकती है। लेकिन इस बार लीग के स्थागित होने के बाद इसे फिर से शुरु किये जाने को लेकर नियमों में बदलाव के तहत सीजन के शेष हिस्से के लिए फ्रैंचाइजी को अस्थायी रूप से दूसरे खिलाड़ी को टीम में लेने की अनुमति दी गई है। आईपीएल ने फ्रैचाइजी को बताया कि कुछ विदेशी खिलाड़ियों की राष्ट्रीय जिम्मेदारियों, व्यक्तिगत कारणों या किसी चोट या बीमारी की वजह से अनुपलब्धता को देखते हुए इस टूर्नामेंट के आखिर तक अस्थायी रूप से खिलाड़ी लेने की अनुमति है। उन्होंने कहा जिस भी खिलाड़ी को अस्थायी अनु. बंधित किया जायेगा। फ्रैचाइजी उन्हें अगले सत्र के लिए रिटेन नहीं कर पायेगी। यह फैसला संभवतघ इसीलिए लिया गया है ताकि फ्रैचाइजी नीलामी प्रक्रिया को दर्रा. कनार करने के लिए जानबूझकर रिप्लेसमेंट न लें, बल्कि जरुरत के आधार पर ही ऐसा करें।

शोएब मलिक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंटर का पद छोड़ा

लाहौर, वार्ता। शोएब मलिक ने अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के मेंटर पद से इस्तीफा दे दिया है। मेंटर पद से इस्तीफे को लेकर शोएब मलिक ने कहा कि यह आसान विकल्प नहीं था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कई अन्य जिम्मेदारियों को निभाने से मैं पाकिस्तान क्रिकेट और अपनी अन्य पेशेवर और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाऊंगा। उल्लेखनीय है कि मलिक ने दो सप्ताह पहले बोर्ड को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा था कि अब वह अगले सत्र में मेंटर नहीं होंगे। वह अपने शेष अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा निर्वहन करेंगे। पीसीबी ने शोएब मलिक, मिस्बाह-उल-हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद और वकार यूनिस को मेंटर के रूप में 2027 तक तीन साल के अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। मलिक का इस्तीफा सार्वजनिक होने के बाद मीडिया रिपोर्टों ने बताया कि पीसीबी ने सभी पांच मेंटरों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि पीसीबी के प्रवक्ता ने कहा कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोर्ड को इस बारे में नहीं बताया है। साथ ही अन्य मेंटरों का कहना है कि उन्हें किसी भी बदलाव के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

मुंबई के लिए बेहतर बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा

■ औसत और स्ट्राइक रेट में हुआ सुधार, रोहित ने पांच मैचों में फेल रहने के बाद की जबरदस्त वापसी

मुंबई, वार्ता। आईपीएल 2025 के दूसरे चरण की शुरुआत 17 मई से होने जा रही है। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से इसे हफ्ते के लिए स्थगित किया गया था। हालांकि, दुनिया की इस सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की वापसी को लेकर फैंस में उत्साह है।

अंक तालिका में फिलहाल गुजरात टाइटंस की टीम शीर्ष पर है। वहीं, आरसीबी दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर है। एमआई की टीम ने लीग में पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी की और अंक तालिका में फिलहाल चौथे स्थान पर हैं। इसका श्रेय टीम के ओपनर रोहित शर्मा को भी जाता है, जिन्होंने शुरुआती पांच मैचों में फेल रहने के बाद जबरदस्त वापसी की और पिछले पांच मैचों में तीन अर्द्धशतक जड़े। पिछले साल यानी 2024 में मुंबई की कप्तानी से हटाए जाने के बाद से रोहित ने खूब रन बनाए हैं। आंकड़े गवाह हैं कि कप्तानी छोड़ने के बाद से उनके औसत और स्ट्राइक रेट में बढ़ोतरी हुई है। रोहित ने 2017 से लेकर 2023 तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए 100 पारियों में 24.6 की औसत और 127.4 के स्ट्राइक रेट से 2337 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 13 बार 50 से ज्यादा के स्कोर बनाए। वहीं, 94 छक्के लगाए। वहीं, साल 2024 से लेकर अब तक रोहित ने 25 पारियों में 31.17 की औसत और 150.9 के स्ट्राइक रेट से 717 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने पांच बार 50 से ज्यादा के स्कोर बनाए हैं। साथ ही उन्होंने 40 छक्के भी लगाए हैं। यानी कप्तानी छोड़ने के बाद से उन पर से दबाव हटा है और वह खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस आईपीएल में मुंबई की टीम उन्हें बतौर इम्पैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर रही है और इसका फायदा उन्हें मिला है। वह मैदान पर फील्डिंग करते हुए थकते नहीं हैं और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बल्लेबाजी के दौरान करते हैं। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जीत चुकी है। हालांकि, साल 2024 में मुंबई टीम मैनेजमेंट ने उन्हें हटाकर हार्दिक पांडया को कप्तानी सौंपी थी। पिछले साल मुंबई का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। हालांकि, इस साल टीम अच्छा कर रही है। रोहित ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। वह पिछले साल टी20 अंतर्राष्ट्रीय से भी संन्यास ले चुके हैं। लीग में वह सिर्फ आईपीएल में खेलते दिखते हैं। वहीं, भारत के लिए अब वह सिर्फ वनडे में खेलते दिखेंगे।

हरियाणा ने अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीते

राजगीर, वार्ता। हरियाणा के एथलीटों ने गुरुवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में तलवारबाजी प्रतियोगिता के अंतिम दिन तीन स्वर्ण पदक जीते।

यहां गुरुवार को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में हुई प्रतियोगिता में हरियाणा के लड़कों ने सेबर टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जबकि लड़कियों ने एपी और फॉइल स्पर्धाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस प्रकार हरियाणा ने सात स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक के साथ प्रतियोगिता समाप्त की। महाराष्ट्र ने दो स्वर्ण, दो रजत और तीन रजत पदक जीते। चंडीगढ़, तमिलनाडु और राजस्थान ने एक-एक स्वर्ण पदक जीतकर इस संस्करण की तलवारबाजी प्रतियोगिता में शीर्ष पांच टीमों में जगह बनाई। हरियाणा की लड़कियों की एपी टीम की कप्तान दीपांशी ने कहा कि हमारी टीम अपनी सफलता का श्रेय अपने कोचों के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन को जाता है। टीम स्पर्धा में यह मेरा लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है और मुझे अपनी लगातार जीत पर गर्व है। पुरुषों की कृपाण टीम के कप्तान उज्ज्वल ने कहा कि यह मेरा पहला खेलो इंडिया था और मैं टीम वर्क और दृढ़ संकल्प के माध्यम से स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए भाग्यशाली था। मैं अपने कोच कपिल, राजपाल यादव, नरेंद्र सिंह और सुरेश को धन्यवाद देना चाहता हूं।

कर्नाटक की लड़कियों और उत्तर प्रदेश के लड़कों ने बास्केटबॉल में जीते स्वर्ण पदक

पटना, वार्ता। कर्नाटक की लड़कियों और उत्तर प्रदेश के लड़कों की टीमों ने गुरुवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बास्केटबॉल मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीते। यहां पटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले फाइनल मुकाबले में कर्नाटक की लड़कियों की टीम ने हरियाणा पर पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा और हर क्षेत्र में श्रेष्ठत प्रदर्शन करते हुए मैच 46-25 से जीत लिया। कर्नाटक के लिए निधि उमेश ने 27, माहेक शर्मा ने 21, निधि श्रीनिवास ने 17 और श्रावणी शिवन्ना 10 का स्कोर किया। हरियाणा की ओर से काफी ने 22, भूमि कतारिया ने 22 और वैष्णवी ने 13 का स्कोर किया। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लड़कों के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला कड़ा और कम स्कोर वाला रहा। एक समय दोनों टीमें लगभग बराबरी पर थीं। अंतिम क्वार्टर में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक-एक थ्री-पॉइंटर लगाया, जिससे राजस्थान के लिए मैच में वापसी मुश्किल हो गई।

इंग्लैंड ने साउथी को टीम का सलाहकार किया नियुक्त

लंदन, वार्ता। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउथी को पुरुष टीम का विशेषज्ञ कौशल सलाहकार नियुक्त किया है। टीम साउथी ने न्यूजीलैंड के लिए 107 टेस्ट, 161 एकदिवसीय और 126 टी-20 मैच खेले है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सभी प्रारूपों में सबसे अधिक 776 विकेट लिए है। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 से अधिक वर्षो का अनुभव है। उन्होंने दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। ईसीबी का मानना है कि साउथी का अनुभव इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत उपयोगी होगा। टीम साउथी जिम्बाब्वे के खिलाफ 22 मई को ट्रेंट ब्रिज में शुरु होने वाले एकमात्र टेस्ट से पहले इंग्लैंड की टीम के साथ जुड़ेंगे। हालांकि साउदी की यह नियुक्ति लंबे समय के लिए नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि सलाहकार भूमिका के समापन के बाद साउथी के बर्मिंघम फीनिक्स के साथ द हंड्रेड में खेलना फिर से शुरू कर सकते है।

इंग्लैंड ने विंडीज सीरीज के लिए गेंदबाज वोंग को टीम में वापस बुलाया

लंदन, वार्ता। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी एकदिवसीय और टी-20 सीरीज के लिए घोषित 14 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज इस्सी वोंग को वापस बुलाया है। चयनकर्ताओं ने हीथर नाइट के इस्तीफे के बाद स्टार ऑलराउंडर नैट साइवर-ब्रंट को तीन एकदिवसीय और इतने ही टी-20 मैचों के लिए पूर्णकालिक कप्तान की जिम्म्मदारी सौंपी है। वोंग की वापसी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद हुई है। इसके साथ ही एलिस डेविडसन-रिचर्ड्स और एम्मा लैम्ब की भी एकदिवसीय टीम में वापस आयी है। इस सीरीज में तेज गेंदबाज एमिली अर्लट भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करेंगी। उन्हें टी-20 और एकदिवसीय दोनों टीमों में शामिल किया गया है।

टी-20 टीमः- नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एमिली, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया, सारा, एमी , हीथर नाइट, पैगे स्कोल्फील्ड, लिंसे, इस्सी वोंग व डैनी वायट**वनडे टीमः** नेट सायवर-ब्रंट (कप्तान), एलिस- रिचर्ड्स, एमिली अर्लट, टैमी,बेल, केट, चार्ली, सोफिया, माहिका, सारा, एमी, हीथर, एम्मा व लिंसे स्मिथ।

नदीम और हम कभी करीबी दोस्त नहीं थे: नीरज

● पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर को बुलाने पर ट्रोल हुए थे कल दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे

दोहा, वार्ता। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को कहा है कि वे और अरशद नदीम कभी भी करीबी दोस्त नहीं थे। नीरज ने दोहा डायमंड लीग की पूर्व संध्या पर कहा कि 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत और पाक के बीच चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी।

नीरज चोपड़ा 16 मई को अपने डायमंड लीग अभियान का आगाज करेंगे। रात 10:15 बजे उनका इवेंट होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नीरज चोपड़ा और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। क्योंकि, नीरज ने बेंगलुरु में एनसी क्लासिक में पाकिस्तान के नदीम को आमंत्रित किया था, हालांकि वह इवेंट स्थगित किया जा चुका है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरा (नदीम के साथ) बहुत मजबूत रिश्ता नहीं है। हम कभी भी करीबी दोस्त नहीं थे। लेकिन, इस वजह (भारत-पाक सीमा पर तनाव) से अब हमारे बीच बातचीत पहले जैसी नहीं होगी। पर अगर कोई मुझसे सम्मान से बात करता है तो मैं भी सम्मान से ही बात करता हूं।

सफाई भी दी- आतंकी हमले से पहले आमंत्रित किया था पेरिस गेम्स के रजत विजेता स्टार ने पहले कहा था कि नदीम को उनके सम्मान में आयोजित टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट में उनके और उनके परिवार की ईमानदारी पर सवाल उठाए जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। चोपड़ा ने तब स्पष्ट किया था कि एनसी क्लासिक के लिए निमंत्रण पहलगाम आतंकी हमले से एक दिन पहले भेजे गए थे जिसमें 26 लोग मारे गए थे।

नीरज नीरज चोपड़ा ने कहा कि बतौर खिलाड़ी हमें बातचीत करनी होगी। दुनिया भर में खेल समुदाय में मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं। जो सिर्फ भाला फेंक में ही नहीं हैं, बल्कि अन्य खेलों में भी हैं। अगर कोई मुझसे सम्मानपूर्वक बात करता है तो मैं भी उससे पूरे सम्मान के साथ बात करूंगा। हरियाणा के स्टार ने कहा कि भाला फेंक में बहुत छोटा समुदाय है और हर कोई अपने देश के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है और हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है।

एशियाई मुक्केबाजी में पांच स्वर्ण देने वाले भारतीय बने हिमांशु सिंह

संतकबीरनगर, वार्ता। उत्तर प्रदेश में संतक. बीरनगर जिले के हिमांशु सिंह ने साउथ एशियन आर्म बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पांच पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

पेदम स्टेडियम मापुसा गोवा में दिनांक 09 से 11 मई तक आयोजित साउथ एशिया आर्म बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में हिमांशु सिंह ने प्रतिभाग किया। उन्होंने 51 किलो भार वर्ग जूनियर कैटेगरी में पांच इवेंट्स में प्रतिभाग किया जिसमें फुल बॉडी कॉन्टैक्ट, एमेच्योर बॉक्सिंग, लो बॉडी कॉन्टैक्ट, टच कॉन्टैक्ट और म्यूजिकल फॉर्म शामिल है। उन्होने पांच इवेंट्स में पांच स्वर्ण पदक हासिल करके भारत का नाम रोशन किया। आर्म बॉक्सिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि हिमांशु की इस उपलब्धि पर इंडिया के टीम और सभी लोगों में खुशी का माहौल है। हिमांशु सिंह आगे चल कर एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे और भारत देश का नाम करेंगे। हिमांशु सिंह संतकबीरनगर जिले के छोटे से गांव रसूलपुर के निवासी बालकृष्ण सिंह के पुत्र हैं। वह गोरखपुर जिले के सहजनवा में स्थित गीडा सेक्टर 23 में अपने मामा के यहां बचपन से रहते हैं। उनके पिता जाने-माने पहलवान और प्रगतिशील किसान हैं।

चैंपियनशिप में पांच पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया

सम्पादकीय

शुक्रवार, 16 मई 2025

ट्रम्प की पैंतरेबाजी

अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नया पैंतरा खेलते हुए एपल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि एपल के प्रोडक्ट वहां बनाएं। भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। याद रहे कि भारत और पाक में सीजफायर में मध्यस्थता का दावा करने वाले ट्रम्प को भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है। अब हमारी समझ में आया है कि जो देश पहले भारत की पाक समर्थित आतंकियों पर कार्रवाई को सही बता रहा था, उसे ने अब एक इनामी आतंकी को गले लगा लिया है। भारत ने उसे साफ कह दिया है कि कश्मीर मामले पर तीसरे पक्ष का दखल स्वीकार नहीं है और यदि पाकिस्तान से बात होती है, तो सिर्फ पीओके वापसी पर ही होगी। भारत को तो बहुत पहले समझ लेना चाहिए था कि अमेरिका दो देशों को लड़ाकर अपना फायदा उठाना चाहता है। कहते हैं कि देर आयद, दुरुस्त आयद। भले ही भारत को ट्रम्प की बात देर से समझ आई है, लेकिन अब साफ जवाब भी दे दिया है। ट्रम्प ने दावा किया था कि उसके कहने पर ही भारत और पाक में सीजफायर हुआ है। उसने केवल अपने ट्वीटर हैंडल पर ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब में भी यही कहा था। अब एक आतंकी को गले लगाने का मतलब ये है कि अमेरिका भी एक आतंकवादी समर्थित देश हो गया है और अब भारत को उससे सचेत रहना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सीरिया पर लगाए गए सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने का आदेश दिया है। इस आदेश के अगले ही दिन ट्रम्प ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात की। कभी टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी रह चुके अल-शरा से ट्रम्प की मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अहमद अल-शरा ने 2011 में सीरिया में कई आत्मघाती हमले कराए थे। अमेरिका ने उस पर 10 मिलियन डॉलर (करीब 84 करोड़ रुपये) का इनाम रखा हुआ था, जिसे 5 महीने पहले दिसम्बर में हटा दिया गया था। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी, जो भारत के अलग -अलग राज्यों से पहलगाम घूमने गए थे। इसके बाद सात मई को पाकिस्तान ने देश के तीन राज्यों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया था, जिसे भारत के सुदर्शन चक्र ने विफल कर दिया था। तीन दिन चली गोलीबारी के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ में वार्ता होने के बाद सीजफायर हो गया था, जिसका श्रेय अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले रहे हैं। जो उनका सफेद झूठ है। इस झूठ को क्या कहा जाए, जिस डोनाल्ड ट्रम्प को भारतीय पीएम मोदी ने बहुत अच्छा बताया था, वही अब आतंकवादी के समर्थित लग रहे हैं। अब भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में कह दिया है कि यदि बात होती है, तो केवल द्विपक्षीय होगी। किसी तीसरे की दखल स्वीकार नही है। उधर भारत के चार विश्वविद्यालयों ने तुर्की से समझौते रद्द कर दिए हैं। इनमें जामिया मिल्लिया, जेएनयू, इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय शामिल हैं।

जाति जनगणना निष्पक्ष तरीके से हो

प्रधानमंत्री मोदी जाति जनगणना के खिलाफ थे, लेकिन यह उनका दबाव था, जिसने श्री मोदी को राष्ट्रीय स्तर की जाति जनगणना के लिए तैयार होने को मजबूर कर दिया, हम चाहते हैं कि जाति जनगणना निष्पक्ष और सही तरीके से हो, ताकि विकास के रास्ते में पीछे रह गए लोगों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना सही तरीके से कराई, अब केंद्र की मोदी सरकार को तेलंगाना की तर्ज पर जाति जनगणना करानी चाहिए, देश में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की आबादी 90 प्रतिशत है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इन सभी को हर रोज यातना व उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, उच्च न्यायपालिका, नौकरशाही और कॉर्पोरेट क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी और ईबीसी की भागीदारी शून्य है।

राहुल गांधी
सांसद, कांग्रेस

डेंगू में लापरवाही जिंदगी पर पड़ सकती है भारी

श्वेता गोयल

डेंगू एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जिसके चलते हर साल काफी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। अब लगभग हर साल देश के विभिन्न राज्यों के अनेक इलाके डेंगू और वायरल बुखार के कोप से त्राहि-त्राहि करते नजर आते हैं और हम इस बेबसी पर केवल आंसू ही बहाते रह जाते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष लोगों में डेंगू को लेकर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 16 मई को 'राष्ट्रीय डेंगू दिवस' मनाया जाता है। डेंगू के लगातार सामने आते मामलों को देखते हुए डेंगू से बचाव को लेकर अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अभी तक इसकी कोई वेक्सीन नहीं बनी है, इसलिए डेंगू से बचाव के उपाय ही सबसे अहम हैं।

मानसून के साथ डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के पनपने का मौसम शुरू होता है, इसीलिए इस बीमारी को लेकर लोगों में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा इसके लिए 16 मई का दिन निर्धारित किया गया। डेंगू नामक बीमारी कितनी भयावह हो सकती है, उसका अनुमान इसी पहलू से आसानी से लगाया जा सकता है कि समय से उपचार नहीं मिलने के कारण डेंगू पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। पिछले साल देश के विभिन्न राज्यों और विशेषकर उत्तर प्रदेश में डेंगू से पीड़ित हुए कई मरीजों की मौत के आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं। वैसे देश में डेंगू का जो प्रकोप देखा जाता रहा है, वह कोई नई बात नहीं है बल्कि प्रतिवर्ष मानूसन के दौरान और उसकी विदाई के बीच डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों का बोलबाला बहुत ही सामान्य सी बात है। इसके बावजूद हर साल की वही कहानी और डेंगू के कारण होती सैंकड़ों मौतों के आंकड़े शासन-प्रशासन से लेकर सामुदायिक स्तर पर होती लापरवाही को ही स्पष्ट परिलक्षित करते रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अब डेंगू के मामले केवल मौसम विशेष तक ही सीमित नहीं रहमे बल्कि सालभर डेंगू के मामले सामने आते रहते हैं।

तमाम दूसरी बीमारियों की ही तरह डेंगू से बचाव का भी सबसे आसान और कारगर उपाय यही है कि उसकी चपेट में ही न आया जाए और इसके लिए

डेंगू नामक बीमारी कितनी भयावह हो सकती है, उसका अनुमान इसी पहलू से आसानी से लगाया जा सकता है कि समय से उपचार नहीं मिलने के कारण डेंगू पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, पिछले साल देश के विभिन्न राज्यों और विशेषकर उत्तर प्रदेश में डेंगू से पीड़ित हुए कई मरीजों की मौत के आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं, वैसे देश में डेंगू का जो प्रकोप देखा जा रहा है, वह कोई नई बात नहीं है

अपेक्षित सावधानियां बरती जाएं। चूंकि डेंगू मच्छरों के कारण फैलता है और मच्छर प्राय: गंदगी और ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, इसलिए सबसे जरूरी तो यही है कि डेंगू से बचने के लिए अपने आसपास स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी की जद में आ जाए तो उसे बिना देर किए अपना उपचार शुरू कर देना चाहिए। यदि समय से सही इलाज नहीं मिले तो डेंगू अमूमन चार-पांच दिनों में ही गंभीर रूप धारण कर लेता है। हालांकि कई बार कुछ मरीजों में यह देखने को भी मिलता है कि डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को बुखार आना बंद हो जाता है और ऐसी स्थिति में मरीज और उसके परिजनों को यही लगता है कि मरीज डेंगू से उबर गया है लेकिन ऐसे अधिकांश मामलों में लापरवाही मरीज की जान पर भारी पड़ जाती है।

किसी भी व्यक्ति में डेंगू के शुरुआती लक्षण उभरने के बाद ऐसी विकट परिस्थितियों से सामना न हो, उसके लिए जरूरी है कि लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करने पर विशेष जोर दिया जाए। दरअसल जानलेवा डेंगू से बचने के लिए सावधानियां और सतर्कता बरता जाना बेहद जरूरी है। डेंगू हो या मच्छर जनित अन्य बीमारियां, उनसे बचने के लिए अपने आसपास के स्थान की समुचित साफ-सफाई करने को अपनी आदतों का हिस्सा बना लेना अत्यंत आवश्यक है। दरअसल अमूमन देखा जाता है कि लोग अपने घरों की साफ-सफाई तो कर लेते हैं किन्तु अपने आस-पड़ोस की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। इस स्तर पर बरती जाने वाली लापरवाही प्राय: बहुत भारी पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति को डेंगू हो भी जाए तो सबसे जरूरी है उसकी डाइट पर विशेष ध्यान दिया जाए और उसके इम्यून सिस्टम को सही रखने का भी प्रयास किया जाए। डेंगू के मरीज को संतुलित और पौष्टिक आहार ही दिया जाना चाहिए।

डेंगू के उपचार में बहुत से लोग घरेलू नुस्खों का भी सहारा लेते हैं और इन नुस्खों में तुलसी का उपयोग बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा डेंगू हो जाने पर घरेलू नुस्खों में नारियल पानी एक अच्छा विकल्प है, जिसे शरीर में रक्त कोशिकाओं की कमी को पूरा करने में मददगार माना जाता है। दरअसल नारियल पानी में काफी मात्रा में इलैक्ट्रोलाइट्स के अलावा बहुत सारे खनिज पदार्थ भी होते हैं। डेंगू के उपचार में विटामिन सी से भरपूर वस्तुओं का उपयोग भी बहुत लाभकारी माना गया है, जो शरीर के रोग प्रति. रोधी तंत्र को मजबूत बनाए रखती हैं। इसलिए डेंगू हो जाने पर विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन करना लाभकारी है। बहरहाल, यदि इसके बावजूद मरीज की स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आए या परेशानियां बढ़ती दिखें तो तुरंत अपने चिकित्सक या नजदीकी अस्पताल से सम्पर्क करना चाहिए क्योंकि डेंगू के इलाज में लापरवाही मरीज की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है।

(लेखिका डेढ़ दशक से शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हैं)

प्रकृति के रहस्यों की खोज...

सत्यवती एम. सिरसाट

1948 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने टाटा मेमोरियल के पैथोलॉजी विभाग को एक पूर्ण कैंसर अनुसंधान संस्थान बनाने का निर्णय लिया, एक वरिष्ठ शोध छात्र से ऊपर उठकर मैं इस नए शोध केंद्र की संस्थापक सदस्य बनी

अपने बारे में लिखने बैठें, तो बचपन से जुड़े अनुभव और यादें उभर ही आती हैं। मेरा जन्म कराची में हुआ था, और मेरे पिता के शिपिंग व्यवसाय के कारण हम कई देशों में भटक ते रहे। मेरे माता-पिता कट्टर थियोसॉफिस्ट थे इसलिए उन्होंने मुझे बेसेंट मेमोरियल स्कूल में भेजा, जिसे डॉ. जॉर्ज और रुक्मणी अरुंडेल चलाते थे। रुक्मणी ने कलाक्षेत्र में रहते हुए प्राचीन भारतीय कला और संगीत का पुनर्जागरण किया था। किशोरावस्था में मैंने पॉल डी क्रुइफ की किताब दी माइक्रोब हंटर्स पढ़ी, जिसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। औपचारिक शिक्षा के साथ मुझे सांस्कृतिक धरोहर का भी लाभ मिला। मैंने मुंबई के सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री प्राप्त की। पहली बार जब मैंने प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से ग्राम पॉज़िटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की मिली-जुली स्लाइड देखी तो मुझे ऐसा जज़्बाती रोमांच हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती।

डिग्री प्राप्त करने के अगले ही दिन मैं बिना सोचे-समझे प्रयोगशाला के अध्यक्ष और टाटा मेमो. रियल हॉस्पिटल के प्रमुख पैथोलॉजिस्ट (कैंसर और सम्बंधित रोग) डॉ. वी. आर. खानोलकर के कार्यालय के बाहर खड़ी थी। न कोई फोन कॉल न कोई अपॉइंटमेंट-मैं तो बस उनसे मुलाकात के इंतज़ार में खड़ी रही। करीब दो घंटे बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और लंबी बातचीत की। मुझे नहीं पता था कि यह उनका युवाओं का साक्षात्कार लेने का तरीका था। अंत में उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी जिस बारे में बातचीत हुई है, क्या मैं वह सब संभाल पाऊंगी। मैंने युवा अक्खड़पन के साथ कहा कि बिलकुल! और इस तरह मेरे विज्ञान के जीवन की शुरुआत हुई।

डॉ. खानोलकर बहुआयामी व्यक्तित्व थे। वे एक चिकित्सक थे जिनमें वैज्ञानिक सोच तो स्वाभाविक रूप से थी। साथ ही वे कला प्रेमी, भाषाविद और कई भाषाओं के साहित्य के विद्वान भी थे। मैंने उनसे व्यापक वैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टिकोण सीखा।

1948 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने टाटा मेमोरियल के पैथोलॉजी विभाग को एक पूर्ण कैंसर अनुसंधान संस्थान बनाने का निर्णय लिया। एक वरिष्ठ शोध छात्र से ऊपर उठकर मैं इस नए शोध केंद्र की संस्थापक सदस्य बनी। हम तीन लोगों को विदेश भेजा गया ताकि हम जैव-चिकित्सा अनुसंधान में उपयोगी नई तकनीकों जैसे जेनेटिक्स, टिशू कल्चर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सीखकर लौटें। विज्ञान के दिग्गजों-हैंसस सेलिये, अल्बर्ट जेंट-गेओरगी, लायनस पॉलिंग, एलेक्स हैडो, चार्ल्स ओबरलिंग और विलियम ऐस्टबरी-की प्रयोगशालाओं में काम करके विज्ञान की विधियों के साथ-साथ, मैंने वह वैज्ञानिक तहजीब भी सीखी जो आधुनिक जैव-चिकित्सा अनुसंधान के लिए आवश्यक है। लौटकर मैंने अल्ट्रास्ट्रक्चरल सायटोलॉजी और डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में भारत की पहली बायोमेडिकल प्रयोगशाला स्थापित की। इस केंद्र में विद्यार्थियों की भीड़ जुटने लगी, और यह अपने काम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। इस प्रयोगशाला में हमने कोशिका झिल्ली के सामान्य से असामान्य में परिवर्तित होने, कैंसर, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स और कैंसर के फैलाव, वायरस, रक्त, स्तन और नाक के कैंसर पर अध्ययन किए। हमारा मुख्य ध्यान मुंह के कैंसर की कैंसर-पूर्व स्थितियों, जैसे ल्यूकोप्लाकिया और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस तथा, सच कहूं तो, भारत में पान और तंबाकू के सेवन से फैलने वाले मुंह के कैंसर पर था। प्रयोगशाला में प्रशिक्षित शोधार्थियों को औपचारिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ-साथ और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जब बॉम्बे युनिवर्सिटी ने लाइफ साइंसेज़ में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किए तो यह एक वरदान था। मैं हमेशा अस्पताल के गलियारों में पीड़ित मानवता के प्रति जागरूक रही। हम अपने काम के वैज्ञानिक पहलुओं (जैसे इलेक्ट्रॉन हिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन ऑटोरेडियोग्राफी, क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी) के साथ-साथ मानवीय पक्ष को लेकर भी सचेत थे। कैंसर रोगियों के जीवन और उनकी मृत्यु की निकटता ने मुझे शांति अवेदना आश्रम-भारत का पहला हॉस्पाइस (मरणासन्न रोगियों का आश्रय)-शुरू करने के लिए प्रेरित किया। मैं इस संस्थान की संस्थापक ट्रस्टी और काउंसलर रही।

स्रोत फीचर्स

मैं यह बता चुकी हूं कि कैसे युवावस्था में रोमांस और यथार्थ ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और मुझे इस रास्ते पर धकेल दिया। जहां तक मार्गदर्शकों की बात है, मेरे पहले गुरु मेरे पिता थे। वे स्वभाव से एक अध्येता थे जिन्होंने शुरुआत संट ज़ेवियर कॉलेज में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर के रूप में की थी, लेकिन बाद में शिपिंग के क्षेत्र में चले गए। वे खूब पढ़ते थे और संस्कृत के विद्वान थे। ये गुण उन्होंने अपने बच्चों को भी दिए। वे लेखक भी थे। वैज्ञानिक जीवन में मेरे पहले मार्गदर्शक डॉ. खानोलकर थे, और दूसरे मेरे पति, डॉ. एम. वी. सिरसाट, जिन्होंने मेरे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे बीच उम्र का काफी अंतर था, लेकिन वे मेरे दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने-माने ऑन्को-पैथोलॉजिस्ट (कैंसर-निदान विशेषज्ञ) थे, जो सामान्य से रोगग्रस्त अवस्था की ओर संक्रमण, विशेषकर नियोप्लेसिया और दुर्दम्यता (मैलिगनेंसी) के संदर्भ में गहन जानकारी रखते थे। वे नौजवान पैथोलॉजिस्ट्स के बीच बेहद लो. कप्रिय शिक्षक थे। जब भी मुझे इस भयावह बीमारी की जटिलताओं से जूझना पड़ता, वे इसे धैर्य और स्नेह से हल कर देते। हमारा यह साथ काफी अद्भुत था। उन्होंने मेरे शोध को हर संभव समर्थन दिया और मेरी पेशेवर उपलब्धियों पर गर्व महसूस किया।

क्या मैंने कभी अपना करियर बदलने पर विचार किया? नहीं, कभी नहीं! मैं कभी भी अपने पेशे को बदलने के बारे में सोच नहीं सकी। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह टाटा मेमोरियल सेंटर और पूरी दुनिया की प्रयोगशालाओं में मेरी साधना और तपस्या थी। यह मेरे काम के साथ एक 'प्रेम कहानी' थी, जिसमें मैंने जो ज्ञान अर्जित किया, उसे भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के सैकड़ों विद्यार्थियों तक पहुंचाया।

सेवानिवृत्त के बाद भी मैं टाटा मेमोरियल सेंटर की मेडिकल एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम करती रही। मैंने 17 साल तक भारतीय विद्या भवन आयुर्वेदिक केंद्र में 'प्राचीन ज्ञान और आधुनिक खोज' पर काम किया। इस कार्य में संस्कृत के ज्ञान ने मेरी काफी मदद की। मैंने वृद्धात्रयी-चरक, सुश्रुत और वाग्भट में कैंसर वर्गीकरण के एक प्रोजेक्ट पर काम किया। यह देखकर हैरानी होती है कि इन प्राचीन विद्वानों के विवरण आधुनिक विज्ञान से कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं। उन्हें विभिन्न ऊतकों (टिश्यू) के ट्यूमर और उनके जैविक व्यवहार, सौम्य और घातक (बेनाइन और मैलिग्नेंट) कैंसर तथा हड्डी और रक्त कैंसर के बारे में गहरी जानकारी थी। उनके पास तो केवल मानव शरीर, मृत व्यक्ति का बारीकी से निरीक्षण तथा उनका अंतर्ज्ञान ही एकमात्र साधन था। आखिर में युवा वैज्ञानिकों के लिए कुछ बातें: क्या आप एक सम्मानित वैज्ञानिक कहलाना चाहते हैं? जीवन के सिद्धांत सख्त होते हैं! अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और खुद से सच्चे रहें। अनुशासन बनाए रखें। अपने साथी वैज्ञानिकों के काम का कभी अपमान न करें। सतर्क रहें दृ अपनी लॉगबुक या रिकॉर्ड में किसी पहले से तय सिद्धांत के अनुसार कभी हेरा-फेरी न करें।

पाकिस्तान से टेंशन के कम होने के बाद ब्रिटेन के साथ भारत की 'महाडील' पर ध्यान देने की बारी

ब्रिटेन सरकार का कहना है कि इस समझौते से 2040 तक ब्रिटेन की जीडीपी में 4.8 अरब पाउंड की बढ़ोतरी होगी

अशोक भाटिया

हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने एक बड़ा व्यापार समझौता किया है। यह समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके साथ ही एक और समझौता हुआ है, जिसका नाम है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन में उनके समकक्ष कीर स्टारमर ने इस बारे में बात की। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भारत और ब्रिटेन दोनों को फायदा होगा। व्यापार में आसानी होगी, निवेश बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगी और नए विचारों को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता तीन साल से चल रही बात. चीत के बाद हुआ है।

इसका लक्ष्य है कि 2040 तक दोनों देशों के बीच व्यापार 25.5 अरब पाउंड बढ़ जाए। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि इस समझौते से 2040 तक ब्रिटेन की जीडीपी में 4.8 अरब पाउंड की बढ़ोतरी होगी। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी है। भारत और ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत होने के ठीक बाद भारत ने आधी रात के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, और व्यापार के विकास को स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज कर दिया गया। आज, लगभग एक हफ्ते बाद, भारत और पाकिस्तान एक हथियार समझौते पर पहुंच गए हैं, इसलिए मुक्त व्यापार समझौते के महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देना समय होगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में सत्ता में आने के बाद अलग-अलग तीव्रता के साथ दुनिया के सभी देशों पर आयात शुल्क लगाने की नीति की घोषणा की। अन्य देशों ने अपने माल को अत्यधिक शुल्क के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को बेच दिया। बदले में, उन्होंने अपने बाजारों में अमेरिकी सामानों पर भारी शुल्क लगाया। ट्रम्प ने वास्तव में सहयोगियों पर उतना ही आयात शुल्क लगाया जितना दुश्मनों पर। इस नीति में आर्थिक ज्ञान कम और खोखला राष्ट्रवाद अधिक था। बुद्धिमत्ता को महसूस करने के बाद, कई टैरिफ काट दिए गए या लागू किए गए।

जो भी हो, संयुक्त राज्य अमेरिका के इस रुख ने दुनिया भर में दो-राष्ट्र व्यापार समझौते की आवश्यकता पैदा की। यह भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने का कारण है, जो कुछ वर्षों से बातचीत में अटका हुआ है। दोनों देश आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए। सौदे के कुछ विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं किए गए हैं। भारत के ठीक दो दिन बाद अमेरिका ने भी ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील साइन की। उनमें से अधिकांश विवरण अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। ब्रिटेन की पहल के कारण यूरोपीय संघ भी भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए जोर दे रहा है। समूह की संयुक्त आर्थिक ताकत ब्रिटेन की तुलना में बड़ी है। जबकि यह सब चल रहा है, यह अत्यधिक संभावना है कि अमेरिका भी व्यापार सौदे को पूरा करने के लिए भारत के लिए 'प्यार खो देगा'। भारत के लिए, जिसने वर्षों से एक बंद अर्थव्यवस्था और सुरक्षित बाजारों को लागू किया है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त या अधिकतर मुक्त व्यापार करने में, उसे कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और कुछ व्यापार बाधाओं को छोड़ना होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि इससे आर्थिक लाभ क्या होंगे। फिर भी कुछ विदेशी वस्तुओं से निपटने के लिए कृषि और लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों की आर्थिक और मानसिक तैयारी भारतीय बाजारों में सस्ती होगी। इस बारे में कुछ धारणाएं होनी चाहिए। जब दुनिया के किसी भी देश में व्यापार समझौता और टैरिफ कटौती होती है, तो संबंधित देशों में सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, हल्की, मध्यम और गंभीर। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भाजपा नेतृत्व चुनावों को बहुत गंभीरता से ले रहा है, इसलिए सरकार को आर्थिक और राजनीतिक लाभों को संतुलित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पहला, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बारे में। दुनिया की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच समझौता दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहली बार है जब भारत ने एक प्रमुख देश के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह ब्रेक्सिट के बाद से यूके द्वारा सबसे बड़ा व्यापार सौदा था। यह अगले कुछ वर्षों में ब्रिटेन से भारत में आयात किए जाने वाले 90 प्रतिशत माल पर टैरिफ में कटौती करेगा, जबकि ब्रिटेन में भारत के निर्यात का 99 प्रतिशत विभिन्न दरों पर कटौती की जाएगी। समझौते के तहत दोनों देशों के 34 अरब डॉलर (करीब 3 लाख करोड़ रुपये) बढ़ने की उम्मीद है। भारत में कपड़ा, फल और सब्जियां, मांस, मछली, चमड़ा, वाहनों के स्पेयर पार्ट्स और आभूषणों के निर्यातकों को इससे लाभ होने की उम्मीद है, जबकि ब्रिटेन में शराब और ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए भारतीय बाजार टैरिफ कटौती के लागू होने के बाद उपलब्ध होगा। प्रसारित किए गए छोटे आंकड़ों के आधार पर, व्हिस्की और जिन पर 150 प्रतिशत आयात शुल्क घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसे एक वर्ष के भीतर घटाकर 40 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है। ब्रिटेन निर्मित कुछ कारों पर आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से 100 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। लेकिन इस फैसले में कई कमियां हैं। इंजन क्षमता और कोर कीमतों पर विचार किया जाएगा। कम लागत वाली कारों को बाहर रखा गया है ताकि भारत में बड़े पैमाने पर कार निर्माण कंपनियों को ज्यादा नुकसान न हो।

(ये लेखक के निजी विचार है)

गर्मी में शरीर को हेल्दी और हाइड्रेटेड रखने के लिए जरूर करें इन तीन ड्रिंक्स का सेवन

गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए जो दिनभर एक्टिव रहते हैं, फिर चाहे ऑनलाइन हो या फिर चलते-फिरते। गर्मियों में सिर्फ पानी ही काफी नहीं होता, शरीर को ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी जरूरत होती है, जो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इससे थकान, चक्कर आना या डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आज हम आपको तीन ऐसे कूल और हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपको तरोताजा रखेंगे, बल्कि आपके गर्मियों के दिनों को भी सुपरचार्ज कर देंगे।

आम पन्ना...

उन्होंने आम पन्ना की तारीफ करते हुए कहा कि यह पसीने से खोए तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद करता है और विटामिन सी से भरपूर होता है। श्वेता ने आगे कहा कि आम पन्ना पाचन स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और इसमें काला नमक और जीरा पाउडर मिलाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। यह विटामिन सी का भी एक बेहतरीन स्रोत है, जो गर्मियों में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

बेल का जूस...

श्वेता ने बताया कि बेल फल, जिसे वुड एप्पल भी कहा जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका जूस पाचन में सुधार करने और गर्मी से संबंधित समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार साबित होता है। बेल फल के जूस का सेवन करने से आप गर्मियों में अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं।

फालसा जूस...

श्वेता ने बताया कि फालसा या भारतीय ब्लैकबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसका जूस शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि फालसा जूस एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन स्रोत है और इसका सेवन करने से आप अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं। श्वेता ने सलाह दी कि जूस को ज्यादा न छानें ताकि इसके पोषक तत्वों का पूरा लाभ मिल सके।

श्वेता ने अपने कैप्शन में इन जूस के सेवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बेल के जूस में कोई चीनी या स्वीटनर नहीं डालना चाहिए। आम पन्ना में चीनी या गुड़ मिलाने से इसका असर उलट हो सकता है और शरीर निर्जलित हो सकता है।

ट्रम्प को चढ़ा नया फितूर

भारत में उत्पादन पर ट्रम्प ने एप्पल को चेताया

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां बनाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल सीईओ के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी ट्रम्प ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। वहीं, ट्रम्प ने कहा कि भारत ने हमें ट्रेड में जीरो टैरिफ डील की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार है। ट्रम्प ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ एक कार्यक्रम में एप्पल सीईओ के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। मुझे कल टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी हुई। मैंने उनसे कहा, टिम, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तुम 500 बिलियन डालर लेकर आ रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि तुम पूरे भारत में प्रोडक्शन कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो।

अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो तुम भारत में निर्माण कर सकते हो क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। भारत में बेचना बहुत मुश्किल है और उन्होंने हमें एक डील आफर की है जिसके तहत वे हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार हैं। मैंने टिम से कहा, टिम, देखो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, हमने वर्षो तक चीन में तुम्हारे द्वारा बनाए गए सभी संयंत्रों को सहन किया, अब तुम्हें अमेरिका में निर्माण करना होगा, हम नहीं चाहते कि तुम भारत में निर्माण करो। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50 प्रतिशत आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमे. रिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री आफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपाड्स, एप्पल वाच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रही है। एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग भारत की ओर इस साल के आखिर तक शिफ्ट कर लेती है, तो 2026 से यहां सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन का प्रोडक्शन होगा। यह मौजूदा कैपेसिटी से दोगुना है। आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग पर अभी चीन का दबदबा है। IDC के अनुसार, 2024 में कंपनी के ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में इसका हिस्सा लगभग 28 प्रतिशत था।

अंबानी ने दोहा में ट्रम्प, अमीर शेख से की मुलाकात

दोहा। रिलायंस उद्योग के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने गुरुवार को दोहा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और कतर अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की।

अमेरिका के राष्ट्रपति पश्चिम एशिया की यात्रा में है। इसमें अमे. रिका और कतर के बीच 1.2 लाख करोड़ डॉलर के आर्थिक आदान-प्रदान की घोषणा शामिल है। अंबानी की उपस्थिति रिलायंस इंडस्ट्रीज के वैश्विक पदचिन्हों के विस्तार और कतर निवेश प्राधिकरण जैसी संस्थाओं के साथ इसके रणनी. तिक संबंधों को रेखांकित करती है, जिसने रिलायंस उपक्रमों में निवेश किया है और गूगल और मेटा जैसी अमेरिकी तकनीकी दिग्गज कंपनियों के साथ है।

भारत के हमले: पाक को भारी कीमत चुकानी पड़ी

ज्यादा सटीक हमले किए, सैन्य ठिकानों व एयरबेस को बनाया निशाना

न्यूयार्क। भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चली सैन्य झड़प पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी लड़ाई थी। दोनों देशों ने एक-दूसरे की एयर डिफेंस क्षमताओं को परखा और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दोनों ने एक-दूसरे को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा कि हमले काफी ज्यादा थे, लेकिन नुकसान दावे से कहीं कम था। इनमें भी ज्यादातर हमले भारत ने पाकिस्तानी ठिकानों पर किए थे। इस हाई-टेक वारफेयर की जमाने में दोनों पक्षों ने सटीक निशाना साधा। इस लड़ाई में दोनों पक्षों की सेनाओं को नुकसान भी उठाना पड़ा है। भारत ने पांच सैनिकों के नुकसान की बात स्वीकार की है, जबकि पाकिस्तान ने 11 सैनिकों के नुकसान की बात कही है।

हमलों से पहले और बाद की हाई रिजाल्यूशन तस्वीरों से पता चला है कि भारतीय हमलों से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये हमले सीमित और सटीक थे। पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची से 150 किमी से भी कम की दूरी पर मौजूद भोलारी एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया। भारतीय सैन्य अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने एक विमान हैंगर पर सटीक हमला किया। सैटलाइट तस्वीरों से भारत का यह दावा सही नजर आया। तस्वीरों में हैंगर वाली जगह पर साफ तौर पर बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर और प्रधानमंत्री कार्यालय से सिर्फ 25 किमी दूर भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया। परमाणु हथियारों की स्टोरेज फैसिलिटी और सिक्योरिटी यूनिट यहां से कुछ ही दूरी पर है। इस लिहाज से यह सबसे संवेदनशील सैन्य टारगेट था, जिस पर भारत ने हमला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान एयर खान एयरबेस को भी निशाना बनाया।

मेक्सिको में हुए सड़क हादसे में 21 लोगों की मौत

मेक्सिको सिटी। मेक्सिको के मध्य-पूर्वी राज्य पुएब्ला में राजमार्ग दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुएब्ला के आंतरिक मंत्री सैमुअल एगुइलर ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह हादसा तीन वाहनों से जुड़ा हुआ है और इसके कारण कई अन्य लोगों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना बुधवार सुबह कुआकनोपालन-ओक्साका राजमार्ग के किलोमीटर 31 पर हुई। घटनास्थल पर एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाएं काम कर रही हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि घातक टक्कर उस समय हुई, जब एक ट्रक ने विपरीत लेन में जाने से पहले एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया और फिर एक बस को टक्कर मार दी, फिर एक परिवहन वैन से टकरा गया।

शुभांशु शुक्ला 8 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे

नई दिल्ली। इंडियन एस्ट्रोनाट शुभांशु शुक्ला एक्सिओम मिशन 4 के तहत अब 8 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। यह मिशन पहले 29 मई को होना था लेकिन अब लॉन्च शेड्यूल में बदलाव हुआ है। नासा ने एक्स पर बताया-स्पेस स्टेशन की फ्लाइट शेड्यूल के रिव्यू के बाद कई मिशन के लॉन्च तारीखों में बदलाव हुआ है। एक्सिओम मिशन 4 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 8 जून शाम 6:41 बजे (भारतीय समयानुसार) लॉन्च होगा। एक्सिओम मिशन 4 में चार देशों के चार एस्ट्रोनाट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। नासा और इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है।

हमने भारत के घमंड को धूल में मिलाया: पाक पीएम

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पंजाब प्रांत के सियालकोर्ट पसरूर छावनी में पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने भारत के अहंकार को धूल में मिला दिया है। डान न्यूज के मुताबिक पाक पीएम ने कहा-दुश्मन, जो हमसे बड़ा है, उसे इस बात पर घमंड था कि उसके पास अरबों डालर के मिलिट्री इक्विपमेंट हैं। हमने उसे बहुत बड़ा झटका दिया है। हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। चुनाव आपका (भारत) है। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा-अगर आप हमारा पानी रोकते हैं, तो यह हमारी रेड लाइन है। पानी पर हमारा हक है। हमारी सेना हमारे अधिकार के लिए लड़ेगी। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपये (पाकिस्तानी करेंसी में) देने का ऐलान किया है। बहावलपुर में जैश के आतंकी ठिकानों पर आपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की स्ट्राइक में मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। इनमें मसूद की बहन और भांजे-भतीजे शामिल थे।

इंडोनेशिया में 18 संदिग्ध सशस्त्र अलगाववादी मारे गए

जकार्ता। इंडोनेशियाई सेना ने गुरुवार को कहा कि उसके गश्ती दल ने देश के मध्य पापुआ प्रांत के इंतान जया रीजेंसी में 18 संदिग्ध सशस्त्र अलगाववादियों को गोली ढेर कर दिया। टीएनआई के प्रवक्ता क्रिस्टोमी सियानतुरी ने एक बयान में कहा कि बुधवार सुबह स्थानीय समयानुसार सुबह चार से पांच बजे के बीच टिटिगी, नडुगुसिगा, जैनडापा, सुगापा लामा और ज़ानम्बा गांवों में गोलीबारी हुई। सियानतुरी के अनुसार गश्ती दल का उद्देश्य शुरू में उन गांवों के निवासियों को स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाएं प्रदान करना था।

सूडानी छात्र की चाकू घोंपकर हत्या, 6 पकड़े

फगवाड़ा। पंजाब के फगवाड़ा में एक निजी विश्वविद्यालय के निकट गुरुवार सुबह हुए हिंसक झगड़े में एक सूडानी छात्र की बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई तथा अन्य एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव तूरा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रूपिंदर भट्टी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फगवाड़ा पुलिस टीम ने त्वरित और सराहनीय कार्रवाई करते हुए अपराध के पांच घंटे के भीतर सभी छह आरोपियों को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना आज तड़के लॉ गेट के पास ग्रीन वैली इलाके में हुई, जो कि गांव माहेरू में है- यह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, खासकर अफ्रीकी देशों से आए छात्रों का आवासीय केंद्र है। तूरा ने बताया कि सतनामपुरा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी और घायल छात्र अहमद मोहम्मद नूर अहमद हुसैन के बयान के अनुसार, वह और मृतक मोहम्मद वादा बाला यूसुफ अहमद, दो सूडानी महिला छात्रों के साथ सुबह की नमाज (नवाज) से लौट रहे थे, जब उन्हें कुछ लोगों के एक समूह ने रोका।

सीरिया पर लगे तमाम प्रतिबंध हटे

84 करोड़ के इनामी आतंकवादी से मिले ट्रम्प

रियाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सीरिया पर लगाए गए सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने का आदेश दिया है। ट्रम्प ने कहा कि यह फैसला सीरिया को दोबारा तरक्की करने का मौका देगा।

इस आदेश के अगले ही दिन ट्रम्प ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात की। कभी टाप मोस्ट वांटेड आतंकी रह चुके अल-शरा से ट्रम्प की मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अहमद अल-शरा ने 2011 में सीरिया में कई आत्मघाती हमले कराए थे।

अमेरिका ने उस पर 10 मिलियन डालर (करीब 84 करोड़ रुपये) का इनाम रखा हुआ था, जिसे 5 महीने पहले दिसंबर में हटा दिया गया था। ट्रम्प के साथ सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा (दाएं)। इस मुलाकात के दौरान सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (बाएं) भी मौजूद रहे। अहमद अल-शरा को पहले अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से जाना जाता था।

जुलानी 2003 में मेडिकल की पढ़ाई छोड़ अल कायदा नेताओं के संपर्क में आया। उसे अमेरिकी सेना ने 2006 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद अल-शरा ने 2012 में अल कायदा की सीरिया शाखा जबात अल-नुस्र का गठन किया।

2016 में वह अल कायदा से अलग हो गया और हयात तहरीर अल-शाम HTS की स्थापना की। दिसम्बर 2024 में बशर अल-असद के पतन के बाद जुलानी ने सत्ता संभाली। इसके बाद दुनिया को उसके असली नाम का पता चला।

कश्मीर में स्थानीय आतंकवाद में रिकॉर्ड गिरावट

पहलगाम में पर्यटन बुरी तरह प्रभावित।

नगर। कश्मीर में स्थानीय आतंकवाद अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, जहां पिछले तीन दिनों में दक्षिण कश्मीर में छह स्थानीय आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या एकल अंक पर आ गई है।यह संख्या 1990 के दशक में आतंकवाद शुरू होने के बाद से सबसे कम है। यह जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी। उन्होंने कहा कि हालांकि,क्षेत्र में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की संख्या लगभग 40 है। मंगलवार को, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तीन स्थानीय आतंकवादी- शाहिद कुट्टे, अदनान शफी डार और एहसान उल हक शेख केलर के ऊपरी इलाकों में एक मुठभेड़ में मारे गए। अधिकारियों के अनुसार, शाहिद दक्षिण कश्मीर में लश्कर के ऑपरेशन कमांडर के रूप में काम कर रहा था।सभी शोपियां के रहने वाले थे।

अवंतीपोरा जिले के त्राल इलाके में गुरुवार को मुठभेड़ में तीन स्थानीय आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने कहा कि उनके मारे जाने के साथ ही कश्मीर में अब केवल सात स्थानीय आतंकवादी सक्रिय रह गए हैं। माना जाता है कि शेष बचे अधिकांश आतंकवादी वर्ष 2021 के बाद शामिल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, उनमें से छह दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हैं, जबकि एक उत्तरी कश्मीर में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि अधिकांश स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित हैं, हालांकि माना जाता है कि कुछ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मंगलवार की मुठभेड़ से पहले केंद्रीय एजेंसियों ने क्षेत्र में सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या 14 आंकी थी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय आतंकवाद में गिरावट का मुख्य कारण हाल के वर्षों में नए आतंकवादियों की भर्ती में भारी कमी है, जिसके साथ-साथ आतंकवादी समर्थन नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई भी की गई है।अधिकारियों ने यह भी नोट किया कि स्थानीय आतंकवादियों की कार्यशैली में बदलाव आया है। पहले के वर्षों के विपरीत, अब वे सोशल मीडिया पर तस्वीरें या दावा पोस्ट करने से बच रहे हैं और अधिक. ांशतघ भूमिगत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वर्तमान भूमिका में विदेशी आतंकवादियों को सैन्य एवं सामरिक सहायता प्रदान करना शामिल है, विशेष रूप से जंगली इलाकों में गुरिल्ला शैली में युद्ध करने के लिए मार्ग निर्देशन करने में। सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या हालांकि एकल अंक पर आ गई है, सुरक्षा एजेंसियों को हाइब्रिड आतंकवादियों को लेकर चिताएं बनी हुई हैं। हाल में हुए पहलगाम हमले के बाद, सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है, जिसमें आतंकवादियों के कई घरों को ध्वस्त करना शामिल है।

सीईईडब्ल्यू के अरुणाभा घोष कॉप 30 के लिए दक्षिण एशिया के दूत नियुक्त

नई दिल्ली। जलवायु और ऊर्जा के क्षेत्र में एशिया के प्रमुख अध्ययन संस्थानों में एक राजधानी के काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉ. अरुणाभा घोष को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन -कॉप 30 के लिए दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है। यह सम्मेलन इस साल नवंबर में 10 से 21 तारीख तक ब्राजील में बेलेम में आयोजित किया जाएगा। सीईईडब्ल्यू की विज्ञप्ति के अनुसार डॉ घोष कॉप 30 के लिए नियुक्त हुए आठ अंतर्राष्ट्रीय दूतों में से एक हैं, जो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन दूतों में जैसिडा अर्डर्न, पैट्रिशिया एस्पिनोसा, लॉरेंस ट्यूबियाना और अदनान अमीन (आईआरईएनए के पहले महानिदेशक और कॉप 28 यूएई के सीईओ) जैसी वैश्विक हस्तियां शामिल हैं।

Recruitment For Teaching Staff

Required:
Faculty For BA/BBA/BCA/B.Ed
B.A - Subjects: Political Science, Urdu
BBA/BCA/B.Ed: All Subjects

Qualification: As per University/UGC Norms

Eligible candidates are invited to send their resumes to idcdeoband@gmail.com and appear for the interview within 15 days with original documents and a recent colored photograph.

❑ Experienced Candidates will be preferred.

ISLAMIA DEGREE COLLEGE
Deoband, Distt., Saharanpur
Affiliated to Maa Shakumbhari University, Saharanpur
Contact No. : 9045143298, 8755525452
Email Id- idcdeoband@gmail.com

BEN-HUR GURUKUL, PILIBHIT
CO-EDUCATIONAL | ENGLISH MEDIUM | SENIOR SECONDARY SCHOOL
Affiliated to C.B.S.E. New Delhi (Affiliation No. 2133377) (School Code.61314)
Estd. 2017
उज्ज्वल भविष्य की उड़ान....

CLASS X & XII 100% RESULT

Congratulations
Teachers, Parents & Students For Excellent Result...

CLASS XII BOARD RESULT 2024-25
9th CITY TOPPER NABEELA SARTAJ 95.40 %
10th CITY TOPPER KHUSHI UPADHYAY 95.00 %
HARSHIT JAINWAL 93.40 %
SALONI YADAV 92.40 %
KRITARTH SEHGAL 92.40 %
PRIYANSHI SHARMA 91.40 %
EHRAM SHAMSI 91.20 %
MOHD ASAD 90.00 %

TOTAL APPEARED	43
90% & ABOVE	08
80% & ABOVE	24
70% & ABOVE	38
60% & ABOVE	42

CLASS X BOARD RESULT 2024-25
8th CITY TOPPER SHAURYA SINGH 95.60 %
SAGAR SINGH 93.60 %
SRISHTI VERMA 93.60 %
ALEX RASTOGI 93.20 %
SHLOK GANGWAR 92.40 %
VANSHIKA SHARMA 91.20 %
SHARIYA FATIMA 91.00 %
TASHHEER WARIS 91.00 %

TOTAL APPEARED	78
90% & ABOVE	08
80% & ABOVE	37
70% & ABOVE	61
60% & ABOVE	74

Dr. Nirmal Kaur, Principal
Mr. Gurditt Singh Sahney, Managing Director
Mrs. Ranjit Sahney, Founder